ईश्वर में हमारा विश्वास

राष्ट्रीय नवीन मेल

सत्यमेव जयते

डालटनगंज (मेदिनीनगर) एवं रांची से एक साथ प्रकाशित

www.rastriyanaveenmail.com • डालटनगंज • चैत्र शुक्ल पक्ष 11 • विक्रम संवत 2080 • शनिवार, 01 अप्रैल 2023 • वर्ष-29 • अंक-165 • पृष्ठ-12 • मूल्य ₹ 1.50

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टाइपकास्ट होने की बात... पेज 10 पर

NEWS इन ब्रीफ

आज भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार

रांची। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश हुई है जबकि एक-दो जगहों पर ओलावृष्टि भी देखी गयी। आज भी कुछ स्थानों पर हल्के से माध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकतीं हैं। साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। कल से आसमान के मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। तापमान में भी कुछ इजाफा हो सकता है।

दोगुनी रफ्तार से बढ़ा कोरोना

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण दोगुना रफ्तार से बढ़ रहा है। बीते एक सप्ताह के दौरान रोजाना संक्रमित मिलने वाले रोगियों की संख्या अब दोगुना तक पहुंच गई है। देश में शुक्रवार के कोरोना के 3,095 संक्रमितों की पहचान की गई। यह लगातार दूसरा दिन है, जब एक दिन में सामने आए नए मामलों का आंकड़ा तीन हजार के पार पहुंचा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना की वजह से पांच लोगों की मौत भी हुई है। इसमें गोवा-गुजरात में एक-एक और केरल में तीन मरीजों की मौत शामिल है। इसी के साथ अब तक 5.30 लाख लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। दैनिक सकारात्मकता 2.61 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता 1.91 प्रतिशत आंकी गई। देश में कोरोना के कुल मामले 4.47 करोड़ (4,47,15,786) हो गए हैं।

अब आईजी रैंक के अधिकारी भी हो सकेंगे एसीबी प्रमुख

रांची। झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में प्रमुख के पद पर अब आईजी रैंक के अधिकारी की तैनाती हो सकेगी। राज्य सरकार के 2016 के संकल्प के अनुसार एसीबी में डीजी या एडीजी रैंक के अधिकारी ही प्रमुख हो सकते थे, लेकिन राज्य सरकार के मंत्रिमंडल व निगरानी विभाग के प्रधान सचिव वंदना दाडेल ने नया संकल्प जारी किया है, जिसके मुताबिक एसीबी में अगर डीजी या एडीजी रैंक के अफसर पदस्थापित नहीं होंगे तब आईजी रैंक के अधिकारी ही एसीबी प्रमुख होंगे। नए संकल्प के अनुसार एसीबी में पदस्थापित आईजी पंकज कंबोज अब वहां के प्रमुख होंगे।

बोलेरो व बाइक की टक्कर में युवक की मौत

मेदिनीनगर। शहर थाना क्षेत्र के चियांकी बुलेट शोरूम के पास बोलेरो के धक्के से सदर थाना क्षेत्र के ग्राम सुआ कौडिया निवासी योगेंद्र साव का पुत्र विकास कुमार उम्र 20 वर्ष की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विकास कुमार शुक्रवार की सुबह 6:00 बजे अपने घर से सब्जी बेचने के लिए डालटेनगंज जा रहा था । तभी रास्ते में चियांकी बुलेट शोरूम के पास तेज गति बोलेरो ने उसे धक्का मार दिया। जिसमें घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर शहर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल भेज दिया है। वही इस घटना के बाद से परिजनों का सदर अस्पताल में रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार मृतक प्रतिदिन अपने घर से सुबह सब्जी बेचने के लिए मेदिनीनगर आता था। वहीं इस घटना के बाद से पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई हैं।

रमजान

उर्दू कैलेंडर के मुताबिक रोजा का समय 01 अप्रैल को संध्या 6:13 और सेहरी का समय 02 अप्रैल को सुबह 4:32 मिनट में

रांची पुलिस का कारनामा

हत्या के मुख्य आरोपी को छोड़ हमनाम को भेजा जेल

❑ सीआईडी के संज्ञान में आने के बाद जांच के आदेश ❑ नगड़ी पुलिस पर निर्दोष सूरज कुमार सोनी को जेल भेजने का आरोप

नवीन मेल संवाददाता। रांची

रांची में हत्या के मुख्य आरोपी को छोड़ उसी नाम के दूसरे युवक को जेल भेजने का मामला सामने आया है। आरोपी है कि युवक ने मुख्य आरोपी को जेल भेजने के बजाय सूरज कुमार सोनी नाम के दूसरे युवक को जेल भेज दिया। सूरज बीते 17 माह से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। सूरज की रिहाई के लिए उसकी मां मीरा देवी ने सीआईडी मुख्यालय जाकर डीजी अनुराग गुप्ता से मुलाकात की। जिसके बाद सीआईडी मुख्यालय से इस मामले में जांच के आदेश जारी किए गए हैं। एसपी संध्या रानी मेहता को निर्देश दिया गया है कि पूरे मामले को देखें, साथ ही इस मामले में रांची क्राइम ब्रांच टीम को जांच का आदेश दिया गया है।

क्या है मामला : जानकारी के मुताबिक, 9 सितम्बर 2021 को नगड़ी में बिरसा महतो के यहां तीज पूजा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में विमल व सूरज कुमार सोनी उर्फ कल्लू के बीच विवाद हो गया था। तब सूरज अपने दोस्त प्रिंस सोनी के साथ मिलकर विमल को ऑटो में बैठाकर कहीं ले गया। अगले दिन विमल महतो का शव लावारिश अवस्था में पिस्का रेलवे स्टेशन के समीप बरामद किया गया। मृतक के भाई बरजू महतो के बयान पर पुलिस ने तब सूरज व प्रिंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लेकिन नगड़ी पुलिस ने 12 सितम्बर 2021 को प्राथमिक अभियुक्त सूरज कुमार सोनी को गिरफ्तार करने के बजाय पिस्का के गोसाईंटोला में रहने वाले सूरज कुमार सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

तत्कालीन एसएसपी से लेकर डीजीपी तक शिकायत

सूरज कुमार सोनी की मां मीरा देवी का आरोप है कि पूरे मामले में उन्होंने तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा से लेकर डीजीपी तक शिकायत की, लेकिन किसी ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। वर्तमान में मामला अदालत में विचाराधीन है।

कोर्ट में भी पक्ष में आए तथ्य

मीरा देवी ने सीआईडी को दिए आवेदन में बताया है कि घटना की सूचन यानि मृतक के भाई, मौजूदा प्रत्यक्षदर्शी, आयोजनकर्ता समेत छह लोगों की गवाही कोर्ट में हो चुकी है, जिसमें से प्रत्येक ने कोर्ट को बताया है कि उनका पुत्र सूरज कुमार सोनी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। विमल महतो का झड़प दूसरे सूरज कुमार सोनी उर्फ कल्लू के साथ हुआ था। आरोपी सूरज कुमार सोनी अब भी खुलेआम घूम रहा है। वह एक रेस्तरां में काम करता है। मीरा देवी का आरोप है कि मुख्य आरोपी उनके घर आकर धमकी भी देता है। परिवार को डराता-धमकाता है, लेकिन उनका बेटा निर्दोष होने के बाद भी 17 महीने से जेल में बंद है। महिला का आरोप है कि जब कभी वह थाने जाती है, वहां से उन्हें भगा दिया जाता है।

पंकज मिश्रा के सहयोगियों पर

ईडी का शिकंजा

बेटे व भाई के खिलाफ भी ईडी ने लिया वारंट

फरार रहने पर दाहू यादव व सुनील यादव के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश

नवीन मेल संवाददाता। रांची

झारखंड में एक हजार करोड़ के अवैध खनन के मास्टरमाइंड पंकज मिश्रा के सहयोगियों पर ईडी का शिकंजा पूरी तरह कस गया है। शुक्रवार को ईडी ने पंकज मिश्रा के दाहिना हाथ माने वाले जाने हिस्ट्रीशीटर दाहू यादव और उसके भाई की सुनील यादव की संपत्ति कुर्क करने के लिए कुर्की वारंट जारी किया है। एक दर्जन से अधिक समन के बाद भी दोनों आरोपी ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे, तब पूर्व में उनके खिलाफ वारंट व इश्तेहार की कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी नहीं होने पर ईडी ने कोर्ट से कुर्की वारंट लिया है। साहिबगंज पुलिस को कुर्की वारंट का तामिला कराना होगा। दाहू यादव आखिरी बार 18 जुलाई को ईडी के समक्ष उपस्थित हुआ था, लेकिन पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी जब उसे आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती थी, तब वह फरार हो गया। शुरूआती दिनों में उसने परिजनों की बीमारी का बहाना बनाकर वक्त की मांग एजेंसी से की थी। सुनील यादव भी पूछताछ में कभी एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। जांच में यह बात सामने आई थी कि दाहू यादव की आपराधिक छवि का इस्तेमाल कर पंकज मिश्रा उससे प्रत्येक अवैध या वैध ट्रक से वसूली कराता था। साथ ही जलमार्ग के रास्ते अवैध पत्थर के परिवहन का पूरा कामकाज दाहू यादव ही संभालता था।

दाहू यादव के बेटे राहुल यादव व पिता पशुपति यादव के खिलाफ भी ईडी ने गैर जमानती वारंट लिया है। राहुल व पशुपति को भी मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी ने कई बार समन किया था, लेकिन दोनों ने मनी लाउंड्रिंग केस में ईडी को सहयोग नहीं किया, जिसके बाद ईडी ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लिया है। अवैध खनन के केस में पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद रिम्स में उसकी बात प्रशासनिक, पुलिस अफसरों से कराने वाले सूरज पंडित और चंदन यादव को भी ईडी गिरफ्तार करेंगी। अक्टूबर 2022 में ईडी ने रिम्स में पंकज मिश्रा के पेइंग वार्ड में छापेमारी की थी, इसके बाद कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। ईडी ने तब चंदन व सूरज के मोबाइल फोन समेत छह सिम कार्ड बरामद गए थे। मनी लाउंड्रिंग के आरोपी को मदद पहुंचाने के आरोपी चंदन व सूरज से ईडी ने शुरुआती पूछताछ की थी, लेकिन बाद में दोनों एजेंसी के समक्ष कई समन के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। दोनों के अंडरग्राउंड होने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ वारंट के लिए रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में आवेदन दिया था। ईडी को वारंट मिल चुका है, ऐसे में अब दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास एजेंसी तेज करेगी।

नक्सलियों ने चाईबासा में लूटा विस्फोटकों का जखीरा, पर्चे छोड़कर दी धमकी

नवीन मेल संवाददाता। रांची

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा) जिले में विस्फोटक पदार्थों की बड़ी लूट हुई है। भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने माइनिंग कार्य के लिए विस्फोटकों की सप्लाई करने वाली कंपनी के मैगजीन पर बीती रात धावा बोलकर इस घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि एक सौ से भी ज्यादा हथियारबंद नक्सलियों ने देर रात बड़ाजामदा थाना के परमबालजोड़ी गांव के पास जंगल में स्थित डीके घोष कंपनी के मैगजीन पर हमला किया।

यहां सुरक्षा में तैनात प्राइवेट गार्डस को हथियारों का भय दिखाकर कब्जे में ले लिया और इसके बाद वहां रखे गए पांच हजार से अधिक डेटोनेटर, सैकड़ों इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर और सैकड़ों मीटर कोडेक्स वायर लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने सड़क पर कई पर्चे छोड़ रखे हैं।

पर्चे में लिखा है- सावधान, तुरंत यहीं रुक जाएं, आगे रोड पर बारूदी सुरंग लगा हुआ है, कोई भी ग्रामीण आगे नहीं बढ़ें, वापस यहीं से चले जाएं। इन पर्चों से इलाके में दहशत है। जिन सड़कों में पर्चे हैं, वहां आवागमन ठप है।

नक्सलियों ने बड़ाजामदा ओपी थाना क्षेत्र के परमबाल जोड़ी गांव के जंगल जाने वाले रास्ते पर एक लाल रंग का कपड़ा लपेट कर एक बॉक्स सड़क पर छोड़ दिया है। जिस स्थान से लूट हुई है, वहां विस्फोटकों के खाली कार्टून बड़ी संख्या में बिखरे पड़े हैं। चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर ने विस्फोटकों की लूट की घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। नक्सलियों की गिरफ्तारी और विस्फोटकों की बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को पुलिस बलों की तैनाती रामनवमी की शोभायात्राओं में सुरक्षा व्यवस्था के लिए की गई थी। नक्सलियों ने इसका फायदा उठाते हुए विस्फोटकों की लूट की घटना को अंजाम दिया। जिस कंपनी के भंडार पर धावा बोलकर विस्फोटकों की लूट हुई है, वह आयरन ओर की खदानों में माइनिंग कार्य के लिए विस्फोटक की सप्लाई करती है। कंपनी के पास इसका लाइसेंस भी है।

अब आगे की पढ़ाई कर सकेगा अंकित

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पढ़ाई के लिए मदद पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू

नवीन मेल संवाददाता। रांची

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद बोकारो के गोमिया स्थित बड़की पुन्नू निवासी अंकित कुमार को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए मदद पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही उसके परिजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी आच्छादित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को बोकारो उपायुक्त ने बताया कि अंकित कुमार एवं उसके परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। अंकित के उज्ज्वल भविष्य को लेकर जिला प्रशासन सजग है। सभी कल्याणकारी योजनाओं से अंकित के परिजनों को अच्छादित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

क्या है मामला : दरअसल, मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि बोकारो निवासी अंकित कुमार ने मैट्रिक परीक्षा 2022 में करीब 96 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वह आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ है। अंकित के पिता शारीरिक रूप से कमजोर हैं और मजदूरी करने वाली मां का वाहन दुर्घटना में हाथ -पैर टूट गया है, जिससे पूरे परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रह है। उपरोक्त मामले कि जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने उपायुक्त बोकारो को मामले की जांच कर अंकित की पढ़ाई के लिए हरसंभव सरकारी सहायता पहुंचाने एवं अंकित के परिवार को जरूरी सभी योजनाओं से जोड़ते हुए भी सूचित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई में गरीबी बाधा न बने, इसके लिए सरकार हर स्तर पर कई योजनाएं लेकर आयी है।

गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द किया पीएम की डिग्री दिखाने का आदेश

एजेंसी। अहमदाबाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। इसे गुजरात हाई कोर्ट ने तुच्छ और भ्रामक याचिका करार देते हुए आप संयोजक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और कहाः क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े-लिखे हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।

रांची नगर निगम की बैठक में

2801 करोड़ रुपये का बजट पारित

नवीन मेल संवाददाता। रांची

रांची नगर निगम परिषद की बैठक में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2801 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में रांची नगर निगम में विभिन्न मदों से 284.53 करोड़ रुपये आय का लक्ष्य रखा गया है। कर से 108.23 करोड़, निगम संपत्ति से किराया, शुल्क एवं उपयोगिता कर से 106.56 करोड़, बिक्री एवं किराया से 3.06 करोड़, राजस्व अनुदान एवं अंशदान से 50.75 करोड़, बैंक एवं इन्वेस्टमेंट से ब्याज 4.63 करोड़, निबंधन शुल्क या इसके क्षतिपूर्ति के लिए सरकारी सहायता से 6.06 करोड़ व अन्य मद से प्राप्तियों का लक्ष्य 4.63 करोड़ रुपये रखा गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र व राज्य सरकार से कुल 1662.72 करोड़ रुपये प्राप्त होने व इसके विरुद्ध 1660.21 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। मेयर ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीबों के विकास व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण, कौशल विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम व शहरी गरीबों को संगठित करने के लिए सामुदायिक संरचना का निर्माण करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए बजट में 92.61 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही निगम के आय में वृद्धि के लिए बांड के माध्यम से 200 करोड़ रुपये प्राप्त करने का उद्देश्य है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी गरीबों के विकास के लिए नगर निगम के अपने स्त्रोतों से अनुमानित आय का 25 प्रतिशत राशि अर्थात 57.29 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है। इस राशि से जिन मोहल्लों में विकास कार्य होगा, उसके लिए समेकित योजना तैयार की जाएगी। रांची नगर निगम का प्रयास होगा कि उन मोहल्लों में इलेक्ट्रिक पोलों पर एलईडी लैंप लगाए जाएं। नाली, पथ, शिक्षा व्यवस्था, जलापूर्ति, सामुदायिक भवन व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो।

इसके अलावा बजट में नाली निर्माण के लिए 74.11 करोड़, पथ निर्माण के लिए 149.67 करोड़ व 15वें वित्त आयोग से ली जाने वाली योजनाओं के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त आयोग से 110 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। इस राशि से ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन व शहरी जलापूर्ति के लिए विभिन्न योजनाएं ली जाएंगी। साथ ही फॉगिंग मशीन क्रय करने के लिए बजट में 2.59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में रांची नगर निगम ने अपने स्त्रोतों से 284.53 करोड़ रुपये के आय का अनुमान किया है। इस वित्तीय वर्ष में सिटी डेवलपमेंट प्लान के लिए दो करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कार्य योजना बनाकर व अन्य अभिनव विचार को एडॉप्ट कर सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्राप्त कर व कर्मियों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सेवा के साथ-साथ राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित किया जा सके और रांची नगर निगम स्वावलंबी संस्थान के रूप में विकसित हो सके।

बदलाव

अप्रैल में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, कई सामानों के दामों में वृद्धि

आज से वित्तीय वर्ष शुरू, बदल जायेंगे कई नियम

अमरनाथ सोनी

मेदिनीनगर। पलामू के लोगों को आज से कई नये नियमों का सामना करना होगा। वित्त वर्ष 2023 खत्म हो गया। मार्च वित्त वर्ष का आखिरी महीना होता है। हर सेक्टर के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष के अंतिम महीने में कई जरूरी काम निपटाने होते हैं। क्योंकि नये वित्त वर्ष में कई नियमों में बदलाव किया जाता है। हर महीने की शुरूआत की तरह ही अप्रैल में भी कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आज से होने जा रहे इन बदलावों से सीधे पलामू के लोगों के जेब पर असर पड़ने वाला है। इस बदलावों से लोगों का बजट बिगड़ भी सकता है। जिसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।

बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल और गैस के दामः-सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल-डीजल से लेकर गैंस सिलेंडर के नए रेट जारी करती है। मार्च में गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही कमर्शियल सिलिंडर की कीमत में 350 रुपये का इजाफा किया गया था। एक बार फिर गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है।

अप्रैल में बंद रहेंगे बैंक : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रैल 2023 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई हैं। जिसके मुताबिक अप्रैल में कुल 15 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगले महीने साप्ताहिक छुट्टियों से लेकर अलग-अलग राज्यों में होनेवाले त्योहारों के चलते 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी।

कई कंपनियों की कार हो जायेंगी महंगी : ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, होंडा कार्स, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्पसहित कई कार बनाने वाली कंपनियां ने आज से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

सात लाख से कम आय वालों को नहीं देना होगा टैक्स

सरकार आज से नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को राहत देने जा रही है। बजट पेश करने के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कही थी कि नई कर व्यवस्था के तहत टैक्सेबल इनकम को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये तक आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यह लाभ केवल न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगा।

वाणिज्य कर विभाग ने 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक वसूली की : डॉ. रामेश्वर उरांव

नवीन मेल संवाददाता। रांची

वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने निर्धारित लक्ष्य 18,500 करोड़ के विरुद्ध 2500 करोड़ रुपये अधिक की वसूली कर ली है। वे शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 114 प्रतिशत की प्राप्ति है। जीएसटी कर प्रणाली के लागू होने के पश्चात मात्र पांच वर्षों तक ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कंपनसेशन का भुगतान किया जाना था जो अवधि चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में ही समाप्त हो गया। एक जुलाई 2022 से केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को कंपनसेशन का भुगतान बंद कर दिया गया है, फिर भी वाणिज्य कर विभाग में यह उपलब्धि हासिल की है। उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के कंपनसेशन की राशि को अलग करने के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त 15741 करोड़ की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 18941 करोड़ हुई है, जो लगभग 3200 करोड़ रुपये अधिक की प्राप्ति हुई है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा विगत वर्ष 2021-22 में प्राप्त राजस्व संग्रहण की तुलना में। वित्त मंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग की ओर से कंपनसेशन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ नया कदम उठाया गया।

NEWS इन ब्रीफ

स्कूल का वार्षिक परिणाम जारी, विद्यार्थी हुए सम्मानित

हरिहरगंज। विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को कक्षा नर्सरी से सप्तम वर्ग तक का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले नर्सरी में आरिफ रजा, एलकेजी में मोना कुमारी, युकेजी में सोनी कुमारी, वर्ग पहला में सत्यम कुमार, दूसरा में ज्योति कुमारी, तीसरा में जान्हवी कुमारी, चौथा में सिद्धार्थ कुमार सिंह, पांचवां में साक्षी सिंह, छठा में माही कुमारी तथा सातवां वर्ग में प्रीति कुमारी को विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं पूरे वर्ग में 97.42 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली स्कूल टॉप रही माही कुमारी को मेडल व ट्रॉफी भेंट की गयी। मौक पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह, शिक्षक सरोज चौधरी, महताब आलम, मुकेश शर्मा, रामजी सिंह, मनोज कुमार, शिक्षिका मुनी गुप्ता, दिव्या मिश्रा, दीक्षा मिश्रा, रूबाना प्रवीण आदि मौजूद थे।

महावीरी भवन से निकला जुलूस

हुसैनाबाद। महावीर भवन से रामनवमी की शोभा यात्रा हर्षोउल्लास व धूम धाम से निकाली गई। जिसमें एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक कमलेश कुमार सिंह, एनसीपी प्रवक्ता युवा नेता सूर्या सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुए। उन्होंने लोगों को मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पर रामनवमी की शुभकामनाएं दी। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि मर्यादा में रहते हुए मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम के आदर्शो को अपना कर पर्व मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आर्दशों पर चलकर ही बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने महासमिति द्वारा शांतिपूर्ण आयोजन के लिए उन्हे बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्रीराम के आर्दशों को जनजन तक पहुंचाने की जरूरत है। युवा नेता सूर्या सिंह ने जय श्रीराम के उद्घोष के साथ कहा कि श्रीराम के जन्मोत्सव पर हुसैनाबाद क्षेत्र में जो उल्लास देखने को मिला, यह क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार में एकजुटता व सहयोग की भावना लोगों में दिखती है, जो काफी सराहनीय है। साथ ही क्षेत्र व राज्य की खुशहाली व अमन चैन के लिए कामना की। आगे उन्होंने कहा कि बेहतर ढंग से त्योहार मने,इसके लिए वह खुद भी आगे आकर काम करना चाहेंगे। उन्होंने अधिकारियों पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए धन्यवाद दिया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में एनसीपी नेता, कार्यकर्ता व रामभक्त शामिल थे।

वार्षिक परीक्षा फल निष्कासित, विद्यार्थी सम्मानित

हरिहरगंज । शहरी क्षेत्र अंतर्गत सतगावां रोड़ स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में शुक्रवार को वार्षिक परीक्षाफल व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रुप से विद्यालय के प्रधानाचार्य विजयेंद्र प्रसाद व शिक्षकों ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की तस्वीर पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वही विजयेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस विद्यालय के विद्यार्थी मैट्रिक के परीक्षा में स्टेट में भी टॉपर आए है। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार भी सिखाता है। इस दौरान कक्षा प्रवेश से नवम तक के छात्र-छात्राओं को अच्छे अंक लाने पर पानी बोतल, उत्सर्ग नामक पुस्तक तथा मेडल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर नीलिमा मेहता, संजय कुमार सिंह, हंसराज गुप्ता, मोहन ठाकुर, सुनीता कुमारी, स्नेहा कुमारी, अमृता कुमारी, प्रिया कुमारी,सहित शिक्षक व छात्र-छात्राएं शामिल थे।

नेशनल आईटीआई में लगा रोजगार मेला

नवीन मेल संवाददाता

हरिहरगंज। कौआखोह स्थित नेशनल आईटीआई कॉलेज परिसर में शुक्रवार को रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में एल एंड टी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा हरिहरगंज व पीपरा प्रखंड क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवकों को कैंपस सलेक्शन कंपनी द्वारा इंस्ट्रक्टर प्रशांत कुमार साहू के द्वारा किया गया। कंपनी के प्रशांत कुमार साहू ने कहा कि परीक्षा में 42 प्रतिभागियों का सलेक्शन किया गया है। वही आईटीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव रंजन ने कहा कि बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने के लिए संस्थान प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष इस तरह का कैंपस सेलेक्शन किया जाता है। ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया हो सके। मौके पर अनुदेशक कुंदन कुमार सिंह, अरविंद सिंह, राहुल ठाकुर, प्रशांत कुमार, सुरेश कुमार, रवि रंजन वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे।

व्यवसायियों ने कराया जलपान

विश्रामपुर। राज परम्परा के अनुसार विश्रामपुर में रामनवमी जुलूस का आयोजन दशमी को किया जाता है। जिसमें लगभग बीस गावों के रामभक्त जमा होकर विश्रामपुर गढ़ के समीप बजरंगी ध्वजा के साथ शामिल होते है। जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति होती है। जिसके मद्दे नजर शहर के स्थानीय व्यवसायियों ने बस स्टैंड,थाना मोड़,महावीर मंदिर चौक, पंच मुखी मंदिर परिसर के समीप, वर मुहल्ला सहित कई अन्य स्थानों पर पानी, शरबत,खीर,गुड चना,हलवा आदि का स्टॉल लगाकर जुलूस में शामिल राम भक्तो को प्रसाद ग्रहण करवाया।

दो गोला चैता में जमकर झूमें श्रोता

नवीन मेल संवाददाता

हुसैनाबाद। पलामू जिले के हैदरनगर चौक बाजार में रामनवमीं की संध्या पर चैता दो गोला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन श्री रामनवमी समिति चौक बाजार हैदरनगर ने किया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता विनोद कुमार सिंह, राकपा नेता विनय कुमार सिंह उर्फ वीनू सिंह, राकपा युवा नेता सूर्या सोनल सिंह व किसान ब्रिगेड के कर्नल संजय सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। अभिषेक स्वामी विशेष रूप से मौजूद रहें। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अजय

जायसवाल ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिषद संगीता देवी व विशिष्ट अतिथि ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर किया। सभी अतिथि व कलाकारों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। चैता दो गोला झारखंड के व्यास वीरेंद्र वैरागी और बिहार के धर्मेंद्र धाकड़ के बीच मुकाबला हुआ। दोनों ओर से एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। जिसपर श्रोता झूमने को विवश हो गये। दोनों के बीच मुकाबले में निर्णायक मंडल ने दोनों को बराबरी का फैसला दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामप्रवेश मेहता, समिति संरक्षक संतोष कुमार सिंह, बाबा भारद्वाज दास, मुकेश मेहता, पवन कुमार, नन्दलाल प्रसाद, संतन चौधरी, आशीष गुप्ता, मंटू मेहता ने व्यवस्था बनाये रखने में विशेष भूमिका निभाई। निर्णायक मंडल में राजेश्वरी राम, लाल मोहन राम, रमेश चौधरी, सुदर्शन व्यास, विनोद पांडे, धनंजय सिंह शामिल थे। इस रोमांचक मुकाबले को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे।

अनुमंडल व ग्रामीण क्षेत्रों में भी निकला राम जन्मोत्सव पर शोभायात्रा

जुलूस में शामिल लोगों ने गगनभेदी नारे जय श्री राम, जय हनुमान, लाल लंगौटी लाल निशान के नारे को बुलंद किया

नवीन मेल संवाददाता

हुसैनाबाद। पलामू जिले के हुसैनाबाद में शुक्रवार को राम जन्मोत्सव पर धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला गया। श्री रामनवमी पूजा महासमिति महावीर मंदिर, बजरंगी महाअखाड़ा समिति, बजरंग दल, आरएसएस आदि संगठनों के नेतृत्व में 40 अखाड़ों के जुलूस का मिलान शहर के गांधी चौक पर हुआ। इसमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने परंपरागत हथियारों व महावीरी झंड़ों के साथ शामिल हुये। जुलूस में शामिल लोगों द्वारा गगनभेदी नारे जय श्री राम, जय हनुमान, लाल लंगौटी लाल निशान के नारे को बुलंद किया। इस दौरान अलग-अलग जगहों पर अखाड़ा में शामिल कलाकारों ने अपना कला का बेहतर प्रदर्शन किया। दर्जनों बड़े झंड़ों एवं आकर्षक झांकियां भी शामिल हुई । गांधी चौक पर मिलान के बाद जुलूस में शामिल लोग मुख्य बाजार रोड, गांधी चौक, मकबरा रोड, जेपी चौक, आंबेडकर चौक, जपला धरहरा नहर मोड़, मेन बाजार, जपला नदी पर आदि स्थानों का भ्रमण किया। वहीं दर्जनों स्थानों पर जुलूस में शामिल रामभक्तों के बीच स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा शर्बत और पानी आदि की व्यवस्था किया गया था। वही रामनवमी जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही थी। सभी गल्ली- मुहल्ला और चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैद रही। कार्यक्रम का समापन जपला छठ पोखरा के समीप किया गया। जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर स्थानीय विधायक कमलेश कुमार सिंह, जिप उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह,भाजपा के वरीय नेता बिनोद कुमार सिंह, रविंद्र कुमार सिंह, कर्नल संजय सिंह, संतोष सिंह, एनसीपी प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सोनल सिंह, एसडीओ कमलेश्वर नारायण, एसडीपीओ पूज्य प्रकाश, पुलिस निरीक्षक दीपक कुमार, थाना प्रभारी जगरनाथ धान,डीएसपी रीडर अशोक कुमार, रामनवमी पूजा महासमिति के संरक्षक सह जिला संघ चालक दिनेश प्रसाद कश्यप, लोकनाथ केशरी, श्रवण कुमार, राकेश तिवारी, गोपाल पाठक, सचिन आनंद, बिकु कश्यप, संतोष कश्यप, पंकज गुप्ता, सुबोध कश्यप, जितेंद्र दीनानाथ सोनी, राजकुमार कश्यप, राकेश तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, सचिन आनंद, अजय गप्ता, उदयनाथ विश्वकर्मा, उत्तम कुमार, पंकज गप्ता, जितेंद्र सोनी, अजित अग्रवाल, मंजय चौधरी आदि सक्रिय रहे।

एकता **रावण दहन कार्यक्रम संपन्न, हजारों की उमड़ी भीड़**

भगवान राम के आर्दशों को अपनायें

नवीन मेल संवाददाता

पांकी। सिंचाई विभाग के प्रांगण में रामनवमी पूजा कमेटी के नेतृत्व में रावण दहन सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता भाजपा, भाजपा नेता लाल सूरज, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता लवली गुप्ता, भाजपा युवा नेता अजय प्रसाद गुप्ता सहित अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के संबोधन में विधायक ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर हम सभी को रावण रूपी बुराइयों का नाश कर सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। भगवान श्रीराम सत्य एवं धन धर्म के मार्ग पर चल कर ही रावण का वध कर सके थे। इसलिए आज से हम सभी भगवान श्रीराम के आर्दशों का अनुसरण कर अपना जीवन सफल बनायें। संबोधन कार्यक्रम के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय एवं बाहर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत व नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी । जिसके पश्चात देर शाम विधायक सहित अन्य अतिथियों के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। अग्नि तीर लगते ही रावण धू-धू कर जलने लगा व जमकर आतिशबाजी हुई । रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जिससे पूरा पांकी मुख्य पथ देर रात तक जाम रहा। मौके पर कार्यक्रम में प्रखंड क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

पगड़ी बांध कर किया गया सम्मानित

विश्रामपुर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूरे भव्यता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से झांकी निकाली गई । जिसमें राम दरबार के सभी इस्ट प्रतिबिंब से स्थानीय लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। जिसमें रामनवमी पूजा कमिटी के सफलता के साथ शांतिपूर्ण आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन की टीम व मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने कमिटी के अध्यक्ष मनु बक्स राय सहित अन्य पदाधिकारियों को भगवा पगड़ी बांधकर सम्मानित किया।

गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा

नवीन मेल संवाददाता

विश्रामपुर। वर्षो से चली आ रही राज परम्परा के अनुरूप विश्रामपुर में रामनवमी का जुलूस दसवीं को गाजे बाजे के साथ पूरे धूमधाम से निकाला गया। जुलूस विश्रामपुर के ऐतिहासिक पंचमुखी मंदिर से शुरू होते हुए गढ़ देवी मुहल्ला,दर्जी मुहल्ला,अंजान शाहिद देव स्थल,बाजार चौक,बस स्टेंड,सोरडीह सहित नप मुख्यालय के हर गली से गुजरते हुए स्थानीय डाक बंगला परिसर में जय श्रीराम के घोष के साथ समापन्न हुआ। रामनवमी जुलूस में राम भक्तो की भीड़ उमड़ पड़ी। जुलूस में एक ही नारा व एक ही नाम जय श्री राम, जय श्री राम से पूरा क्षेत्र गूंजाय मान हो उठा। विश्रामपुर के जुलूस में पांडेपुर, कबिलासी, उरसुला, झगरुआ,म धुरीडीह, नावाडीह, छिपादोहर, पाचघरा, बघमानवा, कोसियार सहित दर्जनों गांव के झंडों का मिलान डाक बंगला परिसर में हुआ। वही कमेटी के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें सभी सम्मानित सदस्यों को पगड़ी बांध कर समनित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा कार्य समिति सदस्य डाक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी, विशिष्ठ अतिथि एसडीपीओ सुरजीत कुमार थे। वहीं सम्मानित अतिथि यों में बीडीओ प्रशांत कुमार हेंब्रम,पुलिस अवर निरीक्षक अजय सिंह,थाना प्रभारी शशि रंजन,विधायक प्रतिनिधि रामचंद्र यादव, समजसेवि रविंदर नाथ उपाध्याय, प्रखंड विधायक प्रतिनिधि पंकज कुमार लाल, नगर विधायक प्रतिनिधि राजन पाण्डेय मौजूद थे।

पूर्व सांसद ने रामनवमी की बधाई दी

नवीन मेल संवाददाता

पाटन। रामनवमी के अवसर पर पूर्व सांसद मनोज कुमार ने अपने समर्थकों के साथ पाटन और नावाजयपुर क्षेत्र का भ्रमण कर सभी को बधाई दी। वहीं ब्रहमोरिया में पूजा समिति द्वारा पूर्व सांसद मनोज कुमार को जुलूस के दौरान पगड़ी व तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि रामनवमी रामजन्मोत्सव मनाने का मुख्य पर्व है। जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को अपने आचरण व्यवहार में लागू करना ही हम सभी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। राम का चरित्र समता,एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसलिए आज हम सभी को राम क ा आचरण ही प्रासंगिक है। जिसपर चलकर मनुष्य अपना जीवन को सफल बना सकता है। भागवान राम के चरित्र से हमें हर परिस्थितियों में धैर्यवान बनने की प्रेरणा मिलती है। राम ने मनुष्य जीवन में हर रिश्ते को बखुबी निर्वहन किया है। रामनवमी के जुलूस में पूरा प्रखंड राममय हो गया। इस अवसर पर जुलूस के साथ झाँकी भी निकाली गई। जुलूस में सभी धर्मावलम्बी अपने हाथों में भगवा झंडे लिए श्रीराम के जयघोष से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। जिसमें आजाद हिन्द ,नवयुवक संघ पाल्हे कला, नौडीहा, पूजा समिति सगुना, जंघासी, केल्हार, सेमरी, किशुनपुर व अन्य ग्रामीण क्षेत्रो में रामनवमी का भव्य जुलूस निकाला गया। मौके पर भाजयुमों के कोषाध्यक्ष शुभम क्रांति, विधायक प्रतिनिधि अशोक तिवारी, मंडल अध्यक्ष संजय सिंह, जिप विधायक प्रतिनिधि उमेश सिंह, नॉलेज सिंह, हरेंद्र सिंह, जैनेंद्र यादव सहित सैकड़ो लोग जुलूस में उपस्थित रहे।

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED

(CIN No.:U40108JH2013SGC001704)

Office of the

General Manager Transmission Zone – IV, Medininagar (Daltonganj)

Address-Sudna, Daltonganj / e-mail : gmtzdal@gmail.com

Tender Cancellation Notice

Due to unavoidable circumstances and reasons, Tender invited against **NIT No. 411/PR/JUSNL/ 2022-23** is hereby cancelled.

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचावें। कृपया अपनी शिकयतों को 18003456570(कॉल सेन्टर) पर दर्ज करायें।

PR No. 291793
PR No. 294189 Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd

Sd/-
General Manager
Transmission Zone-IV, Medininagar

Govt. of Jharkhand
URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT
GARHWA NAGAR PARISHAD

E-Procurement Notice
E-Tender Reference No. : GNP/SBD-02/2022-23

1.	Name of the Work	Proposed Additional Furnishing Works At Multipurpose Cultural Complex For Garhwa Nagar Parishad (Jharkhand)
2.	Estimated Cost (Rs.)	2,62,10,582.00 (Two Crore Sixty Two Lakh Ten Thousand Five Hundred Eighty Two Rupees) Only
3.	Tender Fee	Rs. 25000.00 (Twenty Five Thousand Only)
4.	Bid Security (Rs)	262106.00 (Two Lakh Sixty Two Thousand One Hundred Six Rupees)
5.	Time of Completion	12 Months
6.	Date of Publication of Tender on Website	03.04.203 up to 11:00 AM
7.	Last Date/Time for receipt of E-Tender on Website	13.04.2023 up to 5:00 PM
8.	Date of Opening E-Tender	17.04.2023, Time: 11:00 AM
9.	Name & Address of office Inviting Tender	Executive Officer, Nagar Parishad Garhwa-822114
10.	Contact No of E-Procurement officer	9431141644, 8409053313
11.	Helpline Number of E-Procurement cell	8409053313
12	Last Date of receipt of hard copy cost of bid document & EMD.	15.04.2023 Up to 01:00 PM

Note : 1. Only e-Tender will be accepted.
2. Any change in BOQ can be seen on website http://jharkhandtenders.gov.in
3. Further details can be seen on website http://jharkhandtenders.gov.in
4. निविदादाता को UCAN Registration (up to date) की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
5. संवेदक द्वारा 10% से कम दर देने पर एकरारनामा के समय अतिरिक्ति जमानत की राशि देनी होगी
(i) 10% से 20% Below की राशि का 20% तथा
(ii) 20% से अधिक Below की राशि का 30% अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू रहेगा।
(iii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या 2146(S) दिनांक 09.09.2020 के सभी प्रावधान लागू रहेंगे।

PR.NO.294158 Urban Development(22-23):D

Executive Officer Nagar Parishad Garhwa

GOVT.OF JHARKHAND
WATER RESOURCES DEPTT.OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WATER WAYS DIVISION, MEDININAGAR

Tender inviting Very Short Notice
Very Short-Tender Reference No.-WRD-Water Ways Division, Medininagar-F_2-07/2022-23 Dated :-31.03.2023

Sl. No.	Block	Name of Work	Sanction BOQ Amount	Earnest Money (In Rs.)	Cost of Tender Paper	Last date/Time for receipt of e-Tender upto	Date of Publication of e-Tender on website	Date & Time of Opening Bid	Name & Address of Office inviting tender	Contact No. of E.E. Procurement officer	Help line number of e-Procurement Cell	Last date of received of cost of bid document & EMD.	Time of Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	Hussainabad	RENOVATION OF JAMINDARI BANDH SACHWALAY KE PASS, VILL-PATRA KHURD , P. NO. 1221, UNDER HUSSAINABAD BLOCK (PALAMU DISTRIC)	1537928.34	30800.00	5000.00 (Non Refundable)	10.04.2023 (05:00 P.M.)	03.04.2023 (Till 02:00 P.M.)	13.04.2023 (2:00 P.M.)	Executive Engineer, Water Ways Division, Medininagar	9430195390	06562-240841	12.04.2023 (05:00 P.M.)	90 Days
02.	Hussainabad	RENOVATION OF JAMINDARI BANDH, VILL- JHARGARA, PLOT NO 2805, UNDER HUSSAINABAD BLOCK (PALAMU DISTRIC)	2391939.26	47900.00	5000.00 (Non Refundable)								90 Days
03.	Hussainabad	RENOVATION OF JAMINDARI BANDH, VILL- JHARGARA, PLOT NO 3282, UNDER HUSSAINABAD BLOCK (PALAMU DISTRIC)	2404898.27	48100.00	5000.00 (Non Refundable)								90 Days
04.	Hussainabad	RENOVATION OF JAMINDARI BANDH, KALAH TOLA TO LANGRI BANDH VILL- AMAHI, P. NO. 2586, UNDER HUSSAINABAD BLOCK (PALAMU DISTRIC)	3314520.65	66300.00	5000.00 (Non Refundable)								90 Days
05.	Hussainabad	RENOVATION OF JAMINDARI BANDH, VILL- JAMUA, P. NO. 2438, UNDER HUSSAINABAD BLOCK (PALAMU DISTRIC)	3376520.83	67600.00	5000.00 (Non Refundable)								90 Days
06.	Hussainabad	RENOVATION OF JAMINDARI BANDH, VILL- NAIKENIYA, PLOT NO 973, UNDER HUSSAINABAD BLOCK (PALAMU DISTRIC)	2761245.53	55300.00	5000.00 (Non Refundable)								90 Days
07.	Hussainabad	RENOVATION OF JAMINDARI BANDH, VILL- KACHRA, (KURMIPUR), PLOT NO 1495, UNDER HUSSAINABAD BLOCK (PALAMU DISTRIC)	5804704.41	116100.00	10000.00 (Non Refundable)								90 Days
08.	Utari Road	RENOVATION OF TARWA AHAR JAMINDARI BANDH, VILL- CHECHARIYA, PLOT NO 582,583,584, UNDER UTARI ROAD BLOCK (PALAMU DISTRIC)	5571784.87	111500.00	10000.00 (Non Refundable)								90 Days
09.	Utari Road	RENOVATION OF FUTHARWA AHAR JAMINDARI BANDH, VILL- MURMA KALA, PLOT NO 497,1445,1546, UNDER UTARI ROAD BLOCK (PALAMU DISTRIC)	5615979.95	112400.00	10000.00 (Non Refundable)								90 Days

Note :- Only e-Tenders will be accepted.
Further details can be seen on website http://Jharkhandtenders.gov.in
Mentioning of you GSTIN number is essential.

PR294217 (Water Resource)22-23*D

Executive Engineer,
Water Ways Division,Medininagar

NEWS इन ब्रीफ

आईपीएल क्रिकेट का शुभारंभ

मेदिनीनगर। आईपीएल का शुभारंभ शुक्रवार की शाम से हो गया है। पहला मैच चेन्नई और गुजरात के बीच खेला गया। आईपीएल के शुरू होने से युवाओं में अलग ही क्रेज बना हुआ है। जहां एक ओर अलग अलग टीम को सपोर्ट किया जा रहा है । वही,अपने पसंदीदा टीम के जीतने पर खुशी भी मनाया जाता है। पलामू में भी आईपीएल के दीवाने हर जगह मौजूद है। सोशल मीडिया में भी आईपीएल के मैच को लेकर कई एप्प मौजूद है। जहां युवाओं के द्वारा अपना टीम बनाकर पैसे की कमाई भी की जाती है। महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम में युवाओं के साथ साथ क्रिकेट के दीवाने भी व्यस्त रहेंगे।

डीजे साउंड से गिरकर युवक घायल

मेदिनीनगर। शहर थाना क्षेत्र के बेलवाटिका चौक के पास गुरुवार की रात 1:00 बजे डीजे साउंड से गिरकर आधा दर्जन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात रामनवमी जुलूस निकला था। डीजे साउंड के ऊपर कुछ लड़के बैठे थे,तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और डीजे साउंड से लोग गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसमें घायल एक व्यक्ति बेलवाटीकर निवासी दीपक कुमार है। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घायल को इलाज के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। वही कुछ व्यक्ति को हल्की फुल्की चोट लगी है जो सदर अस्पताल में इलाज करा कर अपने घर चले गए हैं।

सौ चूहे खाकर बिल्ली करने चली हज : रुचिर

मेदिनीनगर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी ने मेदिनीनगर नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद को शहर के मेयर के द्वारा किया गया ड्रामा है। एक पुरानी कहावत है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली करने चली हज को,वही हाल शहर के मेयर का है । अपने कार्यकाल में इन्होंने निगम में टेंडर मैनेज करा कर के काम कराया और उसमें इनका कमीशन भी शामिल रहता था । पूरे निगम में चारों तरफ घटिया निर्माण का कार्य कराया गया है । जिसमें कहीं चोरी के बालू से और कहीं छरी के डस्ट से भी काम कराया गया। लेकिन जब समय समाप्ति की ओर है तो मेयर अभी भी टेंडर मैनेज करने से बाज नहीं आ रही है और जनता के टैक्स के पैसा को लूटवाकर दोनों हाथों से पैसा कमाने में लगी हुई है । उसी के तहत अपने अंगरक्षक से टेंडर का फार्म भिजवाया जो गैरकानूनी है। अंगरक्षक उनकी सुरक्षा के लिए है । उनकी बॉडी की रक्षा के लिए है न कि टेंडर फार्म भरने के लिए। पलामू एसपी इस पर संज्ञान ले और टेंडर मामले में जिस तरह मेयर के बॉडीगार्ड ने स्वयं जाकर फार्म जमा किया है । वह अपराध की श्रेणी में आता है । नगर आयुक्त बॉडीगार्ड के द्वारा भिजवाया गया टेंडर को रद्द करें ,ताकि नए संवेदको को भी मौका मिल सके और स्वतंत्र रूप से वे टेंडर डाल सकें।

बसपा की गढ़वा इकाई भंग, कमिटी ने की कार्रवाई

विश्रामपुर। बहुजन समाज पार्टी के गढ़वा जिला इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। फिर भी पार्टी से निष्कासित पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार गौतम ने गढ़वा स्थित उत्सव गार्डन में कार्यक्रम को आयोजित किया है । जिसे बहुजन समाज पार्टी रद्द करती है। प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता ने कहा कि गढ़वा जिला के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार गौतम को अगले आदेश तक पार्टी से निष्कासित किया गया है। बसपा पार्टी संविधान के नीति और सिद्धांतों पर चलती है । पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का ऐसा निर्देश हैं कि पार्टी के पदाधिकारी से बात करने के बाद ही जिला में कोई कार्यक्रम आयोजित करना है।

श्री विष्णु मंदिर में मना राम जन्मोत्सव

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। शहर के मुख्य बाजार में स्थित श्री विष्णु मंदिर में लगातार 88 वें वर्ष धूमधाम और विधि विधान से राम जन्मोत्सव मनाया गया। परंपरा के अनुसार ठीक दोपहर 12 बजे महाआरती हुई और महाप्रसाद का भोग लगाते हुए श्रद्धालुओं के बीच वितरण किया गया। इसी बीच मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्री रामनवमी पूजा के लिए शोभा यात्रा में शामिल हजारों लोगों

के बीच चना, गुड़ और शर्बत का भी वितरण किया गया। साथ ही श्री महावीर नवयुवक दल 'जेनरल' के अध्यक्ष जुगुल किशोर को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। साथ ही अन्य पदाधिकारियों को अंगवस्त्र देकर भी सम्मानित किया गया। इस दौरान ट्रस्ट की अध्यक्ष सुचित्रा अग्रवाल, उपाध्यक्ष बबलू गुप्ता, सचिव किशोरी लाल लाठ, सह सचिव श्रवण सोनी, कोषाध्यक्ष अभय कुमार, न्यासी विजय कुमार, सतीश दुबे, महेंद्र अग्रवाल, प्रदीप कुमार, उमेश अग्रवाल, नवीन गुप्ता समेत सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे।

हमारा शहर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल : महापौर

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। निगम के महापौर अरुणा शंकर ने रामनवमी के अवसर पर श्री महावीर नवयुवक दल, चैनपुर बाजार के जनरल चंदू गुप्ता एवं साथियों के द्वारा आयोजित भव्य समारोह में तलवार एवं पुरस्कार वितरण किया। मौके पर उन्होनें कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ही सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने धरती लोक पर श्री राम के रूप में जन्म लिया था । रामलला के जन्म के पावन बेला को ही रामनवमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है । भारतवर्ष में भगवान राम को आर्दश पुरुष के रूप में जाना जाता । पौराणिक कथा और कहानियों से यह सीख लेनी चाहिए कि पुरुषों का चरित्र भगवान राम की तरह होनी चाहिए। महापौर ने कहा कि हमारे शहर की यह खासियत है कि इस पर्व को जहां हिंदू हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं । वही ,मुस्लिम इस त्योहार को मनाने में बढ़-चढ़कर सहयोग करते हैं। हमारा शहर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है।

पलामू में रामनवमी शांतिपूर्ण संपन्न

जेनरल ने किया सम्मान व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

उपकार संघ, विश्व संघ, न्यू सुरभि क्लब को मिला सर्वश्रेष्ठ रथ का पुरस्कार

अपनी आवाज को श्री राम के नारों से इतना बुलंद कीजिए कि डीजे की आवाज उसके सामने दब जाए : एसपी

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। पलामू में रामनवमी का समापन समारोह शांतिपूर्ण संपन्न हो गया । पलामू में रामनवमी मनायें जाने की परंपरा 1934 से शुरू हुई थी। तब से अब तक के परंपरा के मुताबिक रामनवमी पर्व का समापन महावीर नवयुवक दल जेनरल के द्वारा पुरस्कार वितरण व सम्मान समारोह आयोजित के साथ होता है। स्थानीय छह मुहान चौक के पास शुक्रवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता जेनरल के अध्यक्ष जुगल किशोर एवं कार्यक्रम का संचालन महामंत्री विजय ओझा ने किया। सम्मान समारोह में जेनरल के तमाम पदाधिकारी एवं मुख्य अतिथि के रूप में पलामू आरक्षी अधीक्षक चंदन सिन्हा उपस्थित रहे। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हो गया है। शोभायात्रा में शामिल श्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि आरक्षी अधीक्षक चंदन सिन्हा ने कहा कि अपनी आवाज को श्री राम के नारों से इतना बुलंद कीजिए कि डीजे की आवाज उसके सामने दब जाए। भगवान राम के आदर्शों और रामायण के पात्रों के चरित्र को जीवन में अपनाये जाने से ही मानव जन्म सफल हो सकता है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भगवान राम का हम जन्म दिन मनाते हैं । परन्तु ऐसे अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की सार्थकता तभी है । जब हम राम के आदर्श से शिक्षा ग्रहण करें। अगले साल से रामनवमी में उन्होंने पलामू पुलिस के द्वारा पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की।

किसे मिला सर्वश्रेष्ठ रथ का पुरस्कार : रामनवमी में सर्वश्रेष्ठ रथ का प्रथम पुरस्कार उपकार संघ हमीदगंज ,विश्व संघ क्लब जिला स्कूल एवं न्यू सुरभि क्लब हमीदगंज को दिया गया। जबकि द्वितीय पुरस्कार न्यू एकता स्टार क्लब हमीदगंज ,संस्कार क्लब नावाटोली एवं भारत सेवक संघ को दिया गया। तीसरा पुरस्कार न्यू सांस्कृतिक क्लब ,विश्व शांति क्लब एवं हिंदू सेना संघ को दिया गया। वही, सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का प्रथम पुरस्कार महावीर युवा मंडल ,ओम शांति क्लब एवं जय बजरंग संघ को दिया गया । जबकि सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का दूसरा पुरस्कार सांस्कृतिक क्लब, दुकानदार संघ, जय विजय संघ को दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का तीसरा पुरस्कार श्री श्री लक्ष्मी नारायण समिति ,वीर भगत सिंह एवं महावीर संघ को दिया गया।

कला प्रदर्शन करने वालों को मिला सम्मान

रामनवमी के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले परमेश्वर राम जोगीराम ,मल्लू रजक ,नागो कुमार, अजय कुमार, राजा कुमार ,श्रेष्ठ कुमार, छम छम कुमार ,आदित्य कुमार मिथिलेश सोनी, राम लखन साहू ,अवधेश प्रजापति ,सुनील कुमार ,मुनीराम, श्यामू रंजन, कृष्णा प्रसाद सोनी योगेश्वर राम ,अजय कुमार, नागौर राम, रंजीत कुमार विजय प्रेम चंद्रवंशी ,राज कुमार चंद्रवंशी, प्रेम राम ,आशीष कुमार ,रामप्रवेश, डब्लू सरस्वती, कल्लू राम ,सूरज कुमार, छोटू चंद्रवंशी, शुभ राज, आशीष दिलीप जितेंद्र गुप्ता एवं राजेंद्र पाठक को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया। वही, पांच दिन तक जेनरल का लगातार साथ देने के लिए एवं दिन रात लगातार कड़ी मेहनत करने के लिए समाज कल्याण समिति, हिंदू सेना संघ, प्रधान कैप्टन राजू चंद्रवंशी, रंजीत चंद्रवंशी एवं मुकेश कुमार अग्रवाल ,उप प्रधान कैप्टन सुनील चंद्रवंशी एवं सुनील कुमार कैप्टन काशी दादा कोलकाता ,भाई टेंट, कमल जनरेटर, गुनगुन लाइट ,आशिक बैंड एवं छोटू माली को पुरुस्कार दिया गया। उत्कृष्ट रथ का पुरस्कार मां देवी संघ ,महाकाल संघ, नमो नमो दुर्गे संघ, न्यू बाल संघ ,क्रांति संघ, बजरंगबली सेवा समिति संयुक्त नवयुवक संघ, माता अंजनी धाम, श्री राम भक्त संघ सर्वोदय संघ, महावीर सिंह, नवयुवक बजरंग क्लब, न्यू दुकानदार संघ, बालाजी क्लब ,जय विश्वकर्मा क्लब नवदीप सिंह, श्री श्री लक्ष्मी नारायण सेवा समिति, जय विजय सिंह, निराला संघ, दुकानदार संघ एवं शिवमंगल क्लब को दिया गया। मौके पर श्री महावीर नवयुवक दल जेनरल के पदाधिकारियों में गणेश गिरी मनोज सिंह मंगल सिंह, बबलू गुप्ता, रामनाथ चंद्रवंशी, नागेंद्र नागिन, मुकेश अग्रवाल, राजू चंद्रवंशी, दीपू चौरसिया, सुरेश टॉम, रंजीत चन्द्रवंशी, अभिषेक राज, प्रभात अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, छोटू अग्रवाल,सुरेश चंद्रवंशी, संजय सिंह उमेश, सोमेश सिंह ,अमृत अग्रवाल स्वेतांग गर्ग, विकास सिंह ,संजय बर्मन ,राजकुमार बर्मन समेत जेनरल के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

विहिप ने किया तिलकभिषेक का आयोजन

सभी अध्यक्षों को किया गया सम्मानित

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। रामनवमी के अवसर पर अंतराष्ट्रीय हिन्दू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा स्वंय सेवकों को शस्त्र वितरण ,पगड़ी व तिलकभिषेक का आयोजन किया गया। शहर मे पहली बार तिलकभिषेक का आयोजन किया गया। जिसमें हजारो लोगों ने माथे पर चंदन का लेप एवं श्रीराम जी का तिलक लगवाया। सभी समितियों के अध्यक्षों को तिलक, पगड़ी, शस्त्र से सम्मानित किया गया। जनरल के अध्यक्ष युगुल किशोर और डिप्टी मेयर मंगल सिंह को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रवादी अविनाश कुमार राजा ,चंचला देवी,सुधा गुप्ता,डॉ आदित्या अग्रवाल, अधिवक्ता गोरख नाथ पाण्ड्य, राजेश जायसवाल, राष्ट्रीय बजरंग दल के शुभाष वर्मा, सौरभ वर्मा, दिव्यांशु तिवारी, पंकज ठाकुर, रितेश तुलस्यान मौजूद रहे। सहयोगी के तौर पर पंकज जायसवाल व मनीष गिरी रहे।

रक्तदान कर बचाई महिला की जान

हरिहरगंज। शहर के सिनेमा हॉल रोड़ स्थित मां तेतरी नर्सिंग होम में शुक्रवार को आजसू जिला उपाध्यक्ष विशाल कुमार वर्मा उर्फ सोनू ने ईलाजरत एक महिला को रक्तदान कर उसकी जान बचायी। मालूम हो कि हरिहरगंज के खड़गपुर गांव निवासी रामचंद्र मेहता की पुत्री रीता देवी को रक्त की सख्त आवश्यकता थी। इसकी सूचना मिलते ही आजसू नेता विशाल कुमार वर्मा ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए मां तेतरी नर्सिंग होम में पहुंचकर रक्तदान करने के साथ ही दो यूनिट ब्लड की व्यवस्था की।

पीजी में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। पलामू जिला स्थित एनपीयू में नामांकन हेतु चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। पीजी में एडमिशन सत्र (2022-24) के नामांकन हेतु चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यूजी पास छात्र-छात्राएं पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीजी के नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि एनपीयू के द्वारा स्नातक के सत्र लेट होने के कारण पीजी का सत्र एक वर्ष पीछे चला गया। अब सत्र 2022-24 के नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 29 मार्च से शुरू है। जो ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल तक चांसलर पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवार चांसलर पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जांच की तिथि 25अप्रैल तक है। वहीं, नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से तीन मई, तक यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाएगी।

किन दस्तावेज की जरूरत होगी : चांसलर पोर्टल पर आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज में एनपीयू के रजिस्ट्रेशन स्लिप, यूजी का मार्क शीट, आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और एक हस्ताक्षर के दस्तावेज से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

एडमिशन के लिए आवेदन शुल्क : हर वर्ष विश्विद्यालय से पीजी में 1,500 से अधिक छात्र-छात्रा पास आउट होते है। नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 600 रुपये हैं जो आवेदको को ऑनलाइन जमा करना होगा। विश्विद्यालय में कुल 18 विभाग हैं ।

विभिन्न समितियों ने निकाला भव्य शोभायात्रा

श्रीराम के नारों से पूरा पोलपोल क्षेत्र गुंजायमान होता रहा

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। रामनवमी पर्व के अवसर पर विभिन्न रामनवमी समितियों के द्वारा पोलपोल एवं आसपास के क्षेत्रों में भव्य व ऐतिहासिक शोभायात्रा निकाला गया। शोभायात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त भगवा ध्वज, तलवार ,भाले एवं फरसा लेकर रामनवमी के गीतों पर डीजे के धुन पर थिरकते हुए नजर आए। जय श्रीराम ,जय श्रीराम के नारों से पूरा पोलपोल क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। बाजार क्षेत्र में महाबीरी झंडों का मिलान किया गया। मिलान के बाद शाम को वो वापस अपने अपने अखाड़े पर पहुंचे। पोलपोल बाजार में सतबरवा थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी,अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय,आनन्द सिंह,सुशील सिंह,जेपी सिंह, शिव कुमार सिंह, शशि सिंह, उमेश प्रसाद लिलेश्व सिंह,प्रभु राम, देव कुमार पाल आदि समिति के लोगों ने विभिन्न अखाड़ों को अंग वस्त्र एवं तलवार भेट कर सम्मानित किया। इस दौरान कई कलाकारों ने अपने अपने शौर्य एवं कला का प्रदर्शन किया। शोभायात्रा में शामिल राम भक्त हाथ में भगवा झंडा, महावीरी पताका और माथे पर भगवा गमछा बांधकर निकले थे, खासकर युवाओं का उत्साह एवं जोश देखते बनता था। सतबरवा थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी पुलिस जवानों के साथ कड़ी मुस्तैदी के साथ जुलूस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। जुलूस का कमान आनंद सिंह, सुशील सिंह, शिवकुमार सिंह, शशि सिंह ,उमेश प्रसाद ,अखिलेश सिंह संभाले थे। कमेटी के द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया । इस मौके पर सुरेश राम ,विनय पासवान ,महेंद्र नाथ सिंह, धर्मराज सिंह, विवेक सिंह ,सुनील प्रसाद ,उपेंद्रसिंह,संतोष मिश्रा, मनोज चौधरी ,आनन्द सिंह, सूडू यादव समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

सुआ कौड़िया में भक्ति जागरण का आयोजन

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। सदर थाना क्षेत्र के सुआ कौड़िया में रामजन्म उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पलामू प्रमंडल के मशहूर भोजपुरी गायक मिंटू लाल के द्वारा भक्तिमय गीत संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। वही छपरा बिहार से आए हुए कलाकार व्यास प्रदुमन परदेसी एवं व्यास रौशन राज ने श्रीराम नवमी जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर कला का जलवा बिखेरा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता क्षेत्रीय विधायक आलोक चौरसिया, अविनाश देव ,अजीत मेहता , जिला पार्षद बासु देवी, मनिका के क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र सिंह के सुपुत्र विजय बहादुर सिंह ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया। वही कार्यक्रम का संचालन सुआ कौड़िया रामनवमी समिति के हृदयानंद सिंह ने किया । मौके पर संरक्षक अर्जुन सिंह ,जनरल अध्यक्ष टाइगर कुमार, 20 सूत्री सदस्य प्रेम प्रकाश ठाकुर,

सुदर्शन ठाकुर , कोषाध्यक्ष अनिल कुमार विश्वकर्मा ,सुबोध कुमार विश्वकर्मा तथा काफी संख्या में सुआ कौड़िया रामनवमी समारोह समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी गण उपस्थित थे। चैता कार्यक्रम को सफल बनाने में सदर थाना प्रभारी गौतम कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल का भी काफी सहयोग रहा। वही ड्यूटी में तैनात एसआई राम तबकया, एसआई धीरेंद्र सिंह, एसआई राकेश कुमार, एसआई अभिमन्यु सिंह ने दिन रात मेहनत कर प्रोग्राम को सफल बनाया। मौके पर सुआ मुखिया दुलारी देवी, कौड़िया मुखिया कुमारी अंजना सिंह, संतोष प्रसाद साव ,उप मुखिया प्रमोद राम, पंचायत समिति सदस्य छोटन राम ,पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुधीर राज, अजय चौधरी मुखिया पति उपध्या सिंह, मुकेश कुमार गुप्ता, बुलबुल पांडे, देवदत्त उरांव ,उदय उरांव, मुखिया पति कौड़िया रविंद्र सिंह ,समाजसेवी अवधेश विश्वकर्मा सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे।

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को दी गई विदाई

हरिहरगंज । शहरी क्षेत्र अंतर्गत सीता प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी चौधरी के सेवानिवृत्त होने पर शुक्रवार को समारोह आयोजित कर विदाई दी गयी। वही सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को शॉल, बुके व कई उपहार देकर विदाई दी गयी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी चौधरी अल्प अवधि के दौरान शिक्षकों एवं छात्रों का कुशल मार्गदर्शन किया। जबकि बिंदेश्वरी चौधरी के विदाई के साथ ही नए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में वरीय शिक्षक डॉ अजय प्रसाद राय ने पदभार संभालने के बाद सभी शिक्षकों से सहयोग करने की अपील किया।

निष्पादन उपायुक्त ने किया जनता दरबार का आयोजन

ग्रामीणों की समस्याओं से हुए अवगत

समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी अंजनेयुलू दोड्डे ने शुक्रवार को अपने कार्यालय वेश्म में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें पलामू जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी-अपनी

समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। डीसी ने बारी-बारी से सभी की समस्याएं सुनी तथा जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आयोजित जनता दरबार में जमीन विवाद, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, रोजगार, स्वास्थ्य अनुदान, आदि से संबंधित आवेदन आए जिसे उपायुक्त के द्वारा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए जल्द से जल्द मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

संकल्प की पवित्रता को बनाये रखें : मनोज

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। राम के आर्दश को आत्मसात करने का संकल्प लेने का दिन है रामनवमी। संकल्प की पवित्रता बने रहने से ही एक बेहतर समाज की रचना होगी। यह कहना है नगर पर्षद के पूर्व उपाध्यक्ष सह भावी मेयर प्रत्याशी मनोज सिंह का। उन्होंने कहा कि आज के समय में राम जैसे मर्यादित आदर्श व्यक्तित्व का बने रहना बड़ा मुश्किल हैं। राम का जीवन इसलिए भी सभी के लिए आदर्श हैं, क्योंकि उनका जीवन पिता के प्रति, पुत्र रूप,पति के रूप में,राजा के रूप, भाई के रूप में,यौद्धा के रूप में अद्वितीय रहा था। इसलिए हम सभी को यह समझना होगा कि समाज और राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी है ,उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि आज युवा वर्ग बड़ी संख्या में धार्मिक कार्यों में अपनी सक्रिय भागदारी निभा रहे हैं। युवा धर्म के मर्म को समझ रहे है। यह आने वाले कल के लिए बेहतर संकेत है । क्योकि धर्म हम सभी को निरंतर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री सिंह गुरुवार को महावीर नवयुवक दल जेनरल, महावीर नवयुवक दल जेनरल (शाहपुर), महावीर नवयुवक दल जेनरल (चैनपुर), महान क्लब चैनपुर, न्यू सुरभि क्लब हमीदगंज, नवयुवक संघ कल्याणपुर, समाज कल्याण समिति कुंड मुहल्ला,भारत सेवक संघ नई मुहल्ला, जीनियस क्लब बैरिया, क्रांति संघ सेवासदन रोड सहित कई क्लब में पहुँच कर भगवान की झांकी का दर्शन किया। इस दौरान सभी कमेटियों के द्वारा श्री सिंह का माल्यार्पण व पगडीपोशी कर स्वागत किया गया।

NEWS इन ब्रीफ

मोबाइल टॉवर लगाने की मांग

भवनाथपुर। मकरी पंचायत के मुखिया सरिता देवी ने बीडीओ जयपाल महतो को लिखित आवेदन देकर पंचायत अंतर्गत बरवारी गांव में मोबाइल नेटवर्क टावर लगवाने की मांग की है। दिये गए। आवेदन में मुखिया सरिता देवी ने उल्लेख किया है, की मकरी पंचायत में बरवारी एक राजस्व ग्राम है, जहां उक्त गांव नेटवर्क विहीन है। देश की आजादी से लेकर आज तक यह मात्र एक राजस्व ग्राम ही है। जो सरकारी सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।

रेल से कटकर युवक की मौत

रमना। पूर्व मध्य रेलवे के गढ़वा-चोपन रेलखंड पर स्थित रमना रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक के समीप रेलवे ट्रैक से एक युवक का शव बरामद किया गया है।

बारिश से खरीफ फसलों को नुकसान

डंडई। प्रखंड क्षेत्रों में शुक्रवार को गरज तड़क के साथ बारिश हुई। रुक रुक कर लगभग घंटों देर तक हुई बारिश खरीफ फसल खासकर गेहूं, अरहर और चना के फसलों को काफी नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसी तरह महुआ का फल भी उससे अछूता नहीं रहा। उक्त बारिस से महुआ का फल को भी अब नहीं गिरने की पूरी संभावना हो गई। मेहनत से कमाय फसलों को अपने-अपने घरों में लाने के लिए किसान जहां अब तक आशान्वित थे। वही उक्त बारिश ने उन्हें सकते में डाल कर रख दिया। खेतों में सूखे सभी तरह के फसल अब पूरी तरह भींग गए। उक्त कारण फसलों की कटाई करना अब संभव नहीं है। उसके लिए किसानों को 10 से 15 दिनों का और इंतजार करना मजबूरी हो गया।

प्रतिदिन विकास की नई गाथा लिख रहा है गढ़वा

फर्श से अर्श तक पहुंचाने का लिया है संकल्प : मिथिलेश

50 करोड़ की लागत से बनेगा 100 बेड का अस्पताल, सरकार ने दी स्वीकृति

नवीन मेल संवाददाता। गढ़वा

गढ़वा जिले में अब और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए झारखंड सरकार ने 50 करोड़ की लागत से 100 बेड का नया अस्पताल बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सदर अस्पताल परिसर में इसका निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से जहां एक और गढ़वा वासियों को सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं दूसरी ओर इसकी स्वीकृति से गढ़वा में मेडिकल कॉलेज खोलने का राह आसान हो जाएगा। जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि गढ़वा में पूर्व के सदर अस्पताल के अतिरिक्त 100 बेड का नया अस्पताल बनेगा। जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस 100 बेड के अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट एवं 50 बेड का अनुमण्डलीय अस्पताल शामिल होगा। इन दोनों अस्पतालों में वे सारी सुविधाएं मौजूद होंगी जो एक बड़े अस्पताल में होती हैं। अब बहुत कम मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह अस्पताल मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, माइनर ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। विशेषज्ञ चिकित्सक एवं पारामेडिकलकर्मी भी होंगे। परिसर में ही इन कर्मियों के आवास का भी निर्माण किया जाएगा। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि यह अस्पताल गढ़वा ज़िले के स्वास्थ्य सुविधा में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। अपना गढ़वा भी बड़े शहरों की भांति अधिकतम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। ज़िले के गरीब गुरबों को बेहतर ईलाज की सुविधा अब अपने ही ज़िले में मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि 100 बेड का अस्पताल बनना अपने ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 20 प्रखंड के इस बड़े ज़िले में एक 30 बेड की क्षमता का अस्पताल बिल्कुल नाकाफी था। दूर दराज से आए हुए साधन, संसाधन विहीन लोगों को काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता था। मंत्री ने कहा कि इसके लिए कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अनुरोध किया था। अपनी मांग पूरी होने पर मंत्री श्री ठाकुर ने तमाम गढ़वा जिला वासियों की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है।

मंत्री ने कहा कि पहले से सिर्फ 30 बेड का अनुमंडलीय अस्पताल चल रहा था। सदर अस्पताल परिसर में अभी 50 बेड का प्रीफैब्रिकेटेड वार्ड बन रहा है। अब सब 100 बेड का नया अस्पताल बनेगा। यह सदर अस्पताल अब 180 बेड का हो जाएगा। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि वे

दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ गढ़वा को सुसज्जित करने, गढ़वा के माथे पर लगे पिछड़ेपन के कलंक को धोने का एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। ओछी मानसिकता वाले चंद मुट्ठी भर विकृत मानसिकता के लोग शायद यहां भी विरोध का कोई मुद्दा ढूंढ लें। पर इससे उनके किए जा रहे विकास कार्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मंत्री ने कहा कि विकास विरोधी लोग जितना ही विरोध करेंगे उन्हें और ताकत के साथ नई ऊर्जा गढ़वा ज़िले के विकास के लिए प्रेरित करेगा। विकास विरोधी ताकतों की संख्या नगण्य है। जबकि विकास चाहने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। जनता का विश्वास जबतक मेरे साथ है, मुझे किसी बात से फर्क. नहीं पड़ता। आज विकास विरोधी लोगों का असली चेहरा उजागर हो चुका है। पूरा गढ़वा उनके करतूतों को समझ चुका है। अपना असली चेहरा सामने आने से वैसे लोग पूरी तरह हताश और निराश हो चुके हैं, और हताशा में कुछ भी कदम उठाने को तैयार हैं। मंत्री ने कहा कि गढ़वा जिला प्रतिदिन विकास की नई गाथा लिख रहा है। उन्होंने कड़वा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का लिया है संकल्प लिया है। गढ़वा वासियों के आशीर्वाद से वे इस संकल्प को पूरा करके रहेंगे।

गढ़वा में मेडिकल कॉलेज खोलने का राह होगा आसान : सीएस

गढ़वा सदर अस्पताल में 100 बेड का नया अस्पताल खोलने की झारखंड सरकार से स्वीकृति मिलने पर सिविल सर्जन डा. अनिल कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त किया है। सीएस ने कहा कि इस पुनीत कार्य के लिए गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धन्यवाद के पात्र हैं। गढ़वा जिला वासियों को अब और बेहतर एवं सर्व सुविधा संपन्न चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि 100 बेड के इस अस्पताल निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद गढ़वा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का राह आसान हो जाएगा। मंत्री श्री ठाकुर जिस तरह से इस कार्य के लिए प्रयासरत हैं उम्मीद है कि बहुत जल्द इसमें भी सफलता प्राप्त होगी। जो गढ़वा जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

संघ ने कार्यक्रम का आयोजन

भवनाथपुर। व्यवसाईक संघ के द्वारा भवनाथपुर हीरो एजेंसी के समीप गुरुवार की शाम कार्यक्रम के आयोजन कर कमेटी के सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के शुरूआत में व्यवसाई संघ के द्वारा मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य रंजनी शर्मा, भवनाथपुर पंचायत के मुखिया बेबी देवी, थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय, अनुमंडल विधायक प्रतिनिधि दयानन्द सोनी, एवं बीडीसी चंदन ठाकुर को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने भी व्यवसाई संघ के सदस्यों एवं सभी जुलूस एवं झांखी निकलने वाले कमेटी के पांच-पांच सदस्यों को अंग वस्त्र ओढा कर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा राजनीतिक तुस्टीकरण करने वाले ढोल, नगाड़ा एवं डीजे बजाने पर रोक लगा दिया था। लेकिन एक जुट हो कर डोल, नगाड़ा डीजे के साथ अपना पर्व मनाया।

धुरकी में निकाली गई महावीरी झंडा

धुरकी। धुरकी प्रखंड क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ राम नवमी का पर्व संपन्न हो गया। इस पर्व के अवसर पर गुरुवार की देर शाम तक रामनवमी की जुलुस निकाली गयी। जिसमें महावीर झंडा एवं जय श्रीराम के जयघोष से पूरा प्रखंड क्षेत्र भक्तिमय हो गया था। खासकर खाला, धुरकी, टाटीदीरी, अंम्बाखोरया, भंडार, करवा पहाड़, आदि गांव में महावीरी झंडा के साथ लोगों ने जुलूस निकाला,और परंपरागत तरीकों से खेल तमाशा का प्रदर्शन किया। वही पूरे प्रखंड क्षेत्र में महावीरी झंडा के साथ लोग जश्नमें डूबे हुए थे। सभी जगहों पर जय श्री राम जय हनुमान आदि के नारे से पूरा माहौल भक्ति में हुआ था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रखंड स्तर से बीडीओ अरुण कुमार सिंह ने सभी गांव में दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए थे।

विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक

धुरकी। 3 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के वंशीधर नगर आगमन को लेकर धुरकी भाजपा मंडल की ओर से एक कार्यकर्ता बैठक शुक्रवार को युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह के अवसर पर की गयी। जिसमें मुख्य अतिथि विधायक भानु प्रताप शाही ने कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चर्चा की। और उनके कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कई टिप्स दिये उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है। जो आज धरातल पर दिख रहा है। उन्होंने उनके कार्य को सराहना करते हुए कहा कि रघुवर दास झारखंड के लिए विकास पुरुष थे। विधायक ने कहा कि धुरकी प्रखंड से करीब 5000 भाजपा कार्यकर्ता रघुबर दास के आगमन पर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में जिले के पूर्व महामंत्री इंद्रमणि जयसवाल, भाजपा नेता भगत दयानंद यादव, मंडल अध्यक्ष प्रताप जायसवाल, कार्यकारिणी अध्यक्ष व विधायक प्रतिनिधि अखिलेश यादव, चांदेव बैठा, बलवंत यादव शहादत अंसारी, पूर्व प्रमुख विनोद कोरवा, हरिनारायण यादव, कुंदन सिंह शंभू प्रसाद इत्यादि कई कार्यकर्ता शामिल थे कार्यक्रम का संचालन विधायक प्रतिनिधि अखिलेश यादव ने किया।

श्रीराम सेना कमेटी ने भव्य भंडारा का आयोजन

श्री बंशीधर नगर। रामनवमी के अवसर पर शहर के बस स्टैंड स्थित राधाकृष्ण मंदिर के समीप श्रीराम सेना कमेटी के तत्वधान में भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। भव्य भंडारा का शुभारंभ पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा,नप उपाध्यक्ष लता देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व राम भक्तों को प्रसाद वितरण कर दिया। इसके बाद विशाल भंडारा शुरू हुआ जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का आनंद लिया। भव्य भंडारा 2:00 बजे से लेकर देर शाम तक अनवरत जारी रहा। पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि भंडारा कराना पुण्य का कार्य है श्रीराम सेना द्वारा प्रत्येक वर्ष राम जन्म उत्सव में भव्य भंडारा का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए इस पुनीत कार्य के लिए सहृदय बधाई दिया है। मौके पर झामुमो के जिला उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे, चेंबर अध्यक्ष शंभू नाथ सौदागर, सचिव गोपाल प्रसाद जायसवाल, श्रीराम सेना के अध्यक्ष रजनीकांत मधुर उर्फ भोलू, खुशदिल सिंह, संजीत कुमार छोटू, आनंद जायसवाल, अमित जायसवाल, आशीष अग्रवाल नीरज जयसवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, अमरनाथ पांडेय, संजय कसेरा, अनूप निराला, श्रीराम सेना के संरक्षक कामेश्वर प्रसाद रूपेश कुमार पप्पू, वीरेंद्र अग्रहरी, अजय प्रसाद मुखिया, हृदयानंद कमलापुरी, सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

भगवा रंग से रंगा खरौंधी प्रखंड

खरौंधी। राम नवमी का त्योहार गुरुवार को खरौंधी प्रखंड मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। रामनवमी के दिन प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में महावीरी झंडा के साथ भव्य जुलूस निकाला गया।, विहिप व बजरंग दल की ओर से खरौंधी बाजार स्थित देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद र भव्य जुलूस एवं झांकी निकाली गई। जुलूस में रामजी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, जय श्रीराम, जय हनुमान के जयकारे से खरौंधी प्रखंड गुंजायमान रहा। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिये पुलिस एवं प्रशासन के लोग तत्पर थे। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बीडीओ गणेश महतो एवं थाना प्रभारी अभय कुमार जुलूस पर पैनी नजर बनाएं हुए थे। सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। जुलूस में रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष रौशन कुमार दुबे, नीतीश कुमार, रामानंद मेहता, अभिमन्यु कुमार, ब्रिजविहारी दिवेदी, उपेंद्र दास, विकास कुमार गुप्ता सहित कई लोग शामिल थे।

गढ़वा जिले के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार गौतम को किया पार्टी से निष्कासित

भवनाथपुर। 30 मार्च को बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई गढ़वा को तत्काल प्रभाव से भंग करने के बाद भी कमेटी के सदस्य के द्वारा अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए बिना आदेश के गढ़वा स्तिथ उत्सव उत्सव गार्डन में आयोजित कार्यक्रम को बहुजन समाज पार्टी रद करती है। प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता ने कहा कि इस तरह के गढ़वा जिला पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार गौतम को अगले आदेश तक पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी संविधान के नीति और सिद्धांतों पर चलती है और बहन कुमारी मायावती जी के ऐसा निर्देश हैं ऊपर पदाधिकारी से बात करने के बाद ही हम लोगों को जिला में कोई कार्यक्रम आयोजित करना है यह सब को दरकिनार करते हुए कार्यक्रम किया गया जबकि इससे पहले भी जिला अध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनहीनता का बहुत ही ऊपर तक संज्ञान दिया गया जिस संज्ञान को लेने के बाद उससे पहले ही जिला कमेटी भंग हो चुकी है जिसका सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से दिया भी गया है। आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी उसको मीडिया के सामने जल्द ही प्रकाशित की जाएगी।

दूसरे जुमे की नमाज पढ़ी गई

नवीन मेल संवाददाता। श्री बंशीधर नगर

दिल मे इबादत का जज्बा को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगो ने पवित्र रमजान महीने के दूसरा जुम्मे की नमाज शुक्रवार को अनुमंडल मुख्यालय सहित आस पास ग्रामीण क्षेत्र में अल्लाह की इबादत मे सिर झुकाया। नगर उंटारी जमा मस्जिद,चेचरिया जमा मस्जिद, बरडीहा जमा मस्जिद, कधवन जमा मस्जिद, कोइन्दी, हुलहुला, नरही, सोनवर्षा, सहित अन्य मस्जिदों में रोजेदारों ने जुमे की नमाज अदा किया। नगर उंटारी जामिया इस्लामिया जब्बारिया में पेशे इमाम अब्दुल कादिर साहब ने कहा कि माह ए रमजान रहमतों एवं बरकतों का महीना है। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में रोजा रखने से सबसे ज्यादा नेकिया मिलती है। रोजा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। सदर तौहिद खान ने कहा कि पवित्र माह ए रमजान दूसरा जुमे की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद देश और मुल्क में अमन-चैन और भाईचारा कायम रहे इसके लिए दुआ मांगी गई। मौके पर हाजी नेजाम खान, तस्लीम खान सीनियर, डॉ कुतबुद्दीन अंसारी, अमीन खान, शमीम खान, तस्लीम खान, महमूद आलम, पप्पू खान, फुलटून खान, बाबू खलीफा, सहित अन्य लोग का नाम शामिल हैं। वहीं बरडीहा मस्जिद में सदर मुश्ताक अहमद शेख, डॉ ताहीर हुसैन, हाफिज मनउवर अंसारी, हाफिज सैफुल्लाह अंसारी, डॉ रिजवान अहमद, वकील अहमद, परवेज आलम, मसउवर अंसारी, अमीरहसन अंसारी, रासिब, इंतजार, मकसूद समसिर, अहमद, नौसाद, गुलाम, खुर्शीद सहित अन्य लोग का नाम शामिल हैं।

राम मय हुआ श्री बंशीधर नगर

जय श्री राम के जयकारे के साथ निकाली गई भव्य जुलूस व झांकी

नवीन मेल संवाददाता। श्री बंशीधर नगर

श्री राम नवमी का त्योहार गुरुवार को श्री बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से धूमधाम से मनाया गया। रामनवमी के दिन प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में महावीरी एवं तिरंगा झंडा के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। श्री राम सेना, विहिप व बजरंग दल एवं हिन्दू सेना की ओर से गोसाईबाग लालाबागी स्थित बजरंग बली मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद रामदरबार के साथ भव्य जुलूस एवं झांकी निकाली गई। जुलूस में रामजी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, जय श्रीराम, जय हनुमान के जयकारे से श्री बंशीधर नगर गुंजायमान रहा। जुलूस गोसाईबाग से लेकर मेनरोड होते हुये भवनाथपुर मोड़ तक गई एवं वापस बस स्टैंड पहुंच कर समाप्त हुई। श्री राम सेना की ओर से भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। जुलूस का नेतृत्व सभी गांवों के प्रमुख तथा गणमान्य लोग कर रहे थे। जुलूस में विधायक भानू प्रताप शाही, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, बीस सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष शैलेश कुमार चौबे, नगर पंचायत उपाध्यक्ष लता देवी, राजेश प्रताप देव, पूर्व चैयरमैन शिवधारी राम, झामुमो जिला उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडेय, सूर्यदेव मेहता, अमरनाथ पांडेय, वार्ड पार्षद नीरज कुमार, कामता प्रसाद, अनुज तिवारी, तस्लीम खां, कामेश्वर प्रसाद, राकेश जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल, अशोक कुमार, मिक्की जायसवाल, अजय प्रसाद, संजीत कुमार उर्फ छोटू, राजेश जायसवाल, अरुण जायसवाल, मंटू, श्रीराम सेना के अध्यक्ष रजनीकांत मधुर उर्फ भोलू, पप्पू अनमोल, वीरेंद्र अग्रहरी, चेंबर के अध्यक्ष शंभूनाथ सौदागर, गोपाल जायसवाल, समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे।

गुरु गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित

नवीन मेल संवाददाता। केतार

प्रखंड मुख्यालय केतार स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को अभिभावक गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित कि गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष राम विचार साहू ,प्रधानाचार्य मनोज कुमार गुप्ता ने मां सरस्वती एवं भारत माता की तस्वीर पर पूजा अर्चना के पश्चात दीप प्रज्ज्वलित कर किया।अभिभावक गोष्ठी में केतार मुखिया प्रमोद कुमार ने विद्यालय के भैया -बहनों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सूदूरवर्ती इलाका में विद्यालय होने के वावजूद इस विद्यालय के बच्चे संस्कारी है जो अपने आप में काफी महत्व रखता है। आज परीक्षा परिणाम में आप सभी उत्तीर्ण हुए है लेकिन आपको इससे बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। तभी आप अपना लक्ष्य को हासिल कर सकते है। जो बच्चे कम अंक लाये है उन्हें हतोत्साहित होने की जरूरत नही है उन्हें इस बार अपने शिक्षको के द्वारा तथा खुद से लगातार तैयारी करना होगा। विप्रस अध्यक्ष रामविचार साहू ने अपनी बचपन की पढाई का जिक्र करते हुए बच्चो को प्रेरित किया कि आप भी अच्छे से पढाई करें तो आईपीएस, आईएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। उत्तीर्ण बच्चों को कोपी और पेंसिल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आचार्य धनंजय विश्वकर्मा ,दीनानाथ चौधरी, शिव शंकर कुमार सविता गुप्ता, मीना देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

बच्चों को किया सम्मानित

विद्यालय परिवार ने अभिभावक गोष्ठी के दौरान भैया-बहनों को पेन कॉपी देकर सम्मानित किया। विद्यालय के कक्षा अरुण के सनी कुमार विश्वकर्मा, शालू कुमारी, अनामिका कुमारी, कक्षा उदय के राकेश कुमार, मयंक कुमार, अंकुश कुमार, प्रथम कक्षा के जुली कुमारी, प्रीतम कुमार, सत्यम कुमार, द्वितीय कक्षा के लवकुश कुमार, नेहा कुमारी, आर्यन कुमार, तृतीय के साक्षी कुमारी, दिव्या कुमारी, प्रियांशु कुमारी, चतुर्थ कक्षा में श्रेया कुमारी, नेहा कुमारी, कृष्ण कुमार,पंचम कक्षा के उज्जवल कुमार सुधीर रंजन कुमार निशा कुमारी, षष्टम वर्ग के संकल्प कुमार, डोली कुमारी, उज्जवल कुमार, सप्तम वर्ग के किंजल कुमारी कांति कुमारी, श्री श्रीकांत कुमार ने अपने वर्ग में टॉपर रहे।

जिला समादेष्टा का कार्यालय झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, पलामू

(आवश्यक सूचना)

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, पलामू से नामांकित वैसे सभी गृह रक्षक जिनका बॉण्ड समाप्त हो गया है/निकट भविष्य मे समाप्त होने वाला है का पुनःनामांकन किया जाना है। उपायुक्त पलामू के निदेश के आलोक में पुनःनामांकन हेतु प्रखण्डवार तिथि का निर्धारण किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्रमांक	दिनांक	प्रखण्ड
01.	10.04.2023	मनातु, विश्रामपुर, पाण्डू, छत्तपुर, चैनपुर, पांकी एवं सदर।
02.	11.04.2023	सतबरवा, हुसैनाबाद, नीलाम्बर–पीताम्बरपुर (लेस्लीगंज), हरिहरगंज एवं शहरी इकाई (पुरूष/महिला)।

उक्त तिथि को पुनःनामांकन हेतु वैसे सभी गृह रक्षक पूर्ण वर्दी में समय 10:00 बजे पूर्वाह्न में सशरीर उपस्थित होकर पुनः नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। विहित तिथि के पश्चात् कोई भी प्रकार आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आदेशानुसार

ह0/ पुलिस उपाधीक्षक (मु0) गढ़वा

–सह–जिला समादेष्टा,झारखण्ड गृहरक्षा वाहिनी,पलामू

PR 294201 (Police Wireless Headquarter)22-23*D

कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक ..... दिनांक .....

आम सूचना

सभी आम नागरिको/सभी बोरवेल एजेंसियों को सूचित किया जाता है कि मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बिना अनुमति के बोरिंग करना या कराना झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के उप धारा– 209 (1) के तहत् गैर कानूनी एवं दण्डणिय है। कोई नागरिक अपने आवासीय क्षेत्र/परिसर में बोरिंग कराना चाहते है तो बोरिंग कराने के पूर्व नगर निगम से मो0– 10,000/– (दस हजार रूपये) का चालान लेने के पश्चात् ही बोरिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई नागरिक बिना निगम से अनुमति के बोरिंग कराते हुए पकड़े जाते है तो उन पर मो0– 10,000/– रूपये शुल्क एवं 10,000/– रूपये जुर्माना राशि के साथ कुल– 20,000/– रूपये का चालान कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही सभी बोरबेल एजेंसी को भी सूचना दी जाती है नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करने के पूर्व मेदिनीनगर नगर निगम से प्रति वाहन मो0– 40,000/– (चालीस हजार रूपये) का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना सुनिश्चित करेंगे। यह शुल्क एक (1) वर्ष के लिए मान्य होगा।

सभी बोरवेल एजेंसी दिनांक 01.04.2023 से 15.04.2023 तक अपने सभी वाहनों का रजिस्ट्रशन मेदिनीनगर नगर निगम कार्यालय से करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई बोरवेल एजेंसी बिना रजिस्ट्रेशन के बोरिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके वाहन को जब्त कर लिया जायेगा। वाहन का रजिट्रेशन शुल्क– 40,000/– रूपये एवं दण्ड शुल्क– 40,000/– रूपये कुल– (80,000/– रूपये) निगम कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही वाहन को छोड़ा जायेगा।

ह0/–

नगर आयुक्त

मेदिनीनगर नगर निगम

PR 294199 District(22-23)#D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू।

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

ई– निविदा सूचना संख्या – EE/RDSD/PALAMAU-28/2022-23

1.कार्य की विस्तृत विवरणी:–

क्र०सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	पलामू जिला के हरिहरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत कुलहिया पंचायत के ग्राम लादीवादी–बरवाडीह पथ पर बतरे नदी पर पुल निर्माण।	44449696.00	889000.00	10000.00	18 माह।
2	पलामू जिला के हुसैनाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत झरगाड़ा उत्तरी ग्राम में सुवरदह नदी पर पुल निर्माण।	33203400.00	664100.00	10000.00	18 माह।
3	पलामू जिला के प्रखण्ड मनातू अन्तर्गत करैला से मधेया पथ में जिजोई नदी पर पुल निर्माण।	31003772.00	620100.00	10000.00	18 माह।
4	पलामू जिला के प्रखण्ड मनातू अन्तर्गत तिलो से मनातू पथ में जमुआ नदी पर पुल निर्माण।	31003772.00	620100.00	10000.00	18 माह।
5	पलामू जिला के प्रखण्ड पाण्डु अन्तर्गत ग्राम महुगावां तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करमडीह के बीच बांकी नदी पर पुल निर्माण।	48193196.00	964000.00	10000.00	18 माह।
6	पलामू जिला के प्रखण्ड पाण्डु अन्तर्गत ग्राम नेउरी मैदान तथा पोखरी के बीच बांकी नदी पर पुल निर्माण।	56119854.00	1123000.00	10000.00	24 माह।
7	पलामू जिला के प्रखण्ड पाटन अन्तर्गत ग्राम–सतौवा में देवी मंदिर के पास बेलाही नदी पर पुल निर्माण।	32690600.00	654000.00	10000.00	18 माह।
8	पलामू जिला के प्रखण्ड छतरपुर अनतर्गत ग्राम+पंचायत–हुटुकदाग के ग्राम संगरी में बटाने नदी पर पुल निर्माण।	32483500.00	650000.00	10000.00	18 माह।
9	पलामू जिला के प्रखण्ड तरहसी अन्तर्गत गोईन्दी के धनकी मनाठी के पास सतनदिया नदी पर पुल निर्माण।	34094996.00	682000.00	10000.00	18 माह।
10	पलामू जिला के प्रखण्ड नीलाम्बर–पिताम्बरपुर अन्तर्गत पंचायत–जामुडीह के ग्राम–बौराखाड़ से अमवाखुर्द को जोड़ने वाला पिरी नदी पर पुल निर्माण।	28868000.00	577500.00	10000.00	18 माह।
11	पलामू जिला के प्रखण्ड–पाटन अन्तर्गत पंचायत–सगुना के ग्राम नवादा में जिजोई नदी पर पुल निर्माण।	40731800.00	815000.00	10000.00	18 माह।

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि – 10.04.2023
3. ई–निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय – दिनांक 10.04.2023 से दिनांक 24.04.2023 को अपराह्न 5.00 बजे तक।
4. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 25.04.2023 अपराह्न 05.00 बजे तक।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने का स्थान:–
   i. ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू/जिला नियंत्रण कक्ष, पलामू।
   ii. ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू/जिला नियंत्रण कक्ष, पलामू।
   iii. e-procurement cell, मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0एफ0पी0 भवन धुर्वा, राँची।
6. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की तिथि को यदि राज्य में सरकारी अवकाश घोषित होता है, तो उक्त तिथि एवं समय अगले कार्यदिवस तक स्वतः विस्तारित समझी जायेगी।
7. निविदा खोलने का स्थान– e-procurement cell, मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0एफ0पी0 भवन धुर्वा, राँची।
8. निविदा खोलने की तिथि एवं समय–26.04.2023 अपराह्न 2.00 बजे।
9. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू।
10. ई–निविदा प्रकोष्ठ को दूरभाष सं0–9304798195 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)
11. निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू के पदनाम से देय हो देना होगा।
12. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू।

PR 293942 (Rural Development) 22-23 (D)

चतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं जुलूस तो कहीं झांकी की रही धूम

नवीन मेल संवाददाता। चतरा टीम
जिले के इटखोरी, गिद्धौर, पत्थलगडा, हंटरगंज, प्रतापपुर, कुंदा, गिद्धौर व टंडवा यादि प्रखंडों में महावीर झंडों का मिलान जुलूस निकाल कर शुक्रवार को जगह-जगह पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं कुंदा, इटखोरी, पत्थलगडा, प्रतापपुर, टंडवा व गिद्धौर के दुवारी में बिते देर रात भव्य झांकी व जुलूस निकाली गई। इस दौरान पारंपरिक अस्त्रों के खेलो का प्रदर्शन भी हुआ और जय श्रीराम व जय बंजरगबली के जयघोष से वातावरण गूंजायमान होता रहा। बिते देर रात्री रामनवमी पूजा समिति बरवाडीह व पत्थलगडा के झांकी का उद्घाटन प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रुप से विधिवत फीता काट कर किया गया। इसके अलावे बेलहर, नावाडीह व नुनगावं आदि गांवों में भी रामनवमी पर जुलूस व जीवंत झांकी निकाली गई। वहीं शुक्रवार को भी मेले में सभी अखाड़ों के झांकी के साथ झंडा का मिलान किया गया। इस दौरान कई मुस्लिम धर्मावलंबी भी एक से एक कर्तब दिखाए। वहीं उपरोक्त प्रखंडों में पुलिस व प्रशासनीक पदाधिकारी जुलूस व झांकी के दौरान मौजूद रहे। वहीं प्रतापपुर प्रखंड में रामनवमी के पर निकाले गए जुलूस व झांकी में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। मुख्य जुलूस प्रतापपुर रामनवमी पूजा समिति के तत्वाधान में प्रतापपुर बजरंगबली मंदिर से निकाला गया जिसमे योगियारा-मैराग, गुरीया, महूंगई, बभने, गोमे, रामपुर आदि गांव के भी जुलूस शामिल हुए। इससे पहले पूजा समिति के अध्यक्ष पवन कुमार तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा जुलूस में शामिल जनप्रतिनिधियों,

समाजसेवियों, प्रशासन के लोगों को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। धनबाद की ताशा पार्टी तथा अयोध्या के कलाकारों द्वारा निकाली गई झांकी आकर्षण का केंद्र रही।

युवा व्यवसायी की मौत, शोक की लहर

हेरहंज। प्रखण्ड मुख्यालय स्थित घुरे निवासी प्रेम कुमार साहू 30 वर्ष की मृत्यु शुक्रवार की अहले सुबह मेडिका रांची में हो गया ।मृत्यु की खबर सुनते ही हेरहंज बस स्टैंड की सभी दुकानें बंद हो गई ।सभी लोग इस अकास्मिक मृत्यु से हतप्रभ है ।मृतक बस स्टैंड में अपना आटा चक्की व तेल मिल चलाता था । मृतक प्रेम कुमार साहु बुधवार को अपने दुकान से दोपहर में मैट्रिक की परीक्षा दे रही भतीजी को लाने घर से 2 किमी दूर मेराल मध्य विद्यालय गया हुवा था ।जैसे ही विद्यालय के समीप पहुँचा था कि बिपरीत दिशा से आ रही दो पहिया वाहन से जोरदार टक्कर हो गई जिसमें प्रेम कुमार साहू को सर में गंभीर चोट लग गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था ।जिसे तत्काल सांसद प्रतिनिधि इलाज के लिए बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुँचाया ।स्थिति को देखते हुए डॉ सुरेश राम ने बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया ।जहां उसका इलाज मेडिका में चल रहा था ।शुक्रवार को प्रेम ने अंतिम सांस लिया ।मृतक अपने पीछे दो छोटे छोटे पुत्र व पुत्री पत्नी को छोड़ गया ।इस घटना से पत्नी का रोरोकर बुरा हाल है ।परिजन समेत पूरा गांव शोक में है ।

अंडर 16 अंतर जिला क्रिकेट लीग के खिलाड़ियों का ओपन ट्रायल 5 अप्रैल को

लातेहार। अंतर जिला क्रिकेट लीग अंडर 16 के लिए ओपन ट्रायल 5 अप्रैल 2023 को होगा। ओपन ट्रायल जिला खेल स्टेडियम लातेहार में किया जाएगा । इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिला भर के खिलाड़ी अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल, आधार कार्ड, अपने माता या पिता का वोटर कार्ड , बैंक पासबुक तथा दो फोटो लेकर आएंगे। उक्त आशय की जानकारी संघ के सचिव अमलेश कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में वही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जो सत्र 2022_23 में स्कूली लीग खेले हैं और जिनका निबंधन लातेहार जिला क्रिकेट संघ में हो गया है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी 5 अप्रैल 2023 को दिन के 10 बजे जिला खेल स्टेडियम लातेहार में पहुंच कर ओपन ट्रायल दे सकते हैं। ओपन ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों का कैंप लगाया जाएगा । वहीं कैंप में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन अंडर 16 अंतर जिला क्रिकेट लीग के लिए किया जाएगा ।

प्रदीप यादव हत्याकांड का खुलासा

पिता-पुत्र समेत पांच हत्यारे गिरफ्तार

पुराने भूमि विवाद में उतारा था मौत के घाट

नवीन मेल संवाददाता। चतरा
सदर थाना क्षेत्र के अकौना गांव में रामनवमी से पूर्व घटित प्रदीप यादव हत्याकांड का पुलिस में 24 घंटों के अंदर खुलासा करते हुए हत्या में शामिल पिता-पुत्र समेत पांच हत्यारे को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। मृतक की पत्नी कलशवा देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक मनोहर करमाली के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड को अंजाम देने वाले गांव के ही पिता-पुत्र व सास-बहू समेत पांच हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त टांगी और खून से सना अभियुक्तों का कपड़ा भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का गांव के ही सुनील यादव, रामस्वरूप यादव, सरिता देवी, बबीता देवी और सुरेश यादव के परिवार के साथ लंबे समय से जमीन विवाद चलता आ रहा है। उसी विवादित जमीन पर एक पक्ष के द्वारा पत्थर स्टॉक किया जा रहा था। जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि सुनील यादव के पक्ष के लोगों ने प्रदीप पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे गर्दन पर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्री करमाली, एसआई बिना कुमारी व एसआई विकास कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल पांच हत्यारे समेत घटना में प्रयुक्त टांगी व खून लगा कपड़ा भी जब्त कर लिया।

रामनवमी पर सीसीटीवी व ड्रोन से हो रही थी निगरानी

नवीन मेल संवाददाता। चतरा
मर्यादा पुरूषोतम श्रीराम व वीर हनुमान की भक्ति में गुरुवार की रात से शुक्रवार सुबह तक पूरा चतरा शहर सराबोर रहा। शहर की सडकों पर आकर्षक झांकियों को देखने के लिए लोगों भारी भीड उमड़ी। शहर में करीब 28 अखाडों व क्लबों के द्वारा एक से बढ कर एक झाकियां निकाली गई थी। जुलूस व झांकी में शामिल लोगों के द्वारा लगाए जा रहे जय श्रीराम व जय वीर हनुमान आदि के उद्घोष से पूरा शहरा पुरी रात गुंजायमान होता रहा। शांतीपूर्ण जुलूस व झांकी संपन्न कराने को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए थे। जगह-जगह पर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ सुरक्षाबलों को लगाया गया था व सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से हो रही थी निगरानी। साथ हीं झांकियों के स्काउट के लिये विशेष तौर पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त थे। वहीं चतरा चौक पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष बनाया गया था। जुलूस व झांकी में राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोगता, उपायुक्त अबू इमरान, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन आदि मौजूद थे।

तिरंगा क्लब बंभडीह अखाड़ा को मिला प्रथम पुरस्कार

नवीन मेल संवाददाता। बरवाडीह
प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव के अवसर पर मनाए जाने वाली महा रामनवमी पर्व के अवसर पर प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार देर शाम सभी राम नवमी पूजा समितियों द्वारा के हनुमंत ध्वज के साथ एक से बढ़कर एक आकर्षक शोभायात्रा निकाली गई। रामनवमी पूजा समितियों द्वारा निकाली गई रामनवमी जुलूस विभिन्न मार्गो से गुजरते हुए नगर भ्रमण कर बस स्टैंड स्थित महावीर चौक पर पंहुचा जहां पर रामनवमी झंडा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झंडा मिलनसमारोह में जहां प्रखंड मुख्यालय के अखाड़ों के साथ साथ खुरा, उककमाड पंचायत दो दर्जन से अधिक अखाड़ा और झांकियों का समूह शामिल हुआ। वही रामनवमी पर्व के अवसर पर सभी शोभायात्रा समितियों को सम्मानित करने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह मुख्य रूप से शामिल थे। सभी रामनवमी झंडा को मिलान के उपरांत रामनवमी अखाड़ा समितियों द्वारा लाठी डंडा तलवार से अपने-अपने कला का करतब दिखाया। शोभा यात्रा जुलूस व रामनवमी झांकी देखने के लिए महावीर चौक में काफी संख्या में महिलाएं पुरुष भक्त उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक के अलावा जिप सदस्य संतोषी शेखर,बीडीओ राकेश सहाय, प्रमुख। सुशीला देवी, सांसद प्रतिनिधि कन्हाई प्रसाद, थाना प्रभारी श्रीनिवास कुमार सिंह समेत अन्य अतिथियों को कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष सोनू सिंह व उनके अन्य सदस्यों द्वारा बारी बारी से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।

मनिका में पूजा समिति का रहा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

नवीन मेल संवाददाता। मनिका
मनिका प्रखंड मुख्यालय में दिन गुरुवार को राम नवमी का पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ। जहां राम भक्तों के द्वारा कई अखाड़ों से आकर्षक जुलूस व झांकियां भी निकाली गई थी जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की हजारों हजार की संख्या में भीड़ लगी हुई थी। जुलूस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हाई स्कूल मनिका के खेल मैदान पहुंची जहां क्षेत्र के विभिन्न अखाड़ों से आए जुलूस में महावीरी झंडे का मिलान किया गया कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के जयकारे से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। वहीं जुलूस कार्यक्रम में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अमर पूजा समिति सिंजो का रहा। अमर पूजा समिति सिंजो के द्वारा चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर नौ दिवसीय नवाहन परायण पाठ महोत्सव का भी आयोजन किया गया था जिसमें कई श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम का रामनवमी पर्व के साथ ही समापन किया गया। वहीं जुलूस में लोग जय श्रीराम के जयकारे लगाते हुए भक्ति गानों में नाचते झूमते रहे। वहीं जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु मनिका थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में सभी अखाड़ों की कड़ी निगरानी के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद रही।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा (जिला योजना)

ईच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

(अति अल्पकालीननिविदा सूचना), (Very Short term Tender Notice)

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR)अन्तर्गत लोहरदगा जिला के 06 चयनित विद्यालयों में आवश्यकता आधारित मानक गुणवता एवं आकार के बेंच–डेस्क की आपूर्ति हेतु TurnkeyBasis पर निबंधित एवं इच्छुक गैर सरकारी संगठनों/अर्द्ध सरकारी संगठनों/कम्पनी/ संस्थानों/फर्म/उत्पादक एवं उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि आदि सेदिनांक **08.04.2023** के **11:30** बजे पूर्वाह्न तक ईच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमन्त्रित की जाती है।

"ईच्छा की अभिव्यक्ति तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड की अलग–अलग शीलबंद लिफाफे को एक बड़े शीलबंद लिफाफे में समर्पित किया जायेगा।ईच्छा की अभिव्यक्ति(Expression of Interest)समर्पित करने संबंधी विस्तृत शर्त एवं दिशा निर्देश लोहरदगा जिला के वेबसाईट**www.lohardaga.nic.in**पर देखा जा सकता है। शीलबंद Expression of Interest के तकनीकी बीड़ को प्रस्ताव कर्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में **दिनांक 08.04.2023 के 12:30 बजे अपराह्न** जिला क्रय समिति/जिला मूल्यांकन समिति द्वारा खोला जायेगा, तत्पश्चात तकनीकी बीड़ के सफल प्रस्तावकों का वितीय बीड खोला जायेगा।इसके पश्चात् आवश्यकता होने पर प्रस्तावकाPower Point Presentation क्रय समिति/मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रदर्शित करेंगे।Expression of Interest या परियोजना संबंधी किसी प्रकार के संशय (Confusion)निराकरण हेतु मोबाईल नम्बर 9608135911/8603984499 पर किसी भी कार्यालय दिवस के कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–
उपायुक्त, लोहरदगा

PR 294210 Lohardaga(22-23)#D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

ई–निविदा संख्या:-**346/2022-23/RWD/GARHWA** दिनांक :-**31.03.2023**

मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	RWD/ GARHWA/ 11/2022-23	मेराल डंडई मुख्य पथ के देवगाना स्टैण्ड से बजनवा टोला भाया बिछियादामर करीय जरही गेरूवाडीह तक पथ निर्माण कार्य (लं– 8.150 कि0मी0)	9,69,07,867.00	नौ करोड़ उनहत्तर लाख सात हजार आठ सौ सड़सठ रू0 मात्र	15 माह
2.	RWD/ GARHWA/ 24/2022-23	गोबरदाहा मुख्य पथ से कुसवार तेतरडीह होते हुए होमिया तक पथ निर्माण कार्य (लं– 7.350 कि0मी0)	9,03,86,500.00	नौ करोड़ तीन लाख छियासी हजार पाँच सौ रू0 मात्र	15 माह
3.	RWD/ GARHWA/ 25/2022-23	करमाही से फुलवार तक पथ निर्माण कार्य (लं– 5.800 कि0मी0)	7,18,78,100.00	सात करोड़ अठारह लाख अठहत्तर हजार एक सौ रू0 मात्र	15 माह
4.	RWD/ GARHWA/ 28/2022-23	सोनदाग चारमुहान से सिकठ होते हुए तमगे सीमा तक पथ निर्माण कार्य (लं– 5.750 कि0मी0)	6,22,11,800.00	छः करोड़ बाईस लाख ग्यारह हजार आठ सौ रू0 मात्र	15 माह
5.	RWD/ GARHWA/ 29/2022-23	नवादा मोड़ से नवादा ग्राम होते हुए मझिऑव पी0डब्लू0डी0 रोड तक पथ निर्माण कार्य (लं– 3.825 कि0मी0)	3,91,90,900.00	तीन करोड़ एकानवे लाख नब्बे हजार नौ सौ रू0 मात्र	15 माह
6.	RWD/ GARHWA/ 26/2022-23	महुलिया रोड में बीर कुँवर से ढ़ोटी होते हुए जाटा पुल तक पथ निर्माण कार्य (लं– 3.415 कि0मी0)	3,55,19,700.00	तीन करोड़ पचपन लाख उन्नीस हजार सात सौ रू0 मात्र	15 माह
7.	RWD/ GARHWA/ 27/2022-23	गढ़वा–चिनियाँ मुख्य पथ से हेलीपैड होते हुए कल्याणपुर तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.620 कि0मी0)	2,82,19,000.00	दो करोड़ बेरासी लाख उन्नीस हजार रू0 मात्र	15 माह
8.	RWD/ GARHWA/ 05/2022-23	आर0ई0ओ0 रोड से अधौरा बस्ती तक पथ निर्माण कार्य (लं– 1.860 कि0मी0)	2,08,09,981.00	दो करोड़ आठ लाख नौ हजार नौ सौ एकासी रू0 मात्र	12 माह
9.	RWD/ GARHWA/ 06/2022-23	टेढ़ी हरैया मदरसा से कब्रिस्तान ईदगाह होते हए डॉ0 जियाउल हक के घर तक पथ निर्माण कार्य (लं– 1.910 कि0मी0)	2,05,56,331.00	दो करोड़ पाँच लाख छप्पन हजार तीन सौ इकतीस, रू0 मात्र	12 माह
10.	RWD/ GARHWA/ 07/2022-23	प्रतापपुर स्कूल पी0डब्लू0डी0 पथ से ग्राम दरमी कब्रिस्तान तक पथ निर्माण कार्य (लं– 1.325 कि0मी0)	1,50,23,335.00	एक करोड़ पचास लाख तेईस हजार तीन सौ पैंतीस रू0 मात्र	12 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:– **10.04.2023**
3. ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समयः– **21.04.2023** अपराह्न 5.00 बजे तक।
4. **(क)** मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, अभियंत्रण भवन, कचहरी, राँची अथवा **(ख)** जिला नियंत्रण कक्ष, **राँची** अथवा **(ग)** जिला नियंत्रण कक्ष, **गढ़वा** में से किसी भी कार्यालय में निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः– **24.04.2023** अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन– 834001 को भेजा जा सकता है। यह निविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाने वाला निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि निर्धारित तिथि एवं समय (24.04.2023 अपराह्न 3.30 बजे तक) से पूर्व प्राप्त हो जाय। अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व प्राप्त निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि पर ही विचार किया जायेगा।
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः– **25.04.2023** अपराह्न 3.30 बजे।
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पताः– मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन– 834001
8. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0– 0651–2207818
9. निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **गढ़वा** के पक्ष में एवं **गढ़वा** में भुगतेय जमा करना होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294163 Rural Work Department(22-23)#D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा

जिला योजना अनाबद्ध निधि अन्तर्गत
अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

ई–निविदा संख्या –03/2022-23/RWD/GARHWA दिनांक – 27.03.2023

1. कार्य का विवरण :–

क्र0	प्रखण्ड	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/ पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि अंक में (लाख में)	अक्षर में	परिमाण विपत्र की राशि	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
1	गढ़वा	RWD/ GARHWA/ 05/2022-23	गढ़वा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम तिलदाग के तिलदाग बेलचम्पा मुख्य पथ में खलील खाँ के घर से चहका तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	16.927	सोलह लाख बानबे हजार सात सौ रुपये।	5000	34000	तीन महीना

2. वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :– 06.04.2023
3. ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :– 13.04.2023 अपराह्न 5:00 बजे तक।
4. कार्यालय प्रकोष्ठ गढ़वा में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ–पत्र की मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि एवं समयः– 15.04.2023 को 03:30 अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– 17.04.2023 पूर्वाह्न 11:30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, ग्रा0वि0वि0 (ग्रा0का0मामले), कार्य प्रमंडल, गढ़वा।
7. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0:–9431586961
8. निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक/अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निविदाकार के नाम/खाता से ही निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गढ़वा के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नही जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गढ़वा

PR.NO.293996 Rural Development(22-23):D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

ई– निविदा सूचना संख्या – **EE/RDSD/PALAMAU-29/2022-23**

1. कार्य की विस्तृत विवरणी :–

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	पलामू जिला के प्रखण्ड नीलाम्बर– पिताम्बरपुर अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
2	पलामू जिला के प्रखण्ड सदर मेदिनीनगर अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
3	पलामू जिला के प्रखण्ड चैनपुर अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह– अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
4	पलामू जिला के प्रखण्ड पाटन अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह– अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
5	पलामू जिला के प्रखण्ड सतबरवा अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह– अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
6	पलामू जिला के प्रखण्ड पांडू अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह– अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
7	पलामू जिला के प्रखण्ड रामगढ़ अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह– अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि – 10.04.2023
3. ई–निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय – दिनांक 10.04.2023 से दिनांक 24.04.2023 को अपराह्न 5.00 बजे तक।
4. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 25.04.2023 अपराह्न 05.00 बजे तक।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने का स्थानः–
   i. ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू/जिला नियंत्रण कक्ष, पलामू।
   ii. ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू/जिला नियंत्रण कक्ष, पलामू।
   iii. e-procurement cell, मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0एफ0पी0 भवन धुर्वा, राँची।
6. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की तिथि को यदि राज्य में सरकारी अवकाश घोषित होता है, तो उक्त तिथि एवं समय अगले कार्यदिवस तक स्वतः विस्तारित समझी जायेगी।
7. निविदा खोलने का स्थान– e-procurement cell, मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0एफ0पी0 भवन धुर्वा, राँची।
8. निविदा खोलने की तिथि एवं समय–26.04.2023 अपराह्न 2.00 बजे।
9. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पताः– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेश प्रमण्डल, पलामू।
10. ई–निविदा प्रकोष्ठ को दूरभाष सं0–9304798195 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)
11. निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू के पदनाम से देय हो देना होगा।
12. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू

PR 293944 Rural Development(22-23)#D

NEWS इन ब्रीफ

बाजारटांड में खुला ग्रामीण व्यापार केंद्र

कुरडेग। जोहार परियोजना के द्वारा संचालित महिला जाग्रति प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा अंतर्गत आत्म निर्भरता को बढ़ावा देने व महिलाओं कुरडेग के बाजारटांड़ में ग्रामीण व्यापार केंद्र सह जोहार एग्री मार्ट की शुरूआत की। मार्ट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव,जिला परिषद उपाध्यक्ष सोनी पैंकरा, सीओ उपप्रमुख, मुखिया उर्मिला कुजूर एवम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के उपस्थित में किया गया ।महिला जाग्रति प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित इस मार्ट में उन्नत कृषि की बढ़ावा देने बाजार से कम दर पर सामान उपलब्ध कराने की कवायद की गयी है। उपलब्ध सेवाओं में उत्तम खाद बीज, कृषि यंत्र सुविधा, मौसम की जानकारी, बाजार सुविधा, मिट्टी जांच, मछली, पशु चारा आदि शामिल हैं।

समिति ने शांति समिति व अखाड़ों के अध्यक्षों को किया सम्मानित

ठेठईटांगर। रामनवमी समिति ठेठईटांगर ने विभिन्न अखाड़ों के अध्यक्षों एवं शांति समिति के सदस्यों को अंग वस्त्र तोलिया देकर कर सम्मानित किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार अंचलाधिकारी समीर कश्यप थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश मोहम्मद मुमताज आलम मोहम्मद अलाउद्दीन मोहम्मद पुरोहित सूर्यकांत झा, महमूद को अंग वस्त्र देकर रामनवमी समिति ठेठईटांगर ने सम्मानित किया। ठेठईटांगर रामनवमी समिति ने खजूरटांड, रिपो टोली, अलसंगा, बर टोली रामनवमी समिति के अध्यक्षो को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया एवं प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को शील्ड कप विजेता घोषित किया गया।

हादसे में महिला गंभीर

चैनपुर। चैनपुर थाना अंतर्गत छतरपुर गांव के पास शुक्रवार सुबह 9:00 बजे स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से स्कूटी एक पेड़ से जा टकराई। जिससे स्कूटी चालक महिला 28 वर्षीया कुमुद केरकेट्टा गंभीर रूप से घायल हो गई। बेहोश हो गई। कुमुद के सर व चेहरे में गंभीर चोट आई है। जिसे चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया।

धूमधाम और भक्तिभाव के साथ चैती दुर्गा पूजा संपन्न

विसर्जन में उमड़ी भीड़

नवीन मेल संवाददाता। सिमडेगा

शहर के दो पूजा पंडालों में आयोजित चैती दुर्गा पूजा का समापन शुक्रवार को मां दुर्गे की प्रतिमा की विसर्जन के साथ सम्पन्न हुई। शुक्रवार को दोनों ही पूजा पंडालों के द्वारा विशाल विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में डीजे के धुन पर महिलाएं थिरकती नजर आईं। वहीं जय श्री राम... जय माता दी के जयघोष के साथ माहौल पूरा भक्ति में हो गया।चैती दुर्गा पूजा समिति सलडेगा द्वारा चैती दर्गा पूजा संपन्न होने के बाद शुक्रवार को श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मां दुर्गे की शोभा यात्रा निकाली गयी।वहीं ठाकुरटोली पूजा पंडाल के द्वारा भी विशाल विसर्जन शोभायात्रा

निकाली गई जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। दोनों ही पूजा पंडाल में पिछले 28 मार्च से ही प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही थी। लगातार तीन दिनों तक पूजा अर्चना के बाद शुक्रवार को मां शेरावाली की भव्य शोभायात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गयी। शोभायात्रा में काफी संख्या में महिला-पुरुष ने आस्था के साथ भाग लिया। शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे थे तथा मां दुर्गे की जय, मां शेरावाली की जयकारे लगा रहे थे।शोभा यात्रा में शामिल लोग भक्ति गीतों धुन पर झूमते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। शोभायात्रा में शामिल लोग शहर का भर्मण कर जलाशय तक गये।

जहां मां दुर्गे की प्रतिमा को जल में विसजिर्त किया गया। शोभायात्रा में मुख्य रूप से मनोज सिंह, वार्ड पार्षद शशि गुड़िया, अरुण सिंह, वार्ड पार्षद सुनीता देवी, अध्यक्ष अभय विश्वकर्मा, जगदीश सिंह, सचिव आनंद जायसवाल, प्राचार्य राजेंद्र साहू,रविकांत सिंह, निरंजन प्रसाद, नागेंद्र पाठक, दिलीप महतो, राकेश कुमार चंचल, मितेश सिंह, नितिन कुमार, संदीप महतो, गणेश महतो, विक्रम महतो, अरविंद श्रीवास्तव, अखिलेश प्रसाद, मिथुन सिंह, कृष्णा भारती, महावीर महतो, अमित केसरी, विष्णु हजाम, नवीन सिंह, मुरारी प्रसाद, कलेश महतो के अलावा अन्य लोग शामिल थे।

बानो में हनुमान मंदिर का 15वां स्थापना पर यज्ञ का आयोजन

नवीन मेल संवाददाता। बानो

प्रखंड के उकौली में हनुमान मंदिर का 15 स्थापना दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया है। ग्राम उकौली में तीन दिवसीय यज्ञ को लेकर शुक्रवार को कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में 501 कलश अभिमंत्रित कर जलाशय से मन्दिर परिसर स्थित पूजा मंडप में लाया गया। कलश का पूजन पंडित श्याम सुंदर मिश्रा ने संकल्प कराते हुए मंगल कामना किया। इसके साथ ही तीन दिवसीय यज्ञ आरंभ हो गया। पूजा में जजमान के रूप में रामानंद सिंह सह पत्नी क्लेन्द्री देवी पूजा में बैठे। कलश यात्रा में काफी संख्या में ग्रामीण भी भाग लिये। राधे राधे कृष्ण। कृष्ण, जय श्री राम नारे से क्षेत्र गूंज उठा। पूरा मन्दिर परिसर महाबीरी पताको से सजाया गया है। कलश यात्रा में उकौली, बादलूंग, बानो बड़काडुईल आदि गांवों के भक्तों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश सिंह, भूनेंद्र सिंह, गणेश, गोपाल सिंह, मदन सिंह, आनन्द महतो आदि लोगो का सहयोग रहा।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई- निविदा सूचना संख्या – **EE/RDSD/PALAMAU-29/2022-23**

1. कार्य की विस्तृत विवरणी :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	पलामू जिला के प्रखण्ड नीलाम्बर- पिताम्बरपुर अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
2	पलामू जिला के प्रखण्ड सदर मेदिनीनगर अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
3	पलामू जिला के प्रखण्ड चैनपुर अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
4	पलामू जिला के प्रखण्ड पाटन अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
5	पलामू जिला के प्रखण्ड सतबरवा अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
6	पलामू जिला के प्रखण्ड पांडू अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।
7	पलामू जिला के प्रखण्ड रामगढ़ अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- अंचलाधिकारी आवास/ पर्यवेक्षक आवास/तृतीय वर्गत कर्मचारी/चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास/प्रखण्ड परिसर का विकास एवं विविध कार्य का निर्माण।	60599400.00	1212000.00	10000.00	12 माह।

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि – 10.04.2023
3. ई-निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय – दिनांक 10.04.2023 से दिनांक 24.04.2023 को अपराह्न 5.00 बजे तक।
4. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 25.04.2023 अपराह्न 05.00 बजे तक।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने का स्थानः-
   i. ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू/जिला नियंत्रण कक्ष, पलामू।
   ii. ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू/जिला नियंत्रण कक्ष, पलामू।
   iii. e-procurement cell, मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0एफ0पी0 भवन धुर्वा, राँची।
6. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की तिथि को यदि राज्य में सरकारी अवकाश घोषित होता है, तो उक्त तिथि एवं समय अगले कार्यदिवस तक स्वतः विस्तारित समझी जायेगी।
7. निविदा खोलने का स्थान- e-procurement cell, मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0एफ0पी0 भवन धुर्वा, राँची।
8. निविदा खोलने की तिथि एवं समय–26.04.2023 अपराह्न 2.00 बजे।
9. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पताः- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेश प्रमण्डल, पलामू।
10. ई-निविदा प्रकोष्ठ को दूरभाष सं0–9304798195 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)
11. निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू के पदनाम से देय हो देना होगा।
12. परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू

PR 293944 Rural Development(22-23)#D

विद्या मंदिर स्कूल में तीन दिवसीय आचार्य कार्यशाला प्रारंभ

समाज परिवर्तन के कारक गुरु होते हैं : शम्मी

विद्या मंदिर सामाजिक चेतना का केंद्र है : विनोद राय

आत्म मूल्यांकन का आधार आचार्य कार्यशाला : बिपिन कुमार दास

नवीन मेल संवाददाता। लोहरदगा

विद्या भारती की योजना के अनुसार शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में सुंदरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर एवं शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर के सभी आचार्य आचार्या उपस्थित हुए। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ आगत अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन से किया गया। इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप मेंउपस्थित गुमला विभाग के विभाग प्रचारक शम्मी कुमार ने कहा कि समाज परिवर्तन का कारक गुरु होते हैं। उन्होंने प्राचीन काल का उदाहरण देते हुए भगवान राम, भगवान कृष्ण, विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह आदि के जीवन में गुरु के अमूल्य मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी के जीवन में गुरु की प्रेरणा से ही सफलता

मिलती है। उन्होंने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कुटुंब प्रबोधन, स्वावलंबन, स्वदेशी एवं नागरिक शिष्टाचार का महत्व बताया। इस मौके पर विभाग प्रचारक शम्मी कुमार एवं प्रबंध कारिणी समिति के उपाध्यक्ष विनोद राय को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उपाध्यक्ष विनोद राय ने अपने संबोधन में कहा कि विद्या मंदिर सामाजिक चेतना का केंद्र है। शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार का समाज में प्रचार यहां की शिक्षा की मूल विशेषता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य बिपिन कुमार दास ने आगत अतिथियों का परिचय एवं कार्यशाला की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि आगामी सत्र की योजना बनाने की दृष्टि से आयोजित इस तीन दिवसीय आचार्य कार्यशाला के द्वारा आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। विगत सत्र में रह गई कमियों को दूर करने के लिए संकल्प लेकर योजना अनुसार कार्य करना इस कार्यशाला का मूल उद्देश्य है। यह कार्यशाला 14 सत्रों में संचालित होनी है। इस दौरान समाज, समिति, आचार्य, अभिभावक एवं भैया बहनों के सर्वांगीण विकास पर व्यापक चर्चा होगी। एकल गीत जया मिश्रा ने प्रस्तुत किया। द्वितीय सत्र में स्थाई भौतिक सामग्री एवं पंजी का सत्यापन किया गया। तृतीय सत्र में विद्यालय के सबल एवं निर्बल पक्ष पर विस्तृत चर्चा की गई। चतुर्थ सत्र में आचार्य भारती गठन एवं शून्यकालांश का महत्व विषय पर चर्चा की गई। उद्घाटन सत्र में मंच संचालन सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र पांडेय ने किया।

गरीब बच्चों को मिलेगा निःशुल्क हेल्थी एजुकेशनः सौरव समीर

नवीन मेल संवाददाता। लोहरदगा

शहरी क्षेत्र के राजा बंगला परिसर में शुक्रवार को एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित एकल पाठशाला का उद्घाटन प्रख्यात फिल्म अभिनेता सौरव समीर ने विधिवत किया। उद्घाटन के मौके पर मौजूद अतिथियों और शहर के जागरूक नागरिकों ने इसे एक कल्याणकारी प्रयास बताया। एकल पाठशाला की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर होने पर इसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समाज के गरीब, अनाथ और रोज कमाने खाने वाले परिवार के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा मिलने की उम्मीद व्यक्त किया गया। इस संदर्भ में फिल्म अभिनेता सौरव समीर ने कहा कि, एकल पाठशाला का मूल उद्देश्य गरीब और लाचार बच्चों का उत्थान और विकास शिक्षा के माध्यम से करना है। कहा कि, रिक्शा चालक, ठेला चालक, फुटपाथ में दुकान चलाने वाले, खोमचा वाले अभिभावक अपने बच्चों को वर्तमान परिवेश के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पाते हैं। एकल पाठशाला रोज कमाने खाने वाले परिवार के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देगा।

डीसी ने बाल संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण

नवीन मेल संवाददाता। गुमला

उपायुक्त सुशांत गौरव ने शुक्रवार को बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाल संप्रेक्षण गृह के परिसर में नव निर्मित गार्ड रूम, किशोर न्याय बोर्ड कार्यालय, शौचालय आदि के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की। किशोर न्याय बोर्ड कार्यालय के नवीकरण को देखकर उपायुक्त प्रभावित हुए। बाल संप्रेक्षण गृह के चारों ओर लगे कॉन्सेंट्रीना वायर को पेंट करने का निर्देश दिया। पानी पाइप की मरम्मत कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने पूरे परिसर की दीवारों पर स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के विचारों तथा सकारात्मक विचारों को लिखने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने इस दौरान बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों से भी मुलाकात की। उन्होंने एक अभिभावक जैसी भूमिका निभाते हुए सभी को समझाया तो कुछ को फटकार भी लगाई। बच्चों को उनके भविष्य के प्रति गंभीरता दिखाने की बात कही। साथ ही किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर गलत कार्य करने से बचने की सलाह दी। इस मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के अलावा बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मी भी उपस्थित रहे।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा
(जिला योजना)

ईच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)
(अति अल्पकालीननिविदा सूचना), (Very Short term Tender Notice)

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR)अन्तर्गत लोहरदगा जिला के 06 चयनित विद्यालयों में आवश्यकता आधारित मानक गुणवता एवं आकार के बेंच-डेस्क की आपूर्ति हेतु TurnkeyBasis पर निबंधित एवं इच्छुक गैर सरकारी संगठनों/अर्द्ध सरकारी संगठनों/कम्पनी/ संस्थानों/फर्म/उत्पादक एवं उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि आदि सेदिनांक **08.04.2023** के **11:30** बजे पूर्वाह्न तक ईच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमन्त्रित की जाती है।

"ईच्छा की अभिव्यक्ति तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड की अलग-अलग शीलबंद लिफाफे को एक बड़े शीलबंद लिफाफे में समर्पित किया जायेगा।ईच्छा की अभिव्यक्ति(Expression of Interest)समर्पित करने संबंधी विस्तृत शर्त एवं दिशा निर्देश लोहरदगा जिला के वेबसाईट**www.lohardaga.nic.in**पर देखा जा सकता है। शीलबंद Expression of Interest के तकनीकी बीड़ को प्रस्ताव कों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में **दिनांक 08.04.2023 के 12:30 बजे अपराह्न** जिला क्रय समिति/जिला मूल्यांकन समिति द्वारा खोला जायेगा, तत्पश्चात तकनीकी बीड़ के सफल प्रस्तावकों का वितीय बीड खोला जायेगा।इसके पश्चात् आवश्यकता होने पर प्रस्तावकPower Point Presentation क्रय समिति/मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रदर्शित करेंगे।Expression of Interest या परियोजना संबंधी किसी प्रकार के संशय (Confusion)निराकरण हेतु मोबाईल नम्बर 9608135911/8603984499 पर किसी भी कार्यालय दिवस के कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/-
उपायुक्त, लोहरदगा

PR 294210 Lohardaga(22-23)#D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा

जिला योजना अनाबद्ध निधि अन्तर्गत
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या –03/2022-23/RWD/GARHWA दिनांक – 27.03.2023

1. कार्य का विवरण :-

क्र0	प्रखण्ड	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/ पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि		परिमाण विपत्र की राशि	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
				अंक में (लाख में)	अक्षर में			
1	गढ़वा	RWD/ GARHWA/ 05/2022-23	गढ़वा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम तिलदाग के तिलदाग बेलचम्पा मुख्य पथ में खलील खाँ के घर से चहका तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	16.927	सोलह लाख बानबे हजार सात सौ रूपये।	5000	34000	तीन महीना

2. वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :- 06.04.2023
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 13.04.2023 अपराह्न 5:00 बजे तक।
4. कार्यालय प्रकोष्ठ गढ़वा में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ-पत्र की मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि एवं समयः- 15.04.2023 को 03:30 अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 17.04.2023 पूर्वाह्न 11:30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रा0वि0वि0 (ग्रा0का0मामले), कार्य प्रमंडल, गढ़वा।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0:-9431586961
8. निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक/अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निविदाकार के नाम/खाता से ही निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गढ़वा के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नही जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गढ़वा

PR.NO.293996 Rural Development(22-23):D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्याः- **346/2022-23/RWD/GARHWA** दिनांक :- **31.03.2023**

मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)		कार्य समाप्ति की अवधि
			अंक में	अक्षर में	
1.	RWD/ GARHWA/ 11/2022-23	मेराल डंडई मुख्य पथ के देवगाना स्टैण्ड से बजनवा टोला भाया बिछियादामर करीय जरही गेरूवाडीह तक पथ निर्माण कार्य (लं- 8.150 कि0मी0)	9,69,07,867.00	नौ करोड़ उनहत्तर लाख सात हजार आठ सौ सड़सठ रू0 मात्र	15 माह
2.	RWD/ GARHWA/ 24/2022-23	गोबरदाहा मुख्य पथ से कुसवार तेतरडीह होते हुए होमिया तक पथ निर्माण कार्य (लं- 7.350 कि0मी0)	9,03,86,500.00	नौ करोड़ तीन लाख छियासी हजार पाँच सौ रू0 मात्र	15 माह
3.	RWD/ GARHWA/ 25/2022-23	करमाही से फुलवार तक पथ निर्माण कार्य (लं- 5. 800 कि0मी0)	7,18,78,100.00	सात करोड़ अठारह लाख अठहत्तर हजार एक सौ रू0 मात्र	15 माह
4.	RWD/ GARHWA/ 28/2022-23	सोनदाग चारमुहान से सिकठ होते हुए तमगे सीमा तक पथ निर्माण कार्य (लं- 5.750 कि0मी0)	6,22,11,800.00	छः करोड़ बाईस लाख ग्यारह हजार आठ सौ रू0 मात्र	15 माह
5.	RWD/ GARHWA/ 29/2022-23	नवादा मोड़ से नवादा ग्राम होते हुए मझिऑव पी0डब्लू0डी0 रोड तक पथ निर्माण कार्य (लं- 3.825 कि0मी0)	3,91,90,900.00	तीन करोड़ एकानवे लाख नब्बे हजार नौ सौ रू0 मात्र	15 माह
6.	RWD/ GARHWA/ 26/2022-23	महुलिया रोड में बीर कुँवर से ढ़ोटी होते हुए जाटा पुल तक पथ निर्माण कार्य (लं- 3.415 कि0मी0)	3,55,19,700.00	तीन करोड़ पचपन लाख उन्नीस हजार सात सौ रू0 मात्र	15 माह
7.	RWD/ GARHWA/ 27/2022-23	गढ़वा-चिनियाँ मुख्य पथ से हेलीपैड होते हुए कल्याणपुर तक पथ निर्माण कार्य (लं- 2.620 कि0मी0)	2,82,19,000.00	दो करोड़ बेरासी लाख उन्नीस हजार रू0 मात्र	15 माह
8.	RWD/ GARHWA/ 05/2022-23	आर0ई0ओ0 रोड से अधौरा बस्ती तक पथ निर्माण कार्य (लं- 1.860 कि0मी0)	2,08,09,981.00	दो करोड़ आठ लाख नौ हजार नौ सौ एकासी रू0 मात्र	12 माह
9.	RWD/ GARHWA/ 06/2022-23	टेढ़ी हरैया मदरसा से कब्रिस्तान ईदगाह होते हए डॉ0 जियाउल हक के घर तक पथ निर्माण कार्य (लं- 1.910 कि0मी0)	2,05,56,331.00	दो करोड़ पाँच लाख छप्पन हजार तीन सौ इकतीस, रू0 मात्र	12 माह
10.	RWD/ GARHWA/ 07/2022-23	प्रतापपुर स्कूल पी0डब्लू0डी0 पथ से ग्राम दरमी कब्रिस्तान तक पथ निर्माण कार्य (लं- 1.325 कि0मी0)	1,50,23,335.00	एक करोड़ पचास लाख तेईस हजार तीन सौ पैंतीस रू0 मात्र	12 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथिः- **10.04.2023**
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समयः- **21.04.2023** अपराह्न 5.00 बजे तक।
4. **(क)** मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, अभियंत्रण भवन, कचहरी, राँची अथवा **(ख)** जिला नियंत्रण कक्ष, **राँची** अथवा **(ग)** जिला नियंत्रण कक्ष, **गढ़वा** में से किसी भी कार्यालय में निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः- **24.04.2023** अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन- 834001 को भेजा जा सकता है। यह निविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाने वाला निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि निर्धारित तिथि एवं समय (24.04.2023 अपराह्न 3.30 बजे तक) से पूर्व प्राप्त हो जाय। अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व प्राप्त निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि पर ही विचार किया जायेगा।
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः- **25.04.2023** अपराह्न 3.30 बजे।
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पताः- मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन- 834001
8. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
9. निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **गढ़वा** के पक्ष में एवं **गढ़वा** में भुगतेय जमा करना होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294163 Rural Work Department(22-23)#D

भारत की नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च

एजेंसी। नई दिल्ली

कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आज शुक्रवार (31 मार्च) को नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी-2023 की अनाउंसमेंट कर दी है। इस पॉलिसी से सरकार को ग्लोबल ट्रेड में गिरावट के बीच एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार को नई एफटीपी से उम्मीद है कि 2030 तक भारत का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 यानी कल से लागू होगी। गोयल ने कहा कि नई पॉलिसी रुपए में बिजनेस के इंटरनेशनलाइजेशन पर फोकस करेगी। वहीं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष सारंगी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर-2023 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट 2021-22 में 676 बिलियन डॉलर के मुकाबले 760 बिलियन डॉलर के पार हो जाएगा। मिनिस्ट्री ने कहा, 'नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में रिमिशंस से लेकर इंसेंटिव्स तक के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसमें एक्सपोर्टर्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और इंडियन मिशन के कोलैबोरेशन से एक्सपोर्ट प्रमोशन पर फोकस किया जाएगा। यह पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी और ई-कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट हब जैसे उभरते एरियाज पर फोकस करेगी। डीजीएफटी ने कहा, 'यह पॉलिसी गतिशील होगी। इस पॉलिसी पर फीडबैक की कोई आखिरी तारीख नहीं होगी। हम इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते रहेंगे और इसे अपडेट करेंगे। यदि कोई ऐसा सेक्टर है, जो यह महसूस करता है कि इस एफटीपी में उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो निराश न हों। डीजीएफटी ने कहा कि नई पॉलिसी के 2028 तक लागू रहने की उम्मीद है। हालांकि, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की कोई आखिरी डेट नहीं होगी, जरूरत पड़ने पर इसे अपडेट किया जाएगा।

बंधन बैंक देश भर में खोलेगा 50 नई शाखाएं

कोलकाता। बंधन बैंक ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन शुक्रवार को 50 शाखाएं खोलने की घोषणा की। बैंक की ओर से यहां शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार ये शाखाएं देश भर में खोली जाएंगी, जिनमें से अधिकांश बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में होंगी। आज की घोषणा को जोड़ दिये जाने के बाद बंधन बैंक के पास अब 1,400 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क हो गया है। नयी शाखाओं का विस्तार देश भर में अपनी पहुंच का विस्तार करने और ग्राहकों के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है। बयान में कहा गया है कि नयी शाखाएं ग्राहकों को दायित्व और संपत्ति उत्पादों की पूरी श्रृंखला के साथ बंधन बैंक के अद्वितीय ग्राहक प्रस्तावों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। बैंक संपत्ति बही और भौगोलिक उपस्थिति के विविधीकरण की अपनी यात्रा पर अच्छी तरह से चल रहा है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग,
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना दिनांक–

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा के निविदा आमंत्रण संख्या– **200/2022-23/RWD/GARHWA,** दिनांक– **22.12.2022, PR NO.- 285748** द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– **RWD/GARHWA/25/2022-23** की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR294134 (Rural Work Department)22-23*D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग,
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डालटेनगंज के निविदा आमंत्रण संख्या– **176/2022-23/RWD/DALTONGANJ,** दिनांक– **14.12.2022, PR NO.- 285045** द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– **RWD/DALTONGANJ/13/2022-23** की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294132 (Rural Work Department) 22-23 (D)

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू

शुद्धि – पत्र

इस प्रमण्डल अन्तर्गत आमंत्रित निविदा सूचना संख्या– **EE/RDSD/PALAMAU-27/2022-23** जिसका P. R. संख्या 293485 है तथा यह दिनांक–23.03.2023 को प्रकाशित हुई थी। जिसमें ग्रुप संख्या–03, 04 एवं 05 को अपरिहार्य कारणवश स्थगित किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,
पलामू

PR 294075 Rural Development(22-23).D

कार्यालय–
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त,लातेहार
(जिला राजस्व शाखा)

-: अल्पकालीन निविदा :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 3632/रा0, दिनांक 24.06.2016 द्वारा अरूणोदय अतिथिगृह –सह–उपायुक्त कैम्प कार्यालय, नेतरहाट के रख–रखाव एवं संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के अलोक में अरूणोदय अतिथिगृह–सह–उपायुक्त कैम्प कार्यालय, नेतरहाट के सफल संचालन हेतु आवश्यक शर्तो के साथ झारखण्ड राज्य के विभिन्न संचालन संस्था/प्रतिष्ठानों से दिनांक 17.04.2023 को अपराहन् 01:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 17.04.2023 को अपराहन् 03 :00 बजे निविदा खोला जायेगा। निविदादाता को उपायुक्त, लातेहार के पद नाम से मो0 50000/– पचास हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा की विस्तृत विवरणी एवं शर्ते इस जिले के वेबसाईट **www.latehar.nic.in** पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त,लातेहार

PR294136 (District)22-23*D

कार्यालय– जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त, लातेहार, (जिला राजस्व शाखा)

-: अल्पकालीन निविदा :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 3632/रा0, दिनांक 24.06.2016 द्वारा लातेहार जिले के रख–रखाव एवं संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के अलोक में परिसदन भवन (नया/पुराना), लातेहार के सफल संचालन हेतु आवश्यक शर्तो के साथ झारखण्ड राज्य के विभिन्न संचालन संस्था/प्रतिष्ठानों से दिनांक 17.04.2023 को अपराहन् 01:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 17.04.2023 को अपराहन् 03 :00 बजे निविदा खोला जायेगा। निविदादाता को उपायुक्त, लातेहार के पद नाम से मो0 50000/– पचास हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा की विस्तृत विवरणी एवं शर्ते इस जिले के वेबसाईट **www.latehar.nic.in** पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त,
लातेहार

PR 294135 District(22-23)#D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा के निविदा आमंत्रण संख्या– **186/2022-23/RWD/LOHARDAGA,** दिनांक– **19.12.2022, PR NO.- 285539** द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– **RWD/LOHARDAGA/10/2022-23,** की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294017 Rural Work Department(22-23)D

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED
(CIN No.:U40108JH2013SGC001704)
Office of the General Manager Transmission Zone – IV,
Medininagar (Daltonganj),
Address-Sudna, Daltonganj
e-mail : gmtzdal@gmail.com

Tender Cancellation Notice

Due to unavoidable circumstances and reasons, Tender invited against **NIT No. 415/PR/JUSNL/2022-23, 416/PR/JUSNL/2022-23, 417/PR/JUSNL/2022-23 and 418/PR/JUSNL/2022-23** are hereby cancelled.

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचावें। कृपया अपनी शिकयतों को 18003456570(कॉल सेन्टर) पर दर्ज करायें।

PR No. 292142

Sd/-
General Manager
Transmission Zone-IV, Medininagar

PR 294186 Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd(22-23).D

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गढ़वा

आवाश्यक सूचना
(नोटिस)

नाम– (01) अशोक कुमार सिंह पे0– उदय प्रताप सिंह (02). राकेश सिह पे0– अशोक सिह (03). पवन कुमार सिंह पे0– पृथ्वीनाथ सिंह (04). कौशल कुमार सिह पे0– पृथ्वीनाथ सिंह सभी सा0–खोखा थाना–खरौधी जिला–गढ़वा, खरौधीं थाना काण्ड संख्या–03/2022, दिनांक–07.01.2022 धारा–147/148/149/341/323/379 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 3(I)(r)(s) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के प्राथिमिकि अभियुक्त है। उक्त काण्ड में फरार है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी गढ़वा के द्वारा आपके विरुद्ध इश्तेहार निर्गत किया गया है, किन्तु आप अपने स्थाई पता से फिरार है आपको सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय में अविलम्ब आत्मसमर्पण करना सूनिश्चित करे।

पुलिस अधीक्षक
गढ़वा

PR294168 (Police)22-23*D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा के निविदा आमंत्रण संख्या– 219/2022-23/RWD/GARHWA, दिनांक– 05.01.2023, PR NO.- 286747 द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– RWD/GARHWA/26/2022-23 एवं RWD/GARHWA/27/2022-23 की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294131 Rural Work Department (22-23)_D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल, लातेहार के निविदा आमंत्रण संख्या –**181/2022-23/RWD/LATEHAR,** दिनांक–**19.12.2022, PR NO.- 285407** द्वारा प्रकाशित निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR.NO.294052 Rural Work Department(22-23):D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार के निविदा आमंत्रण संख्या–**112/RI/2022-23/RWD/ LATEHAR,** दिनांक–**03.01.2023, PR NO.-286605** द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या–**RWD/LATEHAR/02/2022-23** की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294065 Rural Work Department(22-23)D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग,
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला,अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड,राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डालटेनगंज के निविदा आमंत्रण संख्या– **203/RI/2022-23/RWD/DALTONGANJ,** दिनांक–**30.01.2023, PR NO.- 288875** द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– **RWD/DALTONGANJ/20/2022-23** की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294127 Rural Work Department(22-23).D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग,मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन,
कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डालटेनगंज के निविदा आमंत्रण संख्या– **210/2022-23/RWD/DALTONGANJ,** दिनांक– **02.01.2023, PR NO.- 286600** द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– **RWD/DALTONGANJ/22/2022-23, RWD/DALTONGANJ/23/2022-23, RWD/DALTONGANJ/24/2022-23, RWD/DALTONGANJ/25/2022-23, RWD/DALTONGANJ/26/2022-23, RWD/DALTONGANJ/27/2022-23, RWD/DALTONGANJ/28/2022-23, RWD/DALTONGANJ/29/2022-23, RWD/DALTONGANJ/30/2022-23, RWD/DALTONGANJ/31/2022-23, RWD/DALTONGANJ/32/2022-23, RWD/DALTONGANJ/33/2022-23, RWD/DALTONGANJ/34/2022-23, RWD/DALTONGANJ/35/2022-23** एवं **RWD/DALTONGANJ/36/2022-23** की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294125 (Rural Work Department)22-23*D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल, लातेहार के निविदा आमंत्रण संख्या– **158/2022-23/RWD/LATEHAR,** दिनांक– **08.12.2022, PR NO.-284613** द्वारा प्रकाशित निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294046 Rural Work Department (22-23)_D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार के निविदा आमंत्रण संख्या–**198/2022-23/RWD/LATEHAR,** दिनांक–**22.12.2022, PR NO.-285730** द्वारा प्रकाशित निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294037 Rural Work Department (22-23)_D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग,
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डालटेनगंज के निविदा आमंत्रण संख्या– **52/2022-23/RWD/DALTONGANJ,** दिनांक– **23.09.2022, PR NO.-278721** द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– **RWD/DALTONGANJ/01/2022-23** की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294123 (Rural Work Department) 22-23 (D)

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग,
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा के निविदा आमंत्रण संख्या– **53/RI/2022-23/RWD/CHATRA,** दिनांक– **27.12.2022, PR NO.-286091** द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– **RWD/CHATRA/01/2022-23** एवं **RWD/CHATRA/02/2022-23** की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294116 (Rural Work Department) 22-23 (D)

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा के निविदा आमंत्रण संख्या –**76/RI/2022-23/RWD/LOHARDAGA,** दिनांक– **05.12. 2022, PR NO.-284248** द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– **RWD/LOHARDAGA/03/2022-23** की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR.NO.294024 Rural Work Department(22-23):D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा के निविदा आमंत्रण संख्या– 171/2022-23/RWD/LOHARDAGA, दिनांक– 13.12.2022, PR NO.- 285029 द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– RWD/LOHARDAGA/06/2022-23, RWD/LOHARDAGA/07/2022-23, RWD/LOHARDAGA/08/2022-23 एवं RWD/LOHARDAGA /09/2022-23 की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294020 Rural Work Department (22-23)_D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग,
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक– दिनांक–

आमंत्रित निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डालटेनगंज के निविदा आमंत्रण संख्या– **182/2022-23/RWD/DALTONGANJ,** दिनांक– **19.12.2022, PR NO.-285409** द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या– **RWD /DALTONGANJ/14/2022-23** की निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR 294117 Rural Work Department(22-23).D

श्री राम और उपद्रव

पूरा झारखंड रामनवमी के मौके पर राममय हो गयी। कारण आज भी मर्यादा पुरूषोतम राम हमारे कण-कण में विराजमान हैं। ऐसे में हिंसा की खबरें मन को कचोटती हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की घटना राम के इस देश में स्वीकार नहीं है। ऐसे में इस घटना पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि फिर कभी उपद्रवी ऐसी गलती न कर सकें। बहरहाल राजधानी रांची सहित राज्यभर में रामनवमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। राम भक्तों का उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा था। जय श्री राम के नारे से हर गली और चौराहा गूंज रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जन्मोत्सव पर शहर के कई स्थानों पर झांकी भी प्रदर्शित की गई। सुबह से हनुमान मंदिरों में लंबी कतारें लग गई थी। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में पंडितों ने पूजा-अर्चना करवाकर ध्वजारोहण कराया। लोगों ने भक्तिभाव से श्रद्धा और शांतिपूर्वक रामनवमी का त्योहार मनाया। इस मौके पर समितियों की ओर से भगवान श्री राम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई है। इसमें श्रद्धालु डीजे की धुन पर जमकर थिरकते हुए नजर आये। सुबह की गर्मी और आंधी तूफान का असर राम भक्तों पर नहीं पड़ा। राम नाम के उद्घोष से सृष्टि धन्य हो गयी। पलामू में भी श्रीराम नवमी के अवसर पर राम भक्तों ने श्रीराम जन्म महोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया । बिजली,पानी,बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने में परेशानी का जरूर सामना करना पड़ा। लेकिन सबके जुबां पर एक ही नाम सुनने को मिला जय श्री राम। रामनवमी का पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्र की समाप्ति हो जाती है। हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेतायुग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिये श्री राम का जन्म हुआ था। वहीं इस मौके पर बाहर से आये कलाकार हर जगह से विदा हो गये। इस शर्त के साथ कि फिर अगले साल आयेंगे। विगत तीन वर्षो में कोविड-19 महामारी के कारण रामनवमीं का पर्व नही मनाया जा सका था। **जगह-जगह** कई संगठनों के द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया। नगर निगम व परिसर रामनवमी में लगने वाले भीड़ और शोभायात्रा के दौरान होने वाले भीड़ को ध्यान में रखते हुए सक्रिय रहा। इसके द्वारा सफाई, शौचालय, बिजली और जेनरेटर, पीने का पानी की व्यवस्था की गई। सड़कों पर सफाई इस बार सभी जगहों पर अच्छी थी। कुल मिलाकर इस बार रामनवमी के मौके पर सुरक्षा के साथ-साथ जरूरत के सारे सामना उपलब्ध कराया जाना यह दर्शाता है कि इस पर्व के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय द्वारा भी सहयोग करना यह संदेश देता है कि भले ही वे धर्म बदले हैं,लेकिन अपने पूर्वज नहीं। कारण भगवान राम सभी के हैं। ऐसे में सिया राममय सब जानी के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। आइये श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर अगले जन्मोत्सव पर नया करने का संकल्प लें। समाज में फैल रही हिंसा कहीं से जायज नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन को अपने अंदर उतार कर नये समाज की परिकल्पना की जा सकती है। ऐसे में भले ही रामनवमी का पर्व चला गया हो, लेकिन इसे प्रत्येक दिन मनाने की जरूरत है।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जन्मोत्सव पर शहर के कई स्थानों पर झांकी भी प्रदर्शित की गई। सुबह से हनुमान मंदिरों में लंबी कतारें लग गई थी। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की।

धर्म व राजनीति का घालमेल घातक है

धर्म और राजनीति के घालमेल से समाज एवं राष्ट्र में उन्माद, अराजकता एवं अशांति पैदा हो रही है, राजनीति धर्म का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपने वोट बैंक को बढ़ाने में लगे हैं तो तथाकथित धर्म के ठेकेदार एवं धर्मगुरु राजनीतिक मंचों का उपयोग करते हुए स्वयं को चमकाने में लगे हैं, दोनों ही अपने स्वार्थ पूर्ति के लिये धर्म की मूल आत्मा को ध्वस्त कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को लेकर लगातार कई मंचों से चिंता व्यक्त की जाती रही है। लेकिन यह विडंबना ही है कि यह घालमेल बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी समीचीन है कि जब तक धर्म और राजनीति को अलग-अलग नहीं करेंगे, नफरत की आंधी पर विराम नहीं लगेगा। सार्वजनिक मंचों पर सभी यह मानते हैं धार्मिक वैमनस्यता, नफरत, घृणा, द्वेष उचित नहीं है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं दिखता। जाहिर है कि राजनेताओं और धमार्चार्यों के एक वर्ग ने स्वार्थवश न तो राजनीति को पवित्र रहने दिया है और न ही धर्म को। जबकि धर्म का पहला मंत्र ही स्वार्थ से मुक्ति पाना है। भारतीय संस्कृति की आत्मा ही धर्म है, लेकिन वास्तविक धर्म क्रियाकांड, आडम्बर एवं एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं है। धर्म तो जीवन का स्वभाव है, खुद को पवित्र करने का जरिया है। राजनीति पर धर्म का नियंत्रण हो, यह अपेक्षित है। लेकिन कौनसे धर्म का नियंत्रण? वास्तविक धर्म न तो पंथ, मत, सम्प्रदाय, मन्दिर या मस्जिद में है और न धर्म के नाम पर पुकारी जाने वाली पुस्तकें ही धर्म है। धर्म तो सत्य और अहिंसा है, धर्म तो जीवन रूपान्तरण की, आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। धर्म इंसानों को जोड़ने का माध्यम है न कि तोड़ने का। धर्म तो त्रस्त, दुःखी एवं व्याकुल मानव-जीवन को आत्मिक सुख-शांति एवं राहत की ओर मोड़ने वाला है। जो नारकीय धरातल पर खड़े जन-जीवन को सर्वोच्च स्वर्गीय धरातल की ओर आकृष्ट करने वाला है। धर्म की इस उत्कृष्टता को हिंसा, अलगाव, बिखराव कहां स्वीकार्य है। इसलिये जरूरी है कि तुष्टिकरण हटे और उन्माद भी हटे। अगर भारत माता के शरीर पर धर्म के नाम पर बड़े-बड़े घाव करके भी हम कुछ नहीं सीख पाये, आस्था को उन्माद बनाने से नहीं रोक पाये, वोट के लिए धर्म की राजनीति करना नहीं छोड़ा और सर्वधर्म समभाव की भावना को पुनः प्रतिष्ठापित नहीं किया तो यह हम सबका दुर्भाग्य होगा। इसलिये सबको सन्मति दे भगवान। धर्म और राजनीति का मेल होना चाहिए या नहीं, इस पर पहले भी व्यापक बहस होती रही है। एक वर्ग यह मानता है कि धर्मविहीन राजनीति अपना उद्देश्य कभी पूरा नहीं कर पाती। धर्म के बिना राजनीति मधु के बिना मधुमक्खियों के छत्ते की तरह है, जो सिर्फ लोगों को काट ही सकती है। इस तर्क में भी तभी तक दम है जब तक धर्म को उसके सच्चे अर्थों में स्वीकार किया जाय। ऐसे भारतीय इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण मौजूद हैं जब शासनाध्यक्षों ने अपने समय के सिद्ध धमार्चार्यों की शरण में रह कर उनके दिग्दर्शन में राजकाज चलाया। लेकिन वैसे धमार्चार्य कभी शासनाध्यक्ष नहीं बने। लेकिन समय के साथ-साथ धर्म और राजनीति दोनों में विद्रूपता भी आई है। रही-सही कसर गुलामी के सैकड़ों वर्षों एवं भारत विरोधी शक्तियों ने पूरी कर दी। आज तो राजनीति कथित धमार्चार्यों के सिर चढ़कर बोल रही है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले राजनेता कानून और व्यवस्था की लक्ष्मण रेखाएं लांघ रहे हैं। 'रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई' इस आदर्श को निभाने वाले लोग देश को संगठित करने, ताकतवर बनाने के लिये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जिन मुद्दों पर चिन्ता व्यक्त कर रही है, राजनीतिज्ञ, कर्णधार, धर्मगुरु और नेतृत्व देने वाले ऐसी चिन्ता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वे अगर तात्कालिक एवं दूरगामी नतीजे का अनुमान नहीं लगा पाय तो यह देश का दुर्भाग्य है। देश की शीर्ष अदालत ने नफरत फैलाने वाले बयानों (हेट स्पीच) को रोकने में नाकाम रहने पर सत्ता को फटकारते हुए यहां तक कह दिया कि वह नपुंसक की तरह व्यवहार कर रही है। कानून-व्यवस्था बनाये रखना मूल रूप से राज्यों का काम है, इसलिए हेट स्पीच पर रोक लगाने की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से राज्यों की बनती है। लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए कोई प्रभावी कदम उठाती नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर राज्य होता ही क्यों है? आजादी के दीवानों को भी धर्म और राजनीति के अनैतिक घालमेल की आशंका रही होगी, इसीलिए उस दौरान यह विचार तेजी से आगे बढ़ा कि धर्म और राजनीति को अलग-अलग रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस विचार को बखूबी आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, गुरू गोविन्दसिंहजी जैसे अनेक धर्मगुरु वास्तविक धर्म की स्थापना के लिये तत्पर रहे हैं, वे व्यवहार में पूरे धार्मिक थे, लेकिन राजनीति में इससे दूर रहे। भारतीय पुनर्जागरण के दौरान भी धर्म और राजनीति से ऊपर देशहित को रखा गया और विभिन्न धर्मावलंबी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह चिंता जायज ही कही जायेगी। हमारा राष्ट्र सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष-(पंथ निरपेक्ष कहना चाहिए) समाजवादी गणतंत्र राष्ट्र है, इससे हटकर हमारी मान्यताएँ, हमारी आस्थाएं, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती, हमारा देश एक नहीं रह सकता। हम सब एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में जी नहीं सकते। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए विश्व की बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर राष्ट्र को तथाकथित साम्प्रदायिक ताकतें एवं भारत विरोधी शक्तियां अपने उन्माद में, अपने स्वार्थ में, अपनी राजनीतिक उद्देश्यों में इसे कमजोर करते हैं तो ऐसी ताकतों से राष्ट्र की रक्षा की जानी जरूरी है। खतरा मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजों और गुरुद्वारों को नहीं है, बल्कि खतरा हमारी संस्कृति को है, हमारी राष्ट्रीयता को, हमारी सांझा संस्कृति को हैं, जो हमारी हजारों वर्षों से सिद्ध चरित्र की प्रतीक है। जो युगों और परिवर्तनों के कई दौरों की कसौटी पर खरा उतरा है। कोई बहुसंख्यक और कोई अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक बहुतसंख्यक तो नहीं हो सकते। तो इस सच्चाई को स्वीकार करके रहना, अब तक हम क्यों नहीं सीख पाए? देश में अनेक धर्म के सम्प्रदाय हैं और उनमें सभी अल्पमत में हैं, वे भी तो जी रहे हैं। उन सबको वैधानिक अधिकार हैं तो उनके नैतिक दायित्व भी हैं। देश एवं सरकार संविधान से चलते हैं, आस्था से नहीं। धर्म को सम्प्रदाय से ऊपर नहीं रख सके तो धर्म का सदैव गलत अर्थ निकलता रहेगा। धर्म तो संजीवनी है, जिसे विष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वोटों के लिए जिस प्रकार की धर्म की राजनीति चलाई जा रही है और हिंसा को जिस प्रकार समाज में प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, क्या इसको कोई थामने का प्रयास करेगा? राजनीति का व्यापार करना छोड़ दीजिये, भाईचारा अपने आप जगह बना लेगा। कोई भी परिवार, समुदाय या राष्ट्र एक-दूसरे के लिए कुबार्नी करने पर ही बने रहते हैं।

ललित गर्ग

भारतीय संस्कृति की आत्मा ही धर्म है, लेकिन वास्तविक धर्म क्रियाकांड, आडम्बर एवं एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं है। धर्म तो जीवन का स्वभाव है, खुद को पवित्र करने का जरिया है। राजनीति पर धर्म का नियंत्रण हो।

इन दिनों

बोधि वृक्ष

आईए सुनें महाभारत की कथा

द्युत-क्रीड़ा भवन में उसका धर्म कहाँ गया था। इसलिए अब उसे कोई अधिकार नहीं की वह किसी धर्म या युद्ध नियम की बात करे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है (ब्राह्मण का श्राप फलीभूत हुआ) इसलिए वह उसका वध करे। श्रीकृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन ने इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब, अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। तदनन्तर राजा शल्य कौरव-सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते-होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार दिया। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गयी थी। अन्ततोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पाण्डव-पक्ष के पैदल आदि बहुत-से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गये थे। महाभारत-संग्राम के उस अठारहवें दिन रात्रिकाल में महाबली अश्वत्थामा ने पाण्डवों की सोयी हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिये सुला दिया। उसने द्रौपदी के पाँचों पुत्रों, उसके पांचालदेशीय बन्धुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने-बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सींक के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। (उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय-विनय करके उसके प्राण बचाये)। अश्वत्थामा इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिये उस पर अस्त्र का प्रयोग किया।

(क्रमशः)

गांधी परिवार की फितरत में ही है अहंकार

श्याम जाजू

राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बेबुनियाद बातें करना, गलत शब्दों के प्रयोग, अनावश्यक लांछन लगाने की प्रवृत्ति नई बात नहीं है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। इससे वह देश में हास्यापद हो गये हैं। लोग चटखारे लेते हैं। इससे बड़ा नुकसान उनकी पार्टी को तो हुआ ही है, साथ ही गांधी परिवार चरित्र चर्चा के दायरे में आ गया है। सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी का राहुल के ऐसे ही बयान पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा सुर्खियों में हैं। इस मुकदमे के अदालती फैसले से राहुल ने संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित हो गये हैं। यह कहने में संकोच नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर राहुल का यही अतिरेक ही इस गति का कारण बना। 2019 में कर्नाटक की एक सभा में राहुल ने प्रधानमंत्री की पिछड़ी जाति का अपमान करते हुए कहा था कि देश के सब मोदी चोर क्यों होते हैं। यही वो बयान है जिस पर अदालत ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई है। माना की सोने की चम्मच मुंह में लेकर राहुल राजप्रसाद में जन्मे हैं। उनकी पीढ़ियों ने देश में लंबे समय तक राज किया है। वो भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं। कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं वह गरीब परिवार में जन्मे और राजनीति के फलक पर चमक रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अपमान करेंगे। दूरदर्शी मोदी तीन दशक से पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। आज देश-दुनिया में उनकी लोकप्रियता भारत के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर रही है। सत्ता में रहने का अधिकार केवल एक ही परिवार को नहीं होता। इसे कांग्रेस और राहुल को समझना होगा। सत्ता वियोग के दुख से हताश राहुल गांधी अगर कोपभवन से नहीं निकले तो वह दिन दूर नहीं जब देश की जनता उन्हें और उनकी पार्टी को पूरी तरह खारिज कर देगी। राहुल को अहंकार त्यागना होगा। वैसे गांधी परिवार की तीन पीढ़ियों की मानसिकता का इतिहास कौन नहीं जानता। इन लोगों ने अपने गलत बयानों के लिए कभी माफी नहीं मानी। यह ऐतिहासिक साक्ष्य है कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस जब बहुमत से कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब राहुल के पड़नाना नेहरू परेशान थे। उनके द्वेषपूर्ण रवैये की वजह से ही नेताजी को भारत से बाहर जाना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनकी मृत्यु का रहस्य कांग्रेस राज में फाइलों में दफन रहा। नेहरू ने कभी इस ऐतिहासिक गलती के लिए माफी नहीं मानी। सावरकर और संघ के प्रति दुर्भावना गांधी परिवार की खानदानी परिपाटी है। यही कारण है कि नेहरू ने गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर पर आरोप जड़े। देशभक्त स्वयंसेवकों और सावरकर को जेल में बंद कर दिया। संघ पर प्रतिबंध लगा दिए गए। शर्मनाक यह है कि अदालत ने जब सबको बेदाग घोषित कर दिया तब भी नेहरू ने माफी नहीं मांगी। पाकिस्तान के साथ पहले युद्ध में नेहरू के कार्यकाल के समय कश्मीर का कुछ हिस्सा हमसे छीन लिया गया। यह भू-भाग आज तक वापस नहीं आया। इसका जिक्र कभी भी गांधी परिवार नहीं करता। इस ऐतिहासिक गलती पर माफी मांगना तो दूर की बात है। 1962 के युद्ध में नेहरू के चाइना प्रेम के कारण ''हिंदी चीनी भाई-भाई'' के नारों के बावजूद अपना कुछ भू-भाग चाइना के पास चला गया। सीमा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत न होने से अपने सैनिकों को युद्ध में बड़े पैमाने पर शहादत देनी पड़ी। हार स्वीकारनी पड़ी। तब भी नेहरू ने देश से माफी नहीं मांगी। राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का अपमान करते हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दिया। जबरदस्ती लाखों लोगों की नसबंदी कर दी गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और देशभक्त अटल बिहारी वाजपेयी तक को जेल भिजवा दिया।

राहुल ने प्रधानमंत्री की पिछड़ी जाति का अपमान करते हुए कहा था कि देश के सब मोदी चोर क्यों होते हैं। यही वो बयान है जिस पर अदालत ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई है।

गांधी परिवार

फोटो की दुनिया

ट्वीट-ट्वीट

Pragya Mishra
@PragyaLive

सबसे संस्कारी पार्टी के विधायक जादव लाल नाथ...त्रिपुरा विधानसभा के भीतर..पोर्न इंडस्ट्री के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं..

Translate Tweet

फेसबुक वॉल से

इस ब्रह्माण्ड मे कोई ईश्वर नही है - **तथागत गौतम बुद्ध!**

ईश्वर केवल शोषण का नाम है - **सुकरात!**

ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है - **कार्ल मार्क्स!**

इस देश मे जो नौजवान इश्वरवादी है मेरे नजर मे नामर्द है! - **शहीद भगत सिंह**

पुरे विश्व मे अगर कोई यह साबित कर दे कि ईश्वर है तो मै अपना सर्वस्व उसे दे दूँगा - **स्टीफन हॉकिन्स!**

कोइ ऐसा इश्वर नहीं है जो इस ब्रह्माण्ड को संचालित कर रहा है तुम अपने कर्म के जिम्मेदार स्वंय हो - **रजनीश ओशो!**

राजनीति दलों में मतभेद हो, मनभेद नहीं

'हम भारत के लोग' यह मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय एकात्मता की प्रतिध्वनि को प्रकट करने वाला ऐसा शब्द है, जिससे हम प्रेरित हैं। जब हम इस शब्द को उच्चारित करते हैं तो सहज ही हमारे मन में एक ऐसी भावना निर्मित होती है, जो सबको एक परिवार की भांति देखने के लिए काफी है। लेकिन आज हमारे देश के राजनीतिक दल भारत की इस मूल भावना को विस्मृत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह बात सही है कि विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन में भिन्नता नहीं आनी चाहिए। अगर मन में भिन्नता का अंकुरण प्रस्फुटित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी परिणति आक्रोश ही होगा। इसलिए आदर्श राजनीतिक विचार की परिभाषा यही है कि मतभेद तो होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं। आज देश में मनों में भेद उत्पन्न करने की राजनीति की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान जैसा देश अपने नेटवर्क के माध्यम से भारत में मन भेद की कुत्सित चाल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और वामपंथी दल के नेता ऐसी चालों के साथ कदम मिलाकर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान में विरोधी राजनीतिक दलों के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उसे राजनीतिक भ्रष्टाचार फैलाने वाला निरूपित किया जाए ज्यादा ठीक ही होगा। भ्रष्टाचार का आशय केवल आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं होता, इसका मतलब यह भी है कि जो भ्रमित करने का आचरण करे, वह भी भ्रष्टाचार ही है। राजनीति में मतभेद होना कोई नहीं बात नहीं है, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के अंतर्गत मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जो मत प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी प्रामाणिकता भी होना चाहिए, इसी से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अगर तथ्यहीन मत प्रस्तुत किया जाता है तो वह बहुत बड़े भेद का कारण बनता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखकर कहा जा सकता है कि अब मतभेद ही नहीं, बल्कि मनभेद की राजनीति मुखर होती जा रही है। जहां तक मतभेद की बात है तो मतभेद तो परिवार में भी हो सकते हैं, लेकिन वहां मनभेद को कोई स्थान नहीं होता। अगर मनभेद हुआ तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। मतभेद अवश्य हों, लेकिन मनों में भेद नहीं होना चाहिए। देश की राजनीति भी कुछ ऐसे ही रास्ते पर अपने कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। नये-नये शब्दों को परोसने का खेल खेला जा रहा है, उसके कारण देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी भारत की छवि बिगड़ रही है। भारत देश के नागरिक होने के नाते हमें कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना ही होगा कि हम अपने देश को मजबूती के साथ विदेशों के सामने लाएं। अगर हम खुद ही अपनी कमजोरियां बताने लगेंगे तो फिर देश को बचाने की कवायद कौन करेगा, यह सोचने का विषय है। आज देश में जो राजनीति का स्वरूप दिखाई दे रहा है, वह अपने मूल उद्देश्य से भटकाव की कहानी प्रदर्शित कर रही है। विरोधी राजनीतिक दल केवल आरोप लगाने वाली राजनीति करने तक ही सीमित रहे गये हैं। वास्तव में आज देश में दो प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, जिसमें एक सत्ता का समर्थन करता है तो दूसरा सत्ता के विरोध में ही अपनी सारी कवायद करता है। विसंगति तो यह है कि केन्द्र सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन करने वाली जनता को भी यह राजनीतिक दल मोदी समर्थक मानकर व्यवहार करते हैं, जबकि सत्यता यह है कि उस जनता के मन में सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत है। जिसके मन में इस प्रकार का चिंतन करने का विचार है, वह अपनी कमियां भी देख सकता है और सरकार की अच्छाइयां भी देख सकता है, लेकिन जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वह स्वयं को अच्छा मानता है और दूसरे से अपेक्षा करता है कि वह भी उसे अच्छा ही माने। हम यहां कांग्रेस विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत विचारों के पक्ष और विपक्ष का ही चिंतन कर रहे हैं।

सुरेश हिन्दुस्तानी

भ्रष्टाचार का आशय केवल आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं होता, इसका मतलब यह भी है कि जो भ्रमित करने का आचरण करे, वह भी भ्रष्टाचार ही है। राजनीति में मतभेद होना कोई नहीं बात नहीं है।

राजनीति

स्वामी, परिजात माइनिंग इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लि. की ओर से इसके पब्लिकेशन डिवीजन, रेड़मा मेदिनीनगर (डालटनगंज), से हर्षवर्द्धन बजाज द्वारा प्रकाशित एवं पारिजात माइनिंग इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा.लि. C/O शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा पेट्रोल पम्प, रातू, रांची-835222, झारखंड द्वारा मुद्रित. रजिस्ट्रेशन नं. RNI. 61316/94 पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं.-13 । प्रधान संपादक : सुरेश बजाज, संपादक : हर्षवर्द्धन बजाज, स्थानीय संपादक : ओम प्रकाश अमरेन्द्र*, प्रेस कार्यालय : रांची रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, (डालटनगंज) पलामू-822102, फोन नम्बर : 07759972937, 06562-240042/ 222539, फैक्स नम्बर : 06562-241176/231257, रांची कार्यालय : 502बी, पांचवी मंजिल मंगलमूर्ति हाईट्स, रानी बगान, हरमू रोड, रांची-83001, फोन नं.- 0651-2283384/ फैक्स : 0651-2283386, दिल्ली कार्यालय : 25-एलएफ, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-1, गढ़वा कार्यालय : मेन रोड, गढ़वा-822114, फोन : 9430164580, लातेहार कार्यालय : रमेश सेनेटरी, मेन रोड, लातेहार -829206, फोन : 9128656020, 7763034341, लोहरदगा कार्यालय : रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में, आशा कॉम्प्लेक्स लोहरदगा- फोन : 7903891779, 8271983099, ई-मेल : rnm_hb@yahoo.co.in, rnm.hvb@gmail.com (*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार।)

हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है भुट्टे के बाल से बनीं चाय

गर्मा गर्म भुट्टे खाकर खुशनुमा मौसम और खुशनुमा हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भुट्टे को सेंकने के लिए उसके बालों को फेंक दिया जाता है। लेकिन भुट्टे के बाल सेहत के लिए भुट्टे से भी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जानिए इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के मौसम में या किसी झील के किनारे खड़े होकर भुट्टों का मजा तो सबने लिया होगा। गर्मा गर्म भुट्टे खाकर खुशनुमा मौसम और खुशनुमा हो जाता है। हालांकि मौसम की खूबसूरती में खो कर शायद आपने कभी भुट्टों पर गौर नहीं किया होगा। भुट्टे को छीलकर भूना जाता है। इन्हीं छिलकों में भुट्टे के बाल भी लगे होते हैं। जिन्हें या तो छिलका निकालते समय फेंक दिया जाता है या कई बार भुट्टा सेंकते समय यह जल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भुट्टे के यह बाल हमारी सेहत के लिए भुट्टे से भी अधिक फायदेमंद होते हैं। भुट्टे के इन बालों का इस्तेमाल घरेलू औषधि के रूप में भी किया जा सकता है। भुट्टे के बाल से बनी चाय कई छोटे मोटे रोगों पर काबू करने में बहुत काम आती है। इसके लिए आपको सिर्फ भुट्टा सेंकने से पहले इसके बालों को अलग कर लेना है। फिर इनको अच्छे से धोने के बाद एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से भुट्टे के बाद कुछ समय तक खराब नहीं होंगे। इसके बाद आप इन बालों की चाय बनाकर इसमें मौजूद औषधीय गुणों का लाभ ले सकते हैं।

कैसे बनाएं भुट्टे के बाल की चाय

- सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दें।
- पानी में उबाल आने पर इसमें भुट्टे के बालों को डाल दें।
- कुछ देर पकने के बाद इसको किसी बर्तन से ढक दें
- फिर भुट्टे के बाल के उबले पानी में नींबू मिला दें।
- आप चाहें तो इसका दो से तीन दिन तक उपयोग कर सकते हैं। फ्रिज में रखने से यह खराब नहीं होगा। ऐसे में जब भी आपका चाय पीने का मन हो तो पानी को निकाल कर गर्म कर लें और चाय की तरह सेवन करें। सुबह खाली पेट इस चाय का सेवन आपको ज्यादा फायदा पहुंचाता है।

पोषक तत्व

भुट्टे के बाल में कई तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसके बालों विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन सी, और विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई तरह के मिनरल्स की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। भुट्टे के बालों में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन के अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाया जाता है।

चाय के फायदे

भुट्टे के बालों की चाय पीने से शरीर डिटॉक्स होने के साथ ही वजन भी घटने लगता है। क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर वजन घटाने में मदद करते हैं।

डायबिटीज में फायदा

डायबिटीज के मरीज दिन में एक बार भुट्टे के बालों की चाय पी सकते हैं। यह चाय आपके शरीर में मौजूद इंसुलिन को एक्टिवेट करते हैं। जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है।

किडनी के लिए फायदेमंद

भुट्टे के बालों की चाय पीने से किडनी की भी क्लीनिंग होती है। इसके सेवन से पथरी का खतरा काफी कम हो जाता है। हालांकि इस चाय के सेवन से आपको बार-बार यूरिन की समस्या हो सकती है। वहीं जिन लोगों की किडनी में कुछ समस्या है, उनके लिए भुट्टे के बालों की चाय फायदेमंद होती है। इसके सेवन से शरीर में जमा नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। जिसके कारण किडनी में स्टोन का खतरा कम होता है।

हाई ब्लडप्रेशर

भुट्टे के बालों की चाय का सेवन करने से शरीर में बढ़ रहा सोडियम भी यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। इसके सेवन से बीपी कंट्रोल में रहता है। हाल ही में हुए एक शोध में सामने आया कि भुट्टे की चाय का सेवन किए जाने से रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और सूजन आदि को कम करने में मदद मिलती है।

एंटी इंफ्लेमेटरी गुण

भुट्टे के बालों में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर में होने वाली सूजन से राहत दिलाने का कार्य करता है। शरीर के किसी हिस्से में ज्यादा सूजन कई प्रकार की बीमारियों से भी जुड़ा हो सकता है। कई बार यह मधुमेह और हृदय रोग का कारण बनता है। भुट्टे के रेशमी बालों का अर्क शरीर में सूजन पैदा करने वाले दो मेजर इंफ्लेमेट्री कंपाउंड की गतिविधि को दबाने का काम करते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

- भुट्टे के बालों की चाय का दिन में बार-बार सेवन न करें। इसको दवा की खुराक समझ कर पिएं।
- प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं को इस चाय का सेवन नहीं करना चाहिए।
- इस चाय को पीने से यूरिन ज्यादा आता है। इसलिए यूरिन ज्यादा बढ़ने पर इस चाय का सेवन रोक दें।
- इसके कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन करें।
- यह चाय नेचुरल दवा के रूप में काम करती है। इसलिए भुट्टे के बालों को फेंकने की जगह इसका चाय के तौर पर इस्तेमाल करें।

❖ अनन्या मिश्रा

सेहत के लिए फायदेमंद होता है मूंगफली का सेवन

मूंगफली दिल संबंधी समस्याओं को कम करने का काम करती है। लोगों में बढ़ती हृदय रोग की समस्या को देखते हुए डॉक्टर्स भी डाइट में मूंगफली को शामिल करने की सलाह देते हैं। इसके सेवन से कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। हृदय रोग की समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है। इसके कारण दिल की बीमारी से होने वाली मौतों के आंकड़ों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। आहार एवं पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, हृदय रोग के खतरे को स्वस्थ और पौष्टिक आहार कम कर सकता है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने भी हृदय रोग कम करने में आहार को सहायक बताया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस्केमिक स्ट्रोक या हृदय रोग के खतरे को मूंगफली के रोजाना सेवन से कम किया जा सकता है। दिल की बीमारी के लिए मूंगफली फायदेमंद है।

क्या कहती है रिसर्च

जापान के लोगों पर किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि जो व्यक्ति रोजाना मूंगफली खाता है। अन्य लोगों के मुकाबले उनका हृदय ज्यादा स्वस्थ रहता है। वहीं इससे पहले अमेरिका में भी एक शोध किया गया था। इसमें भी बताया गया कि मूंगफली के सेवन से हृदय को मजबूती मिलती है। आइए जानते हैं कि हृदय रोगियों के लिए मूंगफली कैसे फायदेमंद है।

इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा

जापान स्थित यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर और अध्ययन के प्रमुख लेखक सतोयो इकेहारा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक अध्ययन में सामने आया है कि इस्केमिक स्ट्रोक का खतरे को मूंगफली के सेवन से काफी हद तक कम किया जा सकता है। अपने आहार में यदि मूंगफली को शामिल किया जाए तो गंभीर बीमारियों को होने से रोका जा सकता है। बता दें कि इस्केमिक स्ट्रोक गंभीर बीमारी है। इससे मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के बन जाते हैं। जिससे कई बार व्यक्ति की जान भी चली जाती है।

फायदेमंद है मूंगफली का सेवन

जापान में 74 हजार से अधिक पुरुषों और महिलाओं पर वैज्ञानिकों ने कई स्तर से अध्ययन किया। जिसमें मंगफूली के सेवन और हृदय रोगों के खतरे में कमी की जांच की गई। तमाम तरह से की गई जांच में पाया गया कि रोजाना सिर्फ 4-5 मूंगफली के सेवन से इस्केमिक स्ट्रोक के जोखिम को 20 फीसदी तक कम होता है। इसके अलावा सामान्य स्ट्रोक का खतरा मूंगफली के सेवन से 16 फीसदी तक कम हो सकता है। हृदय रोग के जोखिम को मूंगफली 13 फीसदी तक कम कर सकती है।

पोषक तत्वों से भरपूर मूंगफली

स्वास्थ्य के लिए मूंगफली जरूरी तमाम पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मूंगफली में पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड, खनिज, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन और डाइट्री फाइबर आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। मूंगफली के यह पोषक तत्व बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है। इसके अलावा क्रोनिक इंफ्लामेशन और हाई-ब्लड प्रेशर के खतरे को कम कर सकते हैं। जिससे हृदय रोगों का जोखिम कम हो जाता है।

कैसे करें मूंगफली का सेवन

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, सभी लोगों को हर सप्ताह में कम से कम पांच दिन 2 बड़े चम्मच तमाम तरह के नट्स का सेवन किया जाना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की मानें तो पेकान, मैकाडामिया, अखरोट, काजू, और हेजलनट्स का सेवन भी हृदय के लिए फायदेमंद होता है। इसके सेवन से भी हृदय रोग से बचा जा सकता है।

❖ अनन्या मिश्रा

किडनी को स्वस्थ रखने का यूनानी, आयुर्वेदिक जूस

ब्यूरो। नई दिल्ली

हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में एक किडनी भी है, जिसे शरीर की केमिकल फैक्ट्री माना जाता है जो शरीर में बनने वाले अलग-अलग टॉक्सिक को पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है। यदि किसी कारण से किडनी की काम करने की क्षमता कम हो जाए, तो शरीर में टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाते हैं। जिसका असर शरीर व किडनी पर पड़ता है। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक व यूनानी दवाओं के विशेषज्ञों के अनुसार, एक विशेष तरह का चार चीजों को मिलाकर बना जूस किडनी को स्वस्थ रखने में बहुत लाभदायक है। इसका सेवन संबंधित विशेषज्ञ से पूछकर किया जा सकता है।

इसके लिए सेब का सिरका लें। सेब का सिरका किडनी को स्वस्थ बनाने, किडनी में जमा अतिरिक्त मिनरल्स को बाहर निकालने में असरदार है। ये मिनरल्स किडनी स्टोन का कारण बनते हैं। सेब के सिरके में साइट्रिक एसिड होता है जो स्टोन को गलाता है और किडनी को स्वस्थ रखता है। सेब का सिरका बीपी और शुगर को कंट्रोल करता है। सिरका किडनी स्टोन और सूजन को दूर करता है इसके अलावा क्रैनबेरी जिसे करौंदा कहते हैं जो विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है, इसका जूस संक्रमण से बचाव करता है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो किडनी को हेल्दी रखते हैं।यह महिलाओं में यूटीआई की परेशानी को दूर करने में बेहद असरदार होता है। इस जूस को बनाने के लिए तीसरी चीज नींबू है जो शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड किडनी में होने वाले स्टोन से बचाता है। विटामिन सी से भरपूर नींबू किडनी को क्लीन करने में मदद करता है। चौथी चीज है शहद। जो एंटीफंगल व एंटीबैक्टीरियल होता है । इन गुणों के कारण शहद किडनी को संक्रमण से बचाता है और किडनी को स्वस्थ रखता है।

जूस कैसे बनावें

एक बड़े गिलास में 200 मिली ली. पानी और उतना ही क्रैनबेरी का जूस मिलाएं। अब इस जूस में एक चम्मच सेब का सिरका और आधा नींबू का रस मिलाएं। इस जूस में अब एक से दो चम्मच शहद मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें। यह सुबह खाली पेट पीने से किडनी साफ रहेगी, किडनी की बीमारियों से राहत मिलेगी। लेकिन किडनी के मरीजों को चिकित्सा विशेषज्ञों से पूछकर ही इसका सेवन करना चाहिए।

सूडोकु नवताल- 6656

कठिन ★★★★☆

	8	5						
3								
			6			7	4	
6			2		4			
1								8
			7		5			3
	4	7			1			
								6
						5	2	

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -6655 का हल

4	3	9	2	6	8	5	1	7
8	1	6	7	4	5	9	2	3
7	5	2	3	9	1	6	4	8
1	7	5	4	2	6	8	3	9
6	4	3	8	5	9	2	7	1
2	9	8	1	7	3	4	5	6
5	2	1	6	8	7	3	9	4
9	8	7	5	3	4	1	6	2
3	6	4	9	1	2	7	8	5

दैनिक पंचांग

01 अप्रैल 2023 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	मीन में	मेष	06.37 बजे से
चंद्र	कर्क में	वृष	08.17 बजे से
मंगल	मिथुन में	मिथुन	10.15 बजे से
बुध	मेष में	कर्क	12.28 बजे से
गुरु	मीन में	सिंह	14.44 बजे से
शुक्र	मेष में	कन्या	16.56 बजे से
शनि	कुंभ में	तुला	19.07 बजे से
राहु	मेष में	वृश्चिक	21.22 ब.से
केतु	तुला में	धनु	23.38 बजे से
		मकर	01.43 बजे से
		कुंभ	03.29 बजे से
		मीन	05.02 बजे से

राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक

शनिवार 2023 वर्ष का 91 वां दिन
दिशाशूल पूर्व **ऋतु** बसंत।
विक्रम संवत् 2080 **शक संवत्** 1944
मास चैत्र **पक्ष** शुक्ल
तिथि एकादशी 04.20 बजे रात्र को समाप्त। **नक्षत्र** आश्लेषा 04.48 बजे प्रातः को समाप्त। **योग** धृति 02.44 बजे रात्र को समाप्त। **करण** वणिज 15.11 बजे तदनन्तर विष्टि 04.20 बजे रात्र को समाप्त। **चन्द्रायु** 10.3 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 04° 21'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1871570
जूलियन दिन 2460035.5
कलियुग संवत् 5123
कल्पारंभ संवत् 1972949123
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2549
हिजरी सन् 1444
महीना रमजान **तारीख** 09
विशेष कामदा एकादशी, बैंक अवकाश।

दिन का चौघड़िया				रात का चौघड़िया			
काल	05.55	से 07.23	बजे तक	लाभ	05.37	से 07.10	बजे तक
शुभ	07.23	से 08.51	बजे तक	उद्वेग	07.10	से 08.42	बजे तक
रोग	08.51	से 10.19	बजे तक	शुभ	08.42	से 10.14	बजे तक
उद्वेग	10.19	से 11.46	बजे तक	अमृत	10.14	से 11.47	बजे तक
चर	11.46	से 01.14	बजे तक	चर	11.47	से 01.19	बजे तक
लाभ	01.14	से 02.42	बजे तक	रोग	01.19	से 02.51	बजे तक
अमृत	02.42	से 04.10	बजे तक	काल	02.51	से 04.23	बजे तक
काल	04.10	से 05.37	बजे तक	लाभ	04.23	से 05.56	बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें।

शब्द पहेली - 7719



बाएँ से दाएँ

1. कथा, गाथा-3
3. भगौना-3
5. पुष्पहार-2
6. वायदा, कसम-2
8. अभिष्ट इच्छापूर्ति, वर-4
11. योग्य, उपयुक्त-3
13. चिंतन, सोच-विचार-3
14. ताश का एक खेल-2
15. संजय दत्त की पहली फिल्म-2
16. चेहरा, शक्ल-3
18. चाकू, खंजर-3
20. उकसाना, चकमा देना -4
23. लक्ष, सौ हजार-2
25. ईश्वर, भगवान-2
26. विदा, गमन-3
27. लेखनी, पेन-3

ऊपर से नीचे

1. हुनर, फन-2
2. शांति, वीराना-3
3. चिलमन, ओट, घूंघट-3
4. ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ-2
5. माजरा, मुद्दा-3
7. आंगन, बरामदा-3
9. भागना (अंग्रेजी-2)
10. चटपटा, क्षारीय-4
12. कारनामा, करिश्मा-4
16. अच्छे सुर का ज्ञाता-3
17. मालिक, स्वामी-2
19. प्रेम प्रतिद्वंदी (उर्दू-3)
21. बेदखल करना-3
22. फिजूल, व्यर्थ-2
24. गधा, गर्दभ -2
25. एक प्रकार की विदेशी शराब-2

शब्द पहेली -7718 का हल

■	ह	ल	क	■	क	ल	श
क	द	■	हा	ज	मा	■	र
ह	■	ना	नी	■	ल	ब	■
र	च	ना	का	र	■	सा	ल
■	र	■	र	■	स	■	ह
र	स	द	■	ता	ली	ब	जा
वा	■	ल	क	■	के	ला	■
य	■	■	स	ज	दा	■	ना
त	ल	घ	र	■	र	ह	म

आज का राशिफल

मेष राशि : आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यों में सफलता मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च की भी अधिकता रहेगी।

वृष राशि : आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। कारोबार अच्छा चलेगा और धनलाभ की स्थिति रहेगी। नौकरी में तरक्की के योग हैं। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की मदद से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी।

मिथुन राशि : आज का दिन मिला-जुला रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धनलाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।

कर्क राशि : आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग रहेंगे। व्यापार-धंधे में आर्थिक लाभ की स्थिति रहेगी। सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, जिससे समाज में सम्मान बढ़ेगा।

सिंह राशि : आपका आज का दिन शुभ फलदायी है। व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे। नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे।

कन्या राशि : आज का दिन मिला-जुला रहेगा। कारोबार मध्यम चलेगा और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र पर कामकाज की अधिकता रहेगी।

तुला राशि : आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार-धंधा अच्छा चलेगा। कारोबार विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं, जो लाभकारी सिद्ध होंगी।

वृश्चिक राशि : आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार-धंधे में आर्थिक लाभ और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। आकस्मिक धनलाभ की भी संभावना रहेगी।

धनु राशि : आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण रहेगा और कार्यों में सफलता मिलेगा। कारोबार अच्छा चलेगा और धनलाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन कार्यभार की भी अधिकता रहेगा।

मकर राशि : आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। कार्यक्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कुंभ राशि : आज का दिन मिला-जुला रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में छोटी-छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, मेहनत से कार्यों में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ की स्थिति रहेगी।

मीन राशि : आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। व्यापार-धंधा अच्छा चलेगा और आकस्मिक धनलाभ के योग रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और सभी कार्य सफल होंगे।

KASHYAP'S DENTAL CLINIC
Dr. Vaibhav Kashyap
Oral & Dental Surgeon, C.c. Endodontist &
Implantologist Certified Orthodontist, MIDA
" Smiles & More"
छात्र-छात्राओं के लिए
50% की छूट
Facilities
❖ आरसीटी
❖ पायरिया का ईलाज
❖ टेढ़े-मेढ़े दाँतों का ईलाज
❖ स्माईल डिजाइन
❖ इनविजिवल क्लिप
❖ दंत रोपण
❖ फिक्स दाँत लगाना
❖ अत्याधुनिक मशीन और तकनीक के द्वारा ईलाज

CHAMBER
SKYLINE - 4006, 4th Floor, Kadru, Opp. Dr. Lal's Hospital, Ranchi
Contact No. : 9199533383, 7903835453
Time : 9 am to 2 pm & 4 pm to 8 pm
Sunday : 9 am to 2 pm
E-mail : vaibhav.kashyap2011@gmail.com

NEWS इन ब्रीफ

आज रिहा हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, जो 1988 के रोड रेज मामले में अपने गृहनगर पटियाला की जेल में एक साल के सश्रम कारावास की सजा काट रहे हैं, शनिवार को समय से 45 दिन पहले रिहा होने की संभावना है। सिद्धू के हैंडल से शुक्रवार को किए गए एक ट्वीट में कहा गया, 'सभी को सूचित किया जाता है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को कल पटियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने समय से पहले उनकी रिहाई की पुष्टि नहीं की है।

आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला शख्स गिरफ्तार

अमरावती। आंध्र प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और सत्तारूढ़ दल के अन्य नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कृष्णा जिले के गन्नवरम में पुलिस ने पोंडुरी कोटिरत्नम अंजन (34) को सोशल मीडिया पर अपमानजनक संदेश पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि, उन्हें गुरुवार शाम एक स्थानीय अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया।

केरल में कांग्रेस नेतृत्व से सांसद के. मुरलीधरन खफा

कोच्चि। कांग्रेस के दिग्गज नेता के. करुणाकरण के बेटे के. मुरलीधरन ने गुरुवार को आयोजित वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह में अपने साथ हुए व्यवहार पर निराशा व्यक्त की। एआईसीसी अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) द्वारा आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि थे। कोझिकोड जिले के बडागरा से लोकसभा सदस्य और केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि समारोह में उन्हें दरकिनार कर दिया गया।

शोपियां से दो हाईब्रिड आतंकी गिरफ्तार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को यूट्यूबर पत्रकार पर हुए आतंकी हमले में शामिल दो हाईब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के अनुसारः हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और जांच के दौरान मौखिक और तकनीकी सबूतों के आधार पर कई संदिग्धों को पकड़ा गया था।

ठग सुकेश ने सीएम केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप

चैट का ट्रेलर आने वाले हफ्ते में दिखाने का किया है वादा

सुकेश ने केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन के बीच चैट का ट्रेलर दिखाने का किया है वादा

एजेंसी। नई दिल्ली

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने शुक्रवार को एक प्रेस बयान जारी कर सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने आने वाले सप्ताह में केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन के बीच चैट का ट्रेलर दिखाने का वादा किया है। केजरीवाल को संबोधित अपने हस्तलिखित पत्र में सुकेश ने लिखा कि आपके नाटक, कट्टर भ्रष्ट मानसिकता, झूठ और चालाकी की पोल खुल जाएगी।

चंद्रशेखर ने कहा है कि उनके पास केजरीवाल के साथ व्हाट्स एप्प और टेलीग्राम हुए चैट के 700 पेज हैं। जो शराब गेट कांड के आरोपियों में से एक को राजनीतिक कार्यालय, टीआरएस के पार्टी कार्यालय में केजरीवाल की ओर से भुगतान किए गए 15 करोड़ रुपये से संबंधित है। सुकेश ने लिखा था कि केजरीवाल ने कोड वर्ड 15 किलो घी का इस्तेमाल किया है। शराब नीति में आरोपी एक व्यक्ति को 15 करोड़ रुपये हैदराबाद के ऑफिस में दिए। यह रकम टीआरएस ऑफिस में खड़ी रेंज रोवर गाड़ी में बैठे व्यक्ति को दिए थे।

चंद्रशेखर ने उपरोक्त विवरण को एक टीजर बताते हुए लिखा कि चैट जारी करने के बाद केजरीवाल को अपना चेहरा दिखाने में शर्म आएगी। उन्होंने लिखा कि उपरोक्त सभी विवरण केवल एक टीजर हैं, लेकिन आने वाले सप्ताह में जब चैट जारी होगी, तो आपके पास (केजरीवाल जी) दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि वह जिस चैट का जिक्र कर रहे हैं, वह 700 पेज की चैट में से केवल एक है। अब तुम्हारी उलटी गिनती शुरू हो गई है मेरे भाई, मेरे परिवार को परेशान करना बंद करो। यह आखिरी बार है जो मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें सत्ता की कुर्सी से हिलाकर रख दूंगा। तुम्हारे सारे गोलमाल और भ्रष्टाचार सबके सामने होगा, तैयार हो जाइए।

पार्क में बैठी महिला को कार में खींचकर गैंगरेप

बेंगलुरू। बेंगलुरू के कोरमंगला थाना क्षेत्र में पुरुष मित्र के साथ पार्क में बैठी एक युवती को कुछ लोगों ने जबरन एक कार में खींच लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतीश, विजय, श्रीधर और किरण के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, घटना 25 मार्च देर रात की है। युवती अपने पुरुष मित्र के साथ नेशनल गेम्स विलेज पार्क में बैठी थी। आरोपी व्यक्तियों ने उसके पुरुष मित्र को धमकी दी और युवती को कार में खींच लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी कार को डोम्लुर, इंदिरानगर, अनेकल और नीस रोड पर ले गए और रात भर उसके साथ रेप किया। आरोपी बाद में 26 मार्च की तड़के उसे उसके घर के पास छोड़ गए। सुबह 4 बजे घर पहुंचने के बाद, पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

इंदौर का बावड़ी कांड

अब तक 36 की मौत

बचाव और राहत कार्य में लगे हैं सेना के जवान

एजेंसियां। इंदौर

रामनवमी के मौके पर इंदौर में बावड़ी का छत टूटने से हुए हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 का उपचार जारी है। सेना के जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। हादसा स्थल पर मौजूद भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने संवाददाताओं को बताया कि हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोग घायल हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों का हाल जाना और हादसे की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार की सुबह इंदौर पहुंचे। उन्होंने उस स्थान का दौरा किया जहां हादसा हुआ था और उसके बाद अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में खुले पड़े कुएं, बावड़ी और बोरवेल को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि घटना में दिवंगत लोगों के परिजनों को पांच पांच लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। घायलों के निः शुल्क उपचार के साथ 50 हजार प्रति घायल को राशि प्रदान की जाएगी।

सिब्बल ने दिग्विजय की आलोचना की

जर्मनी को दिग्विजय ने कहा था धन्यवाद

एजेंसी। नई दिल्ली

निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की 'राहुल गांधी के मामले पर ध्यान देने के लिए जर्मनी को धन्यवाद देने' के लिए आलोचना की और कहा, यहां आगे चलने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं है। शुक्रवार को एक ट्वीट में, सिब्बल ने कहा : दिग्विजय सिंह, आपने भारत में लोकतंत्र से किस तरह समझौता किया जा रहा है, इस पर ध्यान देने के लिए बर्लिन को धन्यवाद दिया। मेरे विचार से हमें आगे चलने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हमें विदेशों से समर्थन की आवश्यकता नहीं है। हमारी लड़ाई हमारी अपनी है और इसमें हम साथ हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को राहुल गांधी की सजा और संसद से अयोग्यता पर टिप्पणी के लिए जर्मन विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया।

जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहली बार राहुल गांधी के मामले पर टिप्पणी की और कहा कि फैसला और संसद से राहुल के निलंबन पर उनके देश की नजर है। उन्होंने कहा कि अपील से पता चलेगा कि निलंबन का आधार है या नहीं। उनका देश न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानकों की अपेक्षा करता है।

एक ही परिवार के चार लोगों ने की आत्महत्या

मंगलुरू। कर्नाटक के मंगलुरु में एक लॉज में एक परिवार के चार सदस्यों ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता शुक्रवार सुबह चला। पुलिस ने कहा कि लॉज में एक कमरा 27 मार्च को 30 मार्च तक के लिए बुक किया गया था। शुक्रवार सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर परिवार के सदस्यों को मृत पाया।

मैं ही मोदी, मैं ही ट्रंप...कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता

एजेंसी। रायचूर (कर्नाटक)

कर्नाटक के रायचूर जिले से भाजपा विधायक शिवराज पाटिल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए एक कथित ऑडियो क्लिप शुक्रवार को वायरल हो गया। क्लिप में पाटिल कहते हैं कि प्रधानमंत्री समेत कोई भी उनसे सवाल नहीं कर सकता, वह किसी कठपुतली की नहीं सुनेंगे। तीन मिनट के क्लिप में विधायक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, कोई मोदी या कोई नहीं है। मैं केवल शिवराज पाटिल हूं। मैं किसी भी साथी की बात नहीं मानूंगा। मुझे मोदी के दाहिने हाथ की परवाह नहीं है। मैं अकेली सेना हूं। मेरे पास कोई बायां या दायां नहीं है। मैं मोदी हूं। मैं ट्रम्प हूं। वे मुझे नहीं छेड़ सकते। उन्होंने कहाः मैं चुनाव हारूं या जीतूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया में कोई चिंतामुक्त व्यक्ति है, तो वह शिवराज पाटिल हैं। मैं भगवान की तरह हूं। मैं अपने लड़कों से रोज पैर छूने और आशीर्वाद लेने के लिए कहता हूं।

दिल्ली नहीं होगी हिंदू राष्ट्र की राजधानी : राजा सिंह

निलंबित बीजेपी विधायक के विवादित बोल, कहा- मुस्लिमों को वोटिंग राइट्स नहीं

एजेंसी। हैदराबाद

हैदराबाद के निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। टी राजा ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसकी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि मथुरा, काशी या अयोध्या होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। हैदराबाद में शोभा यात्रा के दौरान टी राजा ने ये बयान दिया है।

बीजेपी से विधायक चुने गए टी राजा सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। बीजेपी ने विवादित बयान के चलते ही उन्हें निलंबित कर दिया था। बीते साल अगस्त में विधायक टी राजा को गिरफ्तार किया गया था।

टी राजा ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था। टी राजा ने फारूकी पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। वीडियो में टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में विरोध जताया था।

FILMY हलचल

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टाइपकास्ट होने की बात पर खुलकर बोलीं पूजा डे

रियलिटी शो 'डेटिंग इन द डार्क' से अपनी शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस पूजा डे को आगे कामुक वेब सीरीज 'गंदी बात सीजन 5' में देखा गया, जिसमें उन्होंने एक समलैंगिक नंदिनी का किरदार निभाया था। एक्ट्रेस ने उस सीरीज के बाद एक बोल्ड जोन में टाइपकास्ट होने और उससे बाहर आने के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने कहाः हर कोई कितना भी नकार ले, लेकिन हां, हमारी इंडस्ट्री में 'टाइपकास्टिंग' तो होती ही रहती है। 'गंदी बात' के बाद, मुझे केवल बोल्ड और घटिया कंटेंट के ऑफर मिले। ऐसा नहीं था कि मैं बोल्ड शोज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुख्य पैरामीटर, जो कि कहानी है, उन प्रोजेक्ट्स से गायब था। मुझे अच्छी खासी रकम भी मिल रही थी, लेकिन मैं ऐसा किरदार या प्रोजेक्ट कैसे कर सकती हूं जो मुझे सही नहीं लगते?

'भोला' ने की दमदार ओपनिंग

अजय देवगन की लास्ट रिलीज फिल्म 'दृश्यम 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। वहीं, अजय एक बार फिर रामनवमी के मौके पर एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'भोला' के साथ सिनेमाघरों में पहुंचे। इस फिल्म का रिलीज से पहले ही काफी बज था और 'भोला' को पहले दिन ऑडियंस ने सिर माथे पर बैठाया है। 'भोला' बने अजय देवगन की एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन की जमकर तारीफ हो रही है। क्रिटिक्स ने तो फिल्म की काफी सराहना की ही है वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने 'भोला' को फुल पैसा वसूल फिल्म बताया है। इस बीच फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई के शुरूआती आंकड़े भी आ गए हैं। 'भोला' ने पहले दिन टिकट खिड़की पर 11.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। हालांकि 'भोला' की पहले दिन की कमाई अजय की लास्ट रिलीज 'दृश्यम 2' के ओपनिंग कलेक्शन से कम है। दरअसल 'दृश्यम 2' ने रिलीज के पहले दिन 15.38 करोड़ रुपये बटोरे थे। मेकर्स को वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में और उछाल आने की उम्मीद है। भोला में अजय देवगन और तब्बू के अलावा, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, अमाला पॉल और गजराज राव सहित कई कलाकारों ने कमाल की एक्टिंग की है. ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई तमिल फिल्म 'कैथी' की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है।

'हंटरः टूटेगा नहीं तोड़ेगा' में स्टंट करने के लिए ईशा देओल ने ली सुनील शेट्टी की मदद

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने 'हंटर : टूटेगा नहीं तोड़ेगा' के सेट पर सभी स्टंट खुद करने के अपने अनुभव को साझा किया। ईशा ने कहा कि सुनील शेट्टी के साथ काम करने से उन्हें अपने एक्शन स्किल्स में सुधार करने में मदद मिली है। एक्ट्रेस ने कहाः सभी एक्शन सीक्वेंस मेरे द्वारा किए गए हैं। अन्ना के खिलाफ लड़ना, एक अद्भुत अनुभव था। उनसे बहुत कुछ सीखा है क्योंकि वह इसमें माहिर है। पहले भी अन्ना के साथ काम करने के चलते कंफर्ट जोन था। हमने प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग के समय काफी मजे किए। उनके साथ एक्शन सीन शूट करने के लिए विशेष रूप से शानदार थे। मेरे मन में उनके लिए बेहद सम्मान है। ईशा, जिन्होंने 'कोई मेरे दिल से पूछे' से अभिनय की शुरुआत की, और बाद में 'धूम', 'काल', 'दस' और 'नो एंट्री' में काम किया, ने सीरीज में अपने किरदार के बारे में और जानकारी दी।

'सिटाडेल' के ट्रेलर में मैडेन और प्रियंका के मेमोरी लॉस पर फोकस

आगामी स्ट्रीमिंग सीरीज 'सिटाडेल' का एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ है जो रिचर्ड मैडेन और प्रियंका चोपड़ा जोनस द्वारा निभाए गए दो पूर्व एजेंटों की कहानी को और गहराई से बताता है। उनके एक सहकर्मी द्वारा खराब व्यवहार करने के बाद उनकी याददाश्त चली जाती हैं, जिससे जासूसी एजेंसी का पतन हो जाता है। शो की कथा के अनुसार, नाम मात्र की स्वतंत्र वैश्विक जासूसी एजेंसी को मटिकोर के गुर्गों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। प्रियंका और रिचर्ड का चरित्र इन सब बातों से अंजान रहता है। फिर अचानक एक रात रिचर्ड के चरित्र को उनके पूर्व सहयोगी, बर्नार्ड ऑरलिक (स्टेनली टुकी) द्वारा ट्रैक किया जाता है, जिसे मोनिकोर को एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने से रोकने के लिए उसकी मदद की सख्त जरूरत है।

सजायाफ्ता कैदी के रूप में अतीक का नंबर एलॉट

बिल्ला 17052, करना होगा हाड़तोड़ काम

एजेंसी। वड़ोदरा

उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद को सजा मिल चुकी है। इतने वर्षों तक खौफ पैदा कर राज करने वाले डॉन अतीक की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। सजायाफ्ता कैदी के रूप में शुक्रवार को जेल प्रशासन ने अतीक का नंबर एलॉट कर दिया। साबरमती जेल में अतीक को अब इसी नाम से पुकारा जाएगा।

इसी के साथ माफिया को कैदी नंबर वाला कपड़ा भी दिया जाएगा और उसे पहनना होगा, जिनसे वह काफी दिनों से बचता आ रहा था। उसके सामने जेल मैनुअल के हिसाब से विभिन्न कार्यों की सूची सौंपी गई है। जो भी काम अतीक

चुनेगा, उसे करना पड़ेगा।

प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरणकांड में अतीक अहमद समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद को पुलिस टीम ने बुधवार की रात करीब साढ़े आठ बजे साबरमती जेल में दाखिल करा दिया। इसके साथ ही पुलिस ने जेल प्रशासन को अतीक के आजीवन कारावास संबंधी प्रपत्र सौंपे। रात में अतीक को उसकी पुरानी बैरक में भेजा गया था।

साबरमती जेल अधिकारियों ने अतीक अहमद को सजायाफ्ता कैदी के रूप में बैरक आवंटित की। इसके साथ ही उसे 17052 का बिल्ला दिया गया। यानी अब वह कैदी नंबर 17052 के रूप में जाना जाएगा। अतीक को बता दिया गया कि जेल मैनुअल के हिसाब से उसे काम भी करना होगा। उसे विभिन्न कार्यों की लिस्ट सौंपी गई है। उससे कहा गया कि जो भी काम उसे आता है, वह बताए। उसी के हिसाब से उसे काम दिया जाएगा। अतीक की उम्र 60 साल से अधिक है। उसे बीमारियां भी हैं और वह पूर्व सांसद भी है। जेल सूत्रों के मुताबिक काम देते वक्त उसकी स्थितियों का ध्यान रखा जाएगा।

वहीं, अतीक अहमद को कैदियों वाली ड्रेस भी दी जाएगी। बृहस्पतिवार को ड्रेस के लिए उसकी नाप भी ली गई। जेल में हर समय वह कैदियों वाली ड्रेस में ही रहेगा। अतीक से मिलने जेल में कोई नहीं आया। सजायाफ्ता कैदी की लिखापढ़ी के दौरान जेल अधिकारियों ने उसे बुलाया था। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वह अपने बैरक में चला गया।

अन्धापनमुक्त झारखंड के लिए 2 अप्रैल को भगवान महावीर आई हॉस्पिटल का शुभारम्भ

गरीबों का मुफ्त में होगा आंखों का इलाज

महावीर जयन्ती पर राज्यवासियों को मिलेगी मुफ़्त आई हॉस्पिटल की सौगात

गरीब मरीजों के इलाज में भी संस्था करती है आर्थिक मदद

नवीन मेल संवाददाता। रांची

झारखण्ड में इलाज के अभाव में लोग अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जैन समाज ने आँख के निशुल्क इलाज एवं ऑपरेशन की योजना को मूर्त रूप दिया है भगवान महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा महावीर जयन्ती की पूर्व संध्या पर 02 अप्रैल को बरियातू रोड स्थित महावीर भवन में एक उच्च स्तरीय भगवान महावीर आई हॉस्पिटल का शुभारम्भ किया जायेगो यहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज, ऑपरेशन, दवाई एवं भोजन एवं ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। भगवान महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष पूरनमल जैन सेठी ने संवाददाताओं को बताया कि संस्था 18 साल से निःशुल्क आई कैंप एवं मोतियाविन्द का ऑपरेशन करा रही है। भगवान महावीर आई केयर विंग द्वारा 25 दिसंबर 2020 से मोबाईल वैन सेवा शुरू की गई। अबतक 399 कैम्प के माध्यम से 26047 मरीजों के आँख की जाँच की गई। 430 मरीजों का मोतियाविंद, 30 मरीजों का ग्लोकोमा एवं 20 रेटिना का निशुल्क ऑपरेशन कराया गया है। इस कार्य में झारखण्ड अंधापन नियंत्रण विभाग का सहयोग सराहनीय रहा है। उन्होंने बताया कि मई 2014 में 240 बेड का भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। संस्था मेडिका में गरीब मरीजों के इलाज में सहयोग के लिए अपने सदस्यों एवं दानदाताओं को प्रत्येक वर्ष 65 लाख रुपए का कूपन निर्गत करती है। जैन साधू-साध्वियों एवं सम्मेद शिखरजी में आये तीर्थयात्रियों का इलाज का खर्च संस्था वहन करती है। मेडिका में गरीब मरीजों को डायलिसिस के बिल में पचास प्रतिशत आर्थिक सहयोग करती है। इस प्रकार संस्था के द्वारा गरीब मरीजों के इलाज के लिए जुलाई 2014 से मार्च 2022 तक लगभग 9,99,11,033 /- राशि की मदद की जा चुकी है तो वहीं सेवा सदन में भर्ती गरीब प्रसूति महिला के इलाज में हुए खर्च पर प्रति वर्ष छह लाख रुपए का अनुदान देती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि राँची में एक उच्च स्तरीय आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है। इसके लिए जमीन भी खरीद ली गई है। हमारा लक्ष्य बच्चों को संस्कार के साथ मॉडर्न एजुकेशन उपलब्ध कराना है। प्राइवेट पैटर्न के इस स्कूल में गरीब बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करने की योजना है।

बीएड की डिग्री ली पर नहीं दे पाएंगे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा

रांची। राज्य के रांची विश्वविद्यालय सहित विनोबा भावे विवि और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि से साइंस स्ट्रीम से ऑनर्स उत्तीर्ण लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स परेशान हैं। इनमें से 10 हजार स्टूडेंट्स वैसे भी हैं, जिन्होंने ऑनर्स के साथ बीएड की डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन डिग्री होने के बावजूद शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे छात्र न तो झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) और न ही नवोदय विद्यालय समिति व केंद्रीय विद्यालय समिति की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जानेवाली प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। रांची विवि, विनोबा भावे विवि और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि से साइंस में स्नातक ऑनर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने जिस विषय में ऑनर्स लिया था। उन्हें ऑनर्स पेपर के साथ एक ही सब्सिडियरी पेपर का ऑप्शन दिया गया था। यदि किसी छात्र ने केमिस्ट्री से ऑनर्स विषय लिया, तो उसे सब्सिडियरी विषय के रूप में बॉटनी या जूलॉजी में से एक ही विषय दिया गया। जबकि सब्सिडियरी विषय के रूप में यदि उसे दोनों विषय दिया गया होता, तो वह प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की पात्रता हासिल कर लेते। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। ऐसी ही स्थिति बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स ऑनर्स की पढ़ाई करनेवालों के साथ है।

अदालत की खबरें

कोर्ट में सांसद दुबे की याचिका पर हुई सुनवाई

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को देवघर स्थित एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में देवघर एम्स के निदेशक को प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि देवघर, एम्स में आवश्यक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनको किन-किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी दें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन मई निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय एवं केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की।

विधायक ढुल्लू महतो की हुई गवाही

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिसअनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुक्रवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली जलेश्वर महतो की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में विधायक ढुल्लू महतो की गवाही हुई। जलेश्वर महतो की ओर से गवाह संख्या एक शत्रुघ्न महतो को फिर से गवाही करने के लिए आवेदन दिया गया। इस पर ढुल्लू महतो की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 अप्रैल निर्धारित की है। ढुल्लू महतो की ओर से गवाही में बताया गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में मतदान और मतगणना विधि सम्मत हुआ था। बूथ संख्या 266 का ईवीएम खराब था, चुनाव आयोग के अधिकारियों के दिशा निर्देश के आलोक में उस ईवीएम की काउंटिंग नहीं हुई थी। ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अजय शाह, विभास कुमार सिन्हा ने पैरवी की। जलेश्वर महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पैरवी की।

ममता देवी और राजीव की सुनवाई पांच को

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को गोला गोलीकांड के एक मामले में पिछले साल रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी और राजीव जायसवाल को मिली पांच साल की सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील की सुनवाई हुई। साथ ही दोनों सजायाफ्ता की ओर से अदालत से लगाई गई जमानत की गुहार पर भी सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ममता देवी एवं राजीव जायसवाल के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार एवं भोलानाथ ओझा ने पैरवी की। ममता देवी की ओर से अधिवक्ता एके साहनी और राजीव जायसवाल की ओर से अधिवक्ता एके कश्यप ने पैरवी की।

नया कोर्ट भवन 30 तक हस्तांतरित हो जाएगा

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को धुर्वा स्थित निमाणार्धीन झारखंड हाई कोर्ट के भवन एवं उसमें वकीलों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नया भवन हाई कोर्ट को 30 अप्रैल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार मई निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान भवन निर्माण सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। सरकार की ओर से कोर्ट को अंडरटेकिंग देकर बताया गया कि 30 अप्रैल तक हाई कोर्ट का धुर्वा स्थित निमाणार्धीन भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और हाई कोर्ट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि एसोसिएशन की जो भी समस्याएं हैं उसे हाई कोर्ट की कमेटी और एसोसिएशन आपस में बैठकर उसका निदान निकालेंगे।

पारा शिक्षकों की टेट विसंगति दूर कर 20 अप्रैल तक भेजें रिपोर्ट

रांची। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी से सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) के टेट विसंगति को दूर कर उसकी रिपोर्ट तलब की है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है। जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने जिलों को 20 मार्च तक इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। निर्देश के बाद धनबाद व सरायकेला खरसावां को छोड़कर अन्य जिलों ने रिपोर्ट नहीं दी है। बाकी सभी जिले 31 मार्च तक हर हाल में इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय में जमा कराए। राज्य में करीब 3000 सहायक अध्यापकों की टेट विसंगति थी। इसका निराकरण करने को कहा गया था। इसमें क्लास छह से आठ में चयनित या पहली से पांचवीं कोटि का शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की स्थित में पहली से पांचवीं में टेट प्रशिक्षित माना जाएगा।

कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू
(जिला भू-अर्जन शाखा)
दूरभाष (मो0) सं0– Email {dlaopalamau@gmail.com}

KHATIAN AND VALUATION STATEMENT
(3G Award के तहत् घोषित)
Name of Project :- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–98
(NH 98 कि0मी0 23.284 हरिहरगंज से कि0मी0 57.049 पड़वा मोड़ तक पथ का फोर लेन निर्माण)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (NHAI 98) कि0मी0 23.284 हरिहरगंज से कि0मी0 57.049 पड़वा मोड़ तक पथ का फोर लेन निर्माण हेतु अधिनियम की धारा–3G के तहत् घोषित निम्न विवरणी के अनुसार भूमि अर्जन की जा रही है। तद्नुसार उक्त विवरणी के आलोक में संबंधित रैयत साक्ष्य के साथ अपना दावा एक सप्ताह के भीतर जिला भू–अर्जन कार्यालय, पलामू में दर्ज करना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त दावा पर जिला भू–अर्जन कार्यालय विचार करने हेतु बाध्य नहीं होगा।

एन0एच0ए0आई0–98 अन्तर्गत मौजा–मड़वा, थाना–पीपरा, थाना नं0–53
पत्रांक– 201 (N)/भू0अ0, दिनांक– 21.03.2023

क्र0 स0	ग्राम का नाम	खाता	प्लॉट	अर्जनाधीन रकबा एकड़ में	किस्म	अर्जित भूमि एकड़ में	क्रमांक एवार्ड	एवार्डधारी का नाम पिता के साथ	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मड़वा	20	48	0.0860	टांड़–2	0.0860	1	पानपति कुंवर, पति स्व0 चन्द्रदेव सिंह	मन्दिर
2		2	189	0.2200	धान–2	0.2200	2	कामेश्वर सिंह वो युगेश्वर सिंह वो लालेश्वर सिंह, पिता मुनेश्वर सिंह	
3		4	64	0.0200	टांड़–2	0.0200	3	बाल मुकुन्द सिंह, पिता बालदेव सिंह वो महेन्द्र, दुखी सिंह, पिता स्व0 सुखदेव सिंह, शिव कुमार, राम कुमार, पिता स्व0 जगदेव सिंह	
4		15	93	1.0400	टाड़–3	1.0400	4	कामेश्वर सिंह, जुगेश्वर सिंह, ललेश्वर सिंह, पिता मुनेश्वर सिंह	सिविल जज सीनियर डिवीजन नं0– 1 पलामू में OS No- 117/2022 चल रहा है।
			कुल	1.3660	कुल	1.3660			

PR 294112 Palamu (22-23).D
कानूनगो, जिला भू–अर्जन कार्यालय, पलामू | जिला भू–अर्जन पदाधिकारी पलामू। | अपर समाहर्त्ता पलामू | उपायुक्त पलामू

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई–निविदा संख्या:- **322/2022-23/RWD/GARHWA** दिनांक :- **31.03.2023**

मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से पैकेज के रूप में निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	RWD/ GARHWA/37 /SRPKG-05 /2022-23	(i) लवाहीकला से पचौर तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 3.060 कि0मी0) (i) खुटिया चौक से कदवा भाया परास पानी खुर्द तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 9.100 कि0मी0) (i) पनघटवा से मरचईया तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 6.700 कि0मी0)	12,07,26,400.00	बारह करोड़ सात लाख छब्बीस हजार चार सौ रू0 मात्र	15 माह
2.	RWD/ GARHWA/38 /SRPKG-10 /2022-23	(i) परती (रामबाँध) से पिपरा दामर तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 3.200 कि0मी0) (i) भूमफोर से फेफसा तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 1.500 कि0मी0) (i) खरौंधी मेन रोड से चांदनी भाया फुलवार तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 1.575 कि0मी0) (i) पांचाडुमर परती मुख्य पथ से बातो गाँव नया टोला तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 1.500 कि0मी0)	5,42,31,200.00	पाँच करोड़ बयालीस लाख इकतीस हजार दो सौ रू0 मात्र	15 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:– 11.04.2023
3. ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:– 24.04.2023 अपराह्न 5.00 बजे तक।
4. (क) मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, अभियंत्रण भवन, कचहरी, राँची अथवा (ख) जिला नियंत्रण कक्ष, राँची अथवा (ग) जिला नियंत्रण कक्ष, गढ़वा में से किसी भी कार्यालय में निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय:– 25.04.2023 अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन– 834001 को भेजा जा सकता है। यह निविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाने वाला निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि निर्धारित तिथि एवं समय (25.04.2023 अपराह्न 3.30 बजे तक) से पूर्व प्राप्त हो जाय। अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व प्राप्त निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि पर ही विचार किया जायेगा।
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:– 26.04.2023 अपराह्न 3.30 बजे।
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:– मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन– 834001
8. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0– 0651–2207818
9. निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा के पक्ष में एवं गढ़वा में भुगतेय जमा करना होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है। नोडल पदाधिकारी ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल
PR 294169 Rural Work Department(22-23)_D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार

अल्पकालिन ई–निविदा आमंत्रण सूचना।
ई– निविदा सूचना संख्या:– RWD/SD/LATEHAR/11/2022-23

1. कार्य की विस्तृत विवरणी

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	लातेहार जिला के प्रखण्ड बरवाडीह अन्तर्गत पंचायत मोरवाईकला के ग्राम सैदुप में सैदुप नदीं पर पुल निर्माण।	4,22,42,100.00	8,45,000.00	10,000.00	18 माह
2	लातेहार जिला के प्रखण्ड हेरहंज पंचायत–सलैया ग्राम–होंजर में होंजर नदी पर पुल निर्माण।	4,96,37,000.00	9,93,000.00	10,000.00	18 माह
3	लातेहार जिला अन्तर्गत प्रखण्ड–बरियातु/बालुमाथ पंचायत–डाढ़ा/झाबर ग्राम–डेम्बू एवं डाढ़ा के बीच धोरधोरिया नदी पर पुल निर्माण।	4,23,32,107.00	8,47,000.00	10,000.00	18 माह
4	लातेहार जिलान्तर्गत प्रखण्ड–बरवाडीह के पंचायत मंगरा के ग्राम मंगरा में पंचायत भवन के पास कुशमाही नदी पर पुल निर्माण।	3,58,13,318.00	7,17,000.00	10,000.00	18 माह
5	लातेहार जिला के प्रखण्ड हेरहंज में पंचायत–सलैया अन्तर्गत ग्राम–कटांग में कटांग नदी पर पुल निर्माण।	3,09,12,259.00	6,19,000.00	10,000.00	18 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि :– 10.04.2023
3. ई–निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय:– दिनांक– 10.04.2023 से दिनांक–24.04.2023 को अपराह्न् **05:00** बजे तक।
4. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 25.04.2023 अपराह्न 05:00 बजे तक।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने का स्थान:–
   I) जिला नियंत्रण कक्ष, लातेहार
   II) ग्रामीण विकास विशेश अंचल, पलामू/जिला नियंत्रण कक्ष, पलामू।
   III) e-procurement cell, मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, रांची।
6. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की तिथि को यदि राज्य में सरकारी अवकाश घोषित होता है, तो उक्त तिथि एवं समय अगले कार्यदिवस तक स्वतः विस्तारित समझी जायेगी।
7. निविदा खोलने का स्थान – e-procurement cell, मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, रांची।
8. निविदा खोलने की तिथि एवं समय 26.04.2023 अपराह्न **02:00** बजे।
9. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार।
10. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0– 9122180770, 7061815124
11. निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार के पदनाम से देय हो देना होगा।
12. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है तद्नुसार अग्रधन की राशि देय होगी।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार
PR 293994 Rural Development(22-23)#D

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

ई–निविदा संख्या:- **330/2022-23/RWD/DALTONGANJ** दिनांक :- **31.03.2023**

मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से पैकेज के रूप में निविदा आमंत्रित की जाती है

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	RWD/ DALTONGANJ / 14/2022-23	गढ़वा पी0डब्लू0डी0 पथ जगनारायण महतो के होटल से बनखेता मटखार तक पथ निमाण कार्य (लं– 2.050 कि0मी0)	2,03,73,700.00	दो करोड़ तीन लाख तिहत्तर हजार सात सौ रू0 मात्र	12 माह
2.	RWD/ DALTONGANJ / 16/2022-23	राँची रोड खामडीह से कृष्णा चौधरी के घर होते हुए पुरनाडीह तक पथ निर्माण कार्य (लं– 4.025 कि0मी0)	3,33,83,100.00	तीन करोड़ तैंतीस लाख तेरासी हजार एक सौ रू0 मात्र	15 माह
3.	RWD/ DALTONGANJ / 17/2022-23	जंघासी खाँच से बनासो मेन रोड तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.850 कि0मी0)	2,80,48,500.00	दो करोड़ अस्सी लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ रू0 मात्र	15 माह
4.	RWD/ DALTONGANJ / 18/2022-23	मेन रोड बृजमोहन सिंह के घर, चरितर सिंह के घर, प्राथमिक विद्यालय देवी मंडप बाबा वीर कुँवर तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.500 कि0मी0)	2,63,07,300.00	दो करोड़ तिरसठ लाख सात हजार तीन सौ रू0 मात्र	15 माह
5.	RWD/ DALTONGANJ / 01/2022-23	जोगा रेलवे लाईन से जमडीहा भाया करकट्टा तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.700 कि0मी0)	2,27,21,189.00	दो करोड़ सताईस लाख इक्कीस हजार एक सौ नवासी रू0 मात्र	12 माह
6.	RWD/ DALTONGANJ / 22/2022-23	डंडीला ग्राम में रामजी कहार के घर से हैदरनगर प्रखण्ड के सड़ेया ग्राम आंगनबाड़ी केन्द्र तक पथ निर्माण कार्य (लं– 4.550 कि0मी0)	4,74,45,500.00	चार करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ रू0 मात्र	15 माह
7.	RWD/ DALTONGANJ / 23/2022-23	पिपरा प्रखण्ड के सरैया पंचायत के होलया चेरवा ग्राम आर0सी0डी0 रोड से पुनपुन उदगम स्थल कुंड होते हुए बारा बानाडीह ग्राम तक पथ निर्माण कार्य (लं– 4.200 कि0मी0)	3,95,32,000.00	तीन करोड़ पनचानवे लाख बत्तीस हजार रू0 मात्र	15 माह
8.	RWD/ DALTONGANJ / 24/2022-23	पी0डब्लू0डी0 रजवाडीह मुख्य पथ से महादेव माड़ा होते हुए खैराही तक पथ निर्माण कार्य (लं– 3.100 कि0मी0)	3,34,31,700.00	तीन करोड़ चौंतीस लाख इकतीस हजार सात सौ रू0 मात्र	15 माह
9.	RWD/ DALTONGANJ / 25/2022-23	पंचायत आसेहर के पीपल चौक से बनई होते हुए भवरदह सिवान तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.300 कि0मी0)	2,32,32,500.00	दो करोड़ बत्तीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रू0 मात्र	12 माह
10.	RWD/ DALTONGANJ / 26/2022-23	उंटारी रोड पिपराखांड़ से लकराही होते हुए प्रतिमांझी तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.000 कि0मी0)	2,15,40,800.00	दो करोड़ पन्द्रह लाख चालीस हजार आठ सौ रू0 मात्र	12 माह
11.	RWD/ DALTONGANJ / 27/2022-23	खरकटी पी0डब्लू0डी0 पथ से पुल होते हुए बंदन प्रजाप्रति के घर तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.300 कि0मी0)	2,14,54,200.00	दो करोड़ चौदह लाख चौवन हजार दो सौ रू0 मात्र	12 माह
12.	RWD/ DALTONGANJ / 28/2022-23	एन0एच0–75 चियांकी सक्रेट हार्ट स्कूल होते हुए कृषि अनुसंधान केन्द्र से पीपल पेड़ होते हुए पंचायत सचिवालय चियांकी से मेन रोड चियांकी पार्क तक पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लं– 2.868 कि0मी0)	1,96,57,100.00	एक करोड़ छियानवे लाख सनतावन हजार एक सौ रू0 मात्र	12 माह
13.	RWD/ DALTONGANJ / 29/2022-23	पंचायत दुब के बरवईया बगीचा से गैस गोदाम तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.000 कि0मी0)	1,94,87,900.00	एक करोड़ चौरानवे लाख सतासी हजार नौ सौ रू0 मात्र	12 माह
14.	RWD/ DALTONGANJ / 30/2022-23	एन0एच0–75 चियांकी रोड से बैगा टोला, चन्द्रिका सिंह के घर एवं दशगात्र मण्डप होते हुए अमरेश यादव के घर तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.030 कि0मी0)	1,85,50,100.00	एक करोड़ पचासी लाख पचास हजार एक सौ रू0 मात्र	12 माह
15.	RWD/ DALTONGANJ / 31/2022-23	लिढ़की से केकतुआ एवं प्रजाप्रति मुहल्ला होते हुए हरिजन मोहल्ला तक पथ निर्माण कार्य (लं– 1.700 कि0मी0)	1,68,99,600.00	एक करोड़ अड़सठ लाख निनानवे हजार छः सौ रू0 मात्र	12 माह
16.	RWD/ DALTONGANJ / 32/2022-23	पंचायत तेतरई आर0सी0डी0 मेन रोड धानुक टोला से शेख मुहल्ला होते हुए सांई टोला तीन मुहान तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.100 कि0मी0)	1,55,72,900.00	एक करोड़ पचपन लाख बहत्तर हजार नौ सौ रू0 मात्र	12 माह
17.	RWD/ DALTONGANJ / 33/2022-23	सूरज पाण्डेय के घर से जय दुबे के घर होते हुए चेड़ाबार मोड़ तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.100 कि0मी0)	1,55,08,100.00	एक करोड़ पचपन लाख आठ हजार एक सौ रू0 मात्र	12 माह
18.	RWD/ DALTONGANJ / 34/2022-23	हरिहर प्रजाप्रति के घर से कुम्हार टोला होते हुए वृन्दावन तिवारी के घर तक पथ निर्माण कार्य (लं– 1.570 कि0मी0)	1,46,70,500.00	एक करोड़ छियालीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ रू0 मात्र	09 माह
19.	RWD/ DALTONGANJ / 35/2022-23	ग्राम पहलदेवा आजाद बिगहा से कालीपुर देवी स्थान तक पथ निर्माण कार्य (लं– 1.500 कि0मी0)	1,24,61,200.00	एक करोड़ चौबीस लाख इकसठ हजार दो सौ रू0 मात्र	09 माह
20.	RWD/ DALTONGANJ / 36/2022-23	मेन रोड आर0ई0ओ0 मोड़ से मनोज चौरसिया के घर एवं राजबिहारी चौरसिया के घर होते हुए छप्परदागा सिवाना तक पथ निर्माण कार्य (लं– 1.200 कि0मी0)	1,20,63,900.00	एक करोड़ बीस लाख तिरसठ हजार नौ सौ रू0 मात्र	09 माह
21.	RWD/ DALTONGANJ / 20/2022-23	चेड़ी धाम (बंदला) से दरूआ पुल तक पथ निर्माण कार्य (लं– 3.200 कि0मी0)	3,11,13,330.00	तीन करोड़ ग्यारह लाख तेरह हजार तीन सौ तीस रू0 मात्र	15 माह
22.	RWD/ DALTONGANJ / 13/2022-23	कुराईन पतरा में रूपदेव साव के घर से कुराईन पतरा नवलेश मेहता के घर होते हुए मेन रोड तक पथ निर्माण कार्य (लं– 2.250 कि0मी0)	1,44,63,800.00	एक करोड़ चौवालीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ रू0 मात्र	09 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:– **10.04.2023**
3. ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:– **21.04.2023** अपराह्न 5.00 बजे तक।
4. **(क)** मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, अभियंत्रण भवन, कचहरी, राँची अथवा **(ख)** जिला नियंत्रण कक्ष, **राँची** अथवा **(ग)** जिला नियंत्रण कक्ष, **डालटनगंज** में से किसी भी कार्यालय में निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय:– **24.04.2023** अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन– 834001 को भेजा जा सकता है। यह निविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाने वाला निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि निर्धारित तिथि एवं समय (24.04.2023 अपराह्न 3.30 बजे तक) से पूर्व प्राप्त हो जाय। अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व प्राप्त निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि पर ही विचार किया जायेगा।
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:– **25.04.2023** अपराह्न 3.30 बजे।
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:– मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन– 834001
8. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0– 0651–2207818
9. निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **डालटनगंज** के पक्ष में एवं **डालटनगंज** में भुगतेय जमा करना होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल
PR 294203 (Rural Work Department) 22-23 (D)

रामनवमी पर्व पर भव्य रूप से शोभायात्रा निकाली गई

नवीन मेल संवाददाता। रांची

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के शुभावसर पर गौरीशंकर नगर संकट मोचन मंदिर डोरंडा से शोभायात्रा निकाली गई। संकट मोचन मंदिर समिति के अध्यक्ष सह लोकजनशक्ति (आर) के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से पूरा क्षेत्र राममय हो गया। बैंड बाजे के साथ माथे पर गेरुवा साफा बांधे रामभक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। मौके पर समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने बताया की करीब 25 वर्ष से भी ज्यादा समय से रामनवमी के मौके पर यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल होते हैं। शोभायात्रा के आयोजन में शिवजी कुमार, दिनेश सोनी, उमेश तिवारी, अभिषेक राय, सूर्य विजय प्रधान, आदित्य विजय प्रधान, आनंद प्रकाश पांडेय, राजेश वर्मा, संतोष सिंह, प्रभात रंजन, छोटू समेत हजारों रामभक्त शामिल हुए।

NEWS इन ब्रीफ

एएफसीओएन की तारीखों की पुष्टि

काहिरा। अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ (सीएएफ) ने घोषणा की है कि अफ्रीका कप आफ नेशंस (एएफसीओएन) कोटे डी आइवर 2023 का आयोजन 13 जनवरी से 11 फरवरी, 2024 तक किया जाएगा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सीएएफ ने एक बयान में कहा कि एएफसीओएन दूसरी बार कोटे डी आइवर में वापसी करेगा। सेनेगल ने अफ्रीका की शीर्ष अंतरराष्ट्रीय महाद्वीपीय चैंपियनशिप का पिछला संस्करण जीता था।

आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा

दुबई। आयरलैंड की महिला टीम 2005 के बाद से पहली बार ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगी और साथ ही सफेद बॉल सीरीज के लिए वेस्टइंडीज और हॉलैंड का दौरा भी करेगी। आईसीसी की रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड का व्यस्त कार्यक्रम उसे शीर्ष टीमों के खिलाफ बहुमूल्य अनुभव देगा और मौजूदा महिला विश्व कप चैंपियन के सामने उसकी कड़ी परीक्षा होगी। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम 2005 के बाद से पहली बार वनडे सीरीज के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी जब वह जुलाई में क्लोनटर्फ में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी जो आईसीसी महिला चैंपियनशिप का हिस्सा होगी।

केरला ब्लास्टर्स एफसी के मिडफील्डर एड्रियन लूना सुपर कप से बाहर

नई दिल्ली। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की टीम केरला ब्लास्टर्स एफसी ने घोषणा की है कि मिडफील्डर एड्रियन लूना केरल में होने वाले आगामी सुपर कप के लिए उनकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लूना निजी कारणों से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। क्लब अपने प्रशंसकों को सूचित करना चाहता है कि एड्रियन लूना को व्यक्तिगत कारणों से विस्तारित अवकाश दिया गया है। परिणामस्वरूप, वह हीरो सुपर कप के आगामी संस्करण में भाग नहीं लेंगे। हम इस प्रतियोगिता के महत्व को समझते हैं, लेकिन हम टीम से दूर रहने के लिए एड्रियन की जरूरत का सम्मान करेंगे।

विम्बलडन में रूसी और बेलारूसी एथलीट तटस्थ के रूप में लेंगे भाग

लंदन। रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों को इस वर्ष विम्बलडन में तटस्थ एथलीट के रूप में भाग लेने की अनुमति दे दी गयी है। आल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब ने दोनों देशों के खिलाड़ियों पर लगा प्रतिबंध शुक्रवार को हटा दिया जो पिछले वर्ष रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद लगाया गया था। रूस और बेलारूस से खिलाड़ी तटस्थ एथलीट के रूप में हिस्सा ले सकते हैं बशर्ते वे उन शर्तों का पालन करें जैसे रूस या बेलारूस से कोई धन नहीं लेना और उन्हें रूस और/या बेलारूस देश या उनके प्रशासन और नेताओं को समर्थन नहीं देना शामिल होगा।

कीवियों से हार के बाद श्रीलंका विश्व कप के लिए सीधा क्वालीफाई से चूका

पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 सुपर लीग तालिका में आठवां स्थान पाने से चूक गया श्रीलंका

एजेंसी। हैमिल्टन

श्रीलंका तीसरे और अंतिम वनडे में न्यूजीलैंड से छह विकेट से हारने के बाद पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग तालिका में आठवां स्थान पाने से चूक गया। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन उसके बल्लेबाज न्यूजीलैंड की गति और उछाल के आगे संघर्ष करते रहे। मैट हेनरी (3/14), हेनरी शिप्ली (3/32) और डेरिल मिचेल (3/32) ने तीन-तीन विकेट लेकर श्रीलंका की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। श्रीलंका की टीम 41.3 ओवर में 157 रन पर लुढ़क गयी।

श्रीलंका की तरफ से पथुम निसंका (57), दासुन शनाका (31) और चमिका करुणारत्ने (24) ही कुछ संघर्ष कर पाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने अपने तीन विकेट पहले सात ओवरों में ही गंवा दिए। लेकिन विल यंग और हेनरी निकोल्स ने शानदार पारियां खेलते हुए न्यूजीलैंड को छह विकेट से जीत दिला दी। यंग ने नाबाद 86 और निकोल्स ने नाबाद 44 रन बनाये। न्यूजीलैंड ने 32.5 ओवर में चार विकेट पर 159 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।

न्यूजीलैंड ने 2-0 से जीती सीरीज

न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज 2-0 से जीती। इस हार से श्रीलंका ने 81 अंकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया और वेस्टइंडीज (88 अंक) से आगे निकलने में असफल रहा। श्रीलंका अब जून में विश्व कप क्वालीफायर खेलने जिम्बाब्वे का दौरा करेगा। न्यूजीलैंड 175 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। वेस्टइंडीज को आठवें स्थान के लिए दक्षिण अफ्रीका (78) और आयरलैंड (68) से खतरा है।

आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी

रश्मिका मंधाना और तमन्ना ने दी शानदार डांस परफॉर्मेंस

अरिजीत सिंह ने अपने गानों से बांधा समां

एजेंसी। अहमदाबाद

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की धमाकेदार शुरुआत हुई। आईपीएल के इस 16वें संस्करण से पहले शानदार रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। ओपनिंग सेरेमनी में ग्लेमरस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और रश्मिका मंधाना ने बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी। सेरेमनी में जाने-माने सिंगर अरिजीत सिंह ने भी अपनी जादुई आवाज से समां बांध दिया। आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले सिंगर अरिजीत सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस दी। अरिजीत ने ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, वंदे मातरम-वंदे मातरम, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, दिला का दरिया बह ही गया इश्क इबादत तू बन गया जैसे गाने गाए। अरिजीत ने जैसे ही झूमे जो पठान गाना शुरू किया स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। अरिजीत सिंह की आवाज का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोला। अरिजीत सिंह ने गिव मी ट्विस्ट, प्यार होता-होता-होता कई बार है, घुंघरू टूट गए, ले जाए तुझे हवाएं जैसे गाने भी गाए। अरिजीत सिंह ने ओपन गाड़ी में ग्राउंट के चारों ओर चक्कर भी लगाए। इस दौरान कुछ लोग भारत का झंडा तिरंगा के साथ-साथ आईपीएल की सभी 10 टीमों के झंडे लेकर उनकी गाड़ी के पीछे-पीछे चल रहे थे। अरिजीत सिंह ने करीब 35 मिनट तक परफॉर्म किया।

रॉस टेलर ने भारत के तेज आक्रमण का किया समर्थन

दुबई। डब्ल्यूटीसी विजेता रॉस टेलर का मानना है कि अगर जसप्रीत बुमराह चोट के कारण बाहर रहते हैं तो भारत के पास इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में आस्ट्रेलिया को परेशान करने के लिए तेज आक्रमण है। स्पिन प्रमुख हथियार था, क्योंकि भारत ने घरेलू धरती पर हाल ही में टेस्ट श्रृंखला में आस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था, लेकिन तेज गेंदबाजों को जून में डब्ल्यूटीसी फाइनल में फिर से भिड़ने पर दोनों हमलों का नेतृत्व करने की उम्मीद है। मोहम्मद शमी आस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया श्रृंखला में नौ विकेट लेकर भारत के तेज गेंदबाजों में सर्वश्रेष्ठ थे, जबकि उमेश यादव ने दो मैचों में तीन विकेट लिए और मोहम्मद सिराज ने तीन टेस्ट मैचों में 24 ओवरों में सिर्फ एक विकेट लिया। जबकि अधिकांश तेज गेंदबाजों ने भारत में बॉर्डर-गावस्कर श्रृंखला में प्रभाव बनाने के लिए संघर्ष किया।

हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय कोचिंग शिविर

39 सदस्यीय ग्रुप की घोषणा

एजेंसी। नई दिल्ली

हॉकी इंडिया ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए शुक्रवार को 39 सदस्यीय भारतीय पुरुष कोर ग्रुप की घोषणा की। टीम के यूरोप दौरे से पहले 21 मई को शिविर का समापन होगा, जहां वे एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2022-2023 के शेष सत्र में बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड और अर्जेंटीना से भिड़ेंगे।

राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए बुलाए गए कोर ग्रुप में कृष्ण बहादुर पाठक, श्रीजेश परट्टु रवींद्रन, सूरज करकेरा, पवन मलिक, प्रशांत कुमार, जरमनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार, हरमनप्रीत सिंह, वरुण कुमार, अमित रोहिदास, गुरिंदर सिंह, जुगराज सिंह, मनदीप मोर, नीलम संजीप सेस, संजय, यशदीप सिवाच और दिप्सन टिर्की शामिल हैं। मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, मोइरंगथेम रबीचंद्र सिंह, शमशेर सिंह, नीलकांत शर्मा, राजकुमार पाल, सुमित, आकाशदीप सिंह, गुरजंत सिंह, मो. राहील मौसीन, मनिंदर सिंह, एस कार्थी, मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, अभिषेक, दिलप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, सिमरनजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, मंजीत, पवन राजभर को भी कोर ग्रुप में रखा गया है।

तीसरा टी-20 : आयरलैंड ने बांग्लादेश को हराया

एजेंसी। चटगांव

पॉल स्टर्लिंग और मैथ्यू हम्फ्रेस के शानदार प्रदर्शन से आयरलैंड ने बांग्लादेश को तीसरे और अंतिम टी-20 में शुक्रवार को सात विकेट से हरा दिया। हम्फ्रेस ने अपने टी-20 पदार्पण में अपनी पहली तीन गेंदों पर दो विकेट हासिल किये और आयरलैंड ने बांग्लादेश को 19.2 ओवर में 124 रन पर लुढ़का दिया। पॉल स्टर्लिंग की 77 रन की शानदार पारी से आयरलैंड ने 14 ओवर में तीन विकेट पर 126 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली। आयरलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ यह पहली जीत है, हालांकि बांग्लादेश ने टी-20 सीरीज 2-1 से जीती। दोनों टीमें अब चार अप्रैल से ढाका में एकमात्र टेस्ट खेलेंगी।

आइस हॉकी महिला विश्व चैम्पियनशिप

इजराइल ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत

एजेंसी। यरुशलम

इजराइल ने आइस हॉकी महिला विश्व चैंपियनशिप के ग्रुप बी के डिवीजन तीन में बोस्निया और हजेगोविना के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज की। यह इजराइल की महिला टीम के लिए पहली विश्व चैंपियनशिप जीत थी, जिसने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय एरीना में डेब्यू किया है। इजराइल ने इस प्रकार तीन-टीम समूह में 1-3 जीत-हार के रिकॉर्ड के साथ अपने अभियान को पूरा किया, जबकि बोस्निया वर्तमान में टूर्नामेंट में 1-2 से आगे है। सर्बिया, जो 3-0 का रिकॉर्ड रखता है और टूर्नामेंट के समापन मैच में शुक्रवार को बोस्निया का सामना करेगा, ने ग्रुप ए में पहला स्थान हासिल किया है। मैच के शुरू होने के केवल 49 सेकेंड बाद ही पनीना बसोव गोल कर इजराइल को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद ओरी जिओनी ने 44वें मिनट में गोल कर स्कोर दोगुना कर दिया, लेकिन एमिना सोपोविक ने एक मिनट से भी कम समय में गोल कर स्कोर को 1-2 कर दिया। लोटेम अरमोजा और शनि कोटलर ने क्रमशः 46वें और 51वें मिनट में गोल कर इजराइल की जीत पक्की कर दी।

पीसीबी ने विश्व कप 2023 के लिए तटस्थ स्थलों की चर्चा से किया इंकार

पाकिस्तान के सारे मैच बांग्लादेश में खेलने की हो रही थी चर्चा

एजेंसी। लाहौर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष नजम सेठी ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तानी टीम के भारत में अक्टूबर में होने वाले वनडे विश्व कप मैचों में खेलने के लिए निष्पक्ष स्थलों को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। पीसीबी ने हालांकि यह पुष्टि की कि सेठी और प्रबंधन समिति द्वारा एशिया कप 2023 के लिए भारत के मैचों को पाकिस्तान के बजाये निष्पक्ष स्थल पर कराने पर अभी चर्चा चल रही है।

इस बात पर चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश में अपने 2023 वनडे विश्व कप के मैच खेल सकती है। भारत इस विश्व कप का मेजबान है, लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को देखते हुए इस विचार पर आईसीसी स्तर पर चर्चा की गई है, जिसमें हाइब्रिड एशिया कप मॉडल को समाधान के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी कर रहा है लेकिन भारत अपने मैच तटस्थ स्थान पर खेलेगा। यह विचार दुबई में हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक के दौरान सामने आया था, जहां एशिया कप में भारत की उपस्थिति और विश्व कप में पाकिस्तान की उपस्थिति, दोनों देशों के लिए चर्चा का प्रमुख विषय थे। वहां तटस्थ स्थानों पर मैचों के आयोजन का केवल एक विकल्प के रूप में उल्लेख किया गया था। हालांकि इस मामले पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है।



एक आधिकारिक बयान के जरिये सेठी ने कहा कि उन्होंने एसीसी एशिया कप के लिए एसीसी अधिकारियों के समक्ष पेश अपने हाइब्रिड मॉडल को लेकर मीडिया को ब्रीफ किया था ताकि बीसीसीआई के पाकिस्तान में टीम न भेजने के फैसले से उठे गतिरोध को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहाः भारत के मैच निष्पक्ष स्थल पर खेलने और बाकी पाकिस्तान में खेलने का प्रस्ताव एसीसी में चर्चा के तहत है। गुरूवार के मीडिया संवाद में मैंने किसी चरण में आईसीसी को सन्दर्भ या विश्व कप को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। यह मामला आईसीसी मंच में अभी तक उठाया नहीं गया है। पीसीबी ने पाकिस्तान के विश्व कप 2023 के मैचों के लिए निष्पक्ष स्थलों को लेकर चल रही गलत रिपोर्टों की भी कड़ी आलोचना की।

आईपीएल 2023 **एलएसजी कोच एंडी फ्लावर ने कहा**

मोहसिन की चोट टीम के लिए बड़ा झटका

मोहसिन के कंधे की चोट के कारण 2023 सीजन के अधिकांश भाग से चूकने की उम्मीद

एजेंसी। लखनऊ

लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के मुख्य कोच एंडी फ्लावर का मानना है कि मोहसिन खान की चोट आईपीएल 2023 से पहले उनकी टीम के लिए एक बड़ा झटका है। बाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज, मोहसिन के कंधे की चोट के कारण 2023 सीजन के अधिकांश भाग से चूकने की उम्मीद है। एंडी के अनुसार, उनकी अनुपस्थिति उनकी टीम के लिए बॉडी ब्लो है।

एंडी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहाः उनका टीम में नहीं होना एक झटका है, इसमें कोई शक नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह टूर्नामेंट के अंत में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि, एंडी ने माना कि वह शायद इस सीजन में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन, काफी स्पष्ट रूप से, मैंने उसे चयन विकल्प के रूप में काफी हद तक खारिज कर दिया था और अगर वह टूर्नामेंट के दौरान किसी चरण में फिट हो जाता है, तो मैं इसे एक बोनस के रूप में देखता हूं। लेकिन मैं निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं कर रहा हूं। चाहे हम डैथ ओवरों में कमजोर हों या बीच के ओवरों में, हम जल्द ही इसमें सुधार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। हमारा काम उन कुछ रायों के बारे में चिंता करना नहीं है, हमारा काम मैदान पर अच्छा खेलना है। मोहसिन पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले थे और उन्होंने दिखाया कि कोई भी व्यक्ति कितनी जल्दी कुछ ही हफ्तों में आगे बढ़ सकता है। किसी भी युवा क्रिकेटर के लिए यह रोमांचक है।

पंत और बुमराह की जगह लेंगे अभिषेक पोरेल और संदीप वारियर

इंडियन प्रीमियर लीग की टीमों दिल्ली कैपिटल्स और मुम्बई इंडियंस ने चोटिल खिलाड़ियों ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की जगह लेने के लिए अभिषेक पोरेल और संदीप वारियर के नामों की घोषणा की है। दिल्ली कैपिटल्स ने नई दिल्ली में सप्ताह लम्बे शिविर, जिसमें ट्रायल मैच भी शामिल थे, के बाद पोरेल को अनुबंधित किया। विकेटकीपर बल्लेबाज पोरेल ने बंगाल के लिए 16 प्रथम श्रेणी, तीन लिस्ट ए और इतने ही टी-20 मैच खेले हैं। पोरेल के नाम 30.21 के औसत से घरेलू क्रिकेट में 695 रन हैं और उन्होंने विकेट के पीछे 58 कैच लपकने के अलावा आठ स्टंपिंग की हैं। वह 20 लाख रुपये की कीमत पर दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ेंगे। पंत दिसम्बर 2022 में एक गंभीर कार दुर्घटना में लगी चोटों से उबर रहे हैं। दिल्ली के पास अब पोरेल, सरफराज खान, मनीष पांडेय और फिल साल्ट के रूप में चार विकेटकीपर हो गए हैं। दूसरी तरफ 2021 में भारत के लिए पदार्पण करने वाले वारियर मुम्बई टीम में बुमराह की जगह आएंगे। बुमराह पीठ की चोट के कारण पिछले वर्ष सितम्बर से एक्शन से बाहर हैं। घरेलू क्रिकेट के अनुभवी खिलाड़ी दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वारियर ने 200 से ऊपर मैच खेले हैं जिनमें से 68 टी-20 में उन्होंने 62 विकेट लिए हैं।